

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 सितम्बर 2019—आश्विन 5, शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2019

क्र. ई-1-370-2019-5-एक.—श्री अभिषेक सिंह, भाप्रसे (2009), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, की सेवाएं जनजातीय कार्य विभाग को सौंपते हुए, उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास, भोपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री अभिषेक सिंह द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे (वेतन) नियमावली 2016 के नियमों के अन्तर्गत प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, अनुसूचित

जनजाति वित्त एवं विकास, भोपाल के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2019

क्र. ई-13-35-2019-5-एक.—श्रीमती रश्मि अरूण शर्मा, भाप्रसे (1994), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 23 से 27 सितम्बर 2019 तक चीन में आयोजित "Executive Programme on Education Development on Early Childhood Education" हेतु नामांकित किया गया है, मैं भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) उक्त प्रशिक्षण पर होने वाला संपूर्ण व्यय विश्व बैंक द्वारा वहन किया जावेगा।

7003

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2019

क्र. ई-1-380-2019-5-एक.—श्री एम. बी. ओझा, भाप्रसे (2001), आयुक्त महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को श्री बी. एम. शर्मा, भाप्रसे (2001), कमिश्नर, ग्वालियर संभाग ग्वालियर की दिनांक 31 अगस्त 2019 को सेवानिवृत्ति उपरान्त अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, ग्वालियर संभाग ग्वालियर पदस्थ किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2019

क्र. ई-1-377-2019-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 अगस्त 2019 द्वारा सुश्री जयति सिंह, भाप्रसे (2016), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डबरा, जिला ग्वालियर को कलेक्टर कार्यालय, ग्वालियर में संबद्ध किया गया है।

(2) सुश्री जयति सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुरार, जिला ग्वालियर पदस्थ किया जाता है।

क्र. ई-5-683-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 16 अगस्त 2019 द्वारा श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को दिनांक 10 से 13 सितम्बर 2019 तक, थाईलेण्ड में आयोजित अध्ययन कार्यक्रम में भाग लेने के अनुक्रम में दिनांक 14 से 15 सितम्बर 2019 तक, दो दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है।

(2) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती गौरी सिंह, भाप्रसे, विकअ-सह-विकास आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती पल्लवी जैन गोविल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती गौरी सिंह, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती पल्लवी जैन गोविल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पल्लवी जैन गोविल अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2019

क्र. ई-1-379-2019-5-एक.—श्री इलैयाराजा टी., भाप्रसे (2009) उपसचिव, मुख्यमंत्री तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग एवं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, विमानन (अतिरिक्त प्रभार) को केवल विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, विमानन के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है।

(2) श्री पंकज जैन, भाप्रसे (2012) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, संचालक, विमानन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-1-386-2019-5-एक.—श्री अनुपम राजन, भाप्रसे (1993), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2019

क्र. ई-5-685-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री डी. पी. आहूजा, भाप्रसे., आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर मध्यप्रदेश को दिनांक 19 से 31 अगस्त 2019 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 अगस्त 2019 एवं 1 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री डी. पी. आहूजा, भाप्रसे की अवकाश अवधि में आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर मध्यप्रदेश का प्रभार श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे, अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. आहूजा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री डी. पी. आहूजा, भाप्रसे द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे, सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री डी. पी. आहूजा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. आहूजा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2019

क्र. ई-1-341-2019-5-एक.—श्री कवीन्द्र कियावत, भाप्रसे (2000), सदस्य, सचिव मध्यप्रदेश खाद्य आयोग, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, रेशम, मध्यप्रदेश, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री कवीन्द्र कियावत द्वारा आयुक्त रेशम, मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनोज खत्री, भाप्रसे (2008), प्रबंध संचालक, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल तथा आयुक्त, रेशम मध्यप्रदेश भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल आयुक्त, रेशम मध्यप्रदेश भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

क्र. ई-1-347-2019-5-एक.—श्री दिलीप कुमार, भाप्रसे (2008), कार्यपालक संचालक, राज्य खनिज निगम, भोपाल की सेवाएं खनिज साधन विभाग से वापस लेकर उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से राज्यपाल के उपसचिव राजभवन सचिवालय के पद पर पदस्थ किया जाता है।

क्र. ई-1-388-2019-5-एक.—श्रीमती सरिताबाला ओम प्रजापति, भाप्रसे (2011), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-5-776-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बी. चन्द्रशेखर, भाप्रसे., सचिव मुख्यमंत्री तथा कार्यपालक संचालक, लोक सेवा प्रबंधन एवं मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन को भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 30 सितम्बर से 4 अक्टूबर 2019 तक यूएसए में आयोजित प्रशिक्षण कार्यभार में भाग लेने के अनुक्रम में दिनांक 5 से 8 अक्टूबर 2019 तक, चार दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री बी. चन्द्रशेखर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव मुख्यमंत्री तथा कार्यपालक संचालक, लोक सेवा प्रबंधन एवं मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री बी. चन्द्रशेखर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. चन्द्रशेखर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधि रंजन मोहंती, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2019

क्र. ई-5-607-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. सी. गुप्ता, आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा आयुक्त, उद्योग एवं प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम तथा प्रमुख सचिव, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 3 अगस्त 2019 द्वारा दिनांक 13 से 16 अगस्त 2019 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2019

क्र. ई-5-851-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एम. बी. ओझा, आयएएस., आयुक्त महिला बाल विकास, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी बाजपेयी, बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, भोपाल एवं सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 25 जुलाई 2019 द्वारा दिनांक 29 जुलाई से 3 अगस्त 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 29 जुलाई से 2 अगस्त 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 25 जुलाई 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

क्र. ई-5-938-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मधुकर अग्नेय, आयएएस, अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा को दिनांक 15 जुलाई से 1 अगस्त 2019 तक, अठारह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री मधुकर अग्नेय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मधुकर अग्नेय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2019

क्र. ई-5-873-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अभिषेक सिंह, आयएएस., तत्कालीन कलेक्टर, जिला सीधी (वर्तमान में प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम) को दिनांक 8 से 17 अगस्त 2019 तक, दस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री अभिषेक सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिषेक सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीप्ति गौड़ मुकजी, प्रमुख सचिव (कार्मिक).

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2019

क्र. एफ 1-64-2019-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री चंचल शेखर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, रीवा जोन, रीवा को दिनांक 23 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2019 तक, नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 21-22 सितम्बर 2019 व 2 अक्टूबर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित सिंगापुर की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) श्री चंचल शेखर, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री अविनाश शर्मा, भापुसे. पुलिस उप महानिरीक्षक, रीवा रेन्ज रीवा द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री चंचल शेखर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पुलिस महानिरीक्षक, रीवा जोन, रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री चंचल शेखर, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री चंचल शेखर, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चंचल शेखर, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. आर. भोंसले, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2019

संशोधित आदेश

क्र. एफ 1(ए)19-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 31 मई 2019 को निरस्त करते हुए,

श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे, सेनानी 2री वाहिनी, विसबल, ग्वालियर को खण्ड वर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष दिनांक 6 से 14 जून 2019 तक, कुल नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 5 जून व 15-16 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में गृह नगर अवकाश सुविधा के स्थान पर भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1.	श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल	—	स्वयं
2.	श्रीमती अंजू शुक्ल	—	पत्नी
3.	श्री सहर्ष शुक्ल	—	पुत्र

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सेनानी, 2री वाहिनी, विसबल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1(ए)163-1989-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री आर. के. टण्डन, भापुसे., अति. पुलिस महानिदेशक, सीआईडी, भोपाल को दिनांक 28 जुलाई से 1 अगस्त 2019 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. टण्डन, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, सीआईडी, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आर. के. टण्डन, भापुसे., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. टण्डन, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2019

क्र. एफ 1-44-2019-ब-2-दो.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जुलाई 2019 द्वारा श्री अनिल माहेश्वरी, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, छतरपुर रेंज छतरपुर को दिनांक 17 से 29 जून 2019 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 15-16 जून 2019 के पूर्ववर्ती तथा दिनांक 30 जून 2019 के पश्चात्पूर्वी विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित

सिंगापुर, लंदन (UK) की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति प्रदान की गई थी.

(2) श्री अनिल माहेश्वरी, भापुसे, द्वारा अपरिहार्य कारणों से उक्त स्वीकृत अवकाश का लाभ न लेने के कारण निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निरस्त की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रीति यादव, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2019

फा. क्र. 4875-इक्कीस-ब(दो)2019.—मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, अधिनियम, 1983 (क्रमांक 29 सन् 1983) की धारा 4 व 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री बी. पी. पटेल, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता को मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल में तकनीकी सदस्य के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 5 वर्ष की कालावधि के लिए

या उस समय तक के लिए जब तक की वह 65 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते हैं, इनमें से जो भी पूर्वोत्तर हो, नियुक्त करता है.

F. No. 4875-XXI-B (II) 2019.—In exercise of the powers conferred by Section 4 and 5 of the Madhya Pradesh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983 (No. 29 of 1983), the State Government hereby, appoints Shri B. P. Patel, Retired Chief Engineer as Technical Member of the Madhya Pradesh Arbitration Tribunal, Bhopal from the date he assumes charge of the office for the period of five years or till he attains the age of sixty five year, whichever is earlier.

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2019

फा. क्र. 4562-2019-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अवधेश कुमार (गुप्ता), संकाय सदस्य (वरिष्ठ), मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर का स्थानान्तरण नियमित न्यायालय में किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है.

फा. क्र. 4570-2019-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की स्थापना पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने हेतु उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों की सेवाएं, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है:—

क्र. (1)	नाम (2)	पदस्थापना (3)
1	श्री अक्षय कुमार द्विवेदी, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर.	अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर की हैसियत से रिक्त पद पर.
2	श्री धीरेन्द्र सिंह, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल.	संकाय सदस्य (वरिष्ठ) मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर की हैसियत से श्री अवधेश कुमार (गुप्ता) के स्थान पर.
3	श्री जयंत शर्मा, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर.	संकाय सदस्य (कनिष्ठ-1) मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर की हैसियत से रिक्त पद पर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2019

फा. क्र. 1 (सी) 4890-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989) की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जिला बैतूल के लिये उक्त अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत श्री शशिकांत नागले, अधिवक्ता (नामांकन क्र. एम. पी./962/98, दिनांक 10 सितम्बर 1999) को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. श्री शशिकांत नागले, अधिवक्ता की उक्त विशेष लोक अभियोजक के पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्मतिथि दिनांक 1 सितम्बर 1971 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी.

श्री शशिकांत नागले को ऐसे विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्य के लिए देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी) एट्रोसिटी-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 26 सितम्बर 2018 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण (01) अनुसूचित जातियों का कल्याण (800)-अन्य व्यय-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना (सबस्कीम) योजना (5171)-विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां की उपमद-003-अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2019

क्र. 2864-3189-2019-1-उनसठ.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3 मई 2019 द्वारा श्रीमती माधवी नागेन्द्र, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग को अपने कार्य के साथ-साथ प्रशासक, मध्यप्रदेश राज्य होम्योपैथी परिषद् के पद का प्रभार सौंपा गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश राज्य होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 की धारा 40 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग को अपने कार्य के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रशासक, मध्यप्रदेश राज्य होम्योपैथी परिषद् के पद का प्रभार तत्काल प्रभार से सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कलावती उड़के, अवर सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2019

क्र. बी-4-14-2018-चौदह-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, मंत्रि-परिषद् आदेश आयटम क्रमांक 7, दिनांक 6 अगस्त, 2019 के परिपालन में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के अन्तर्गत जिला-छिन्दवाड़ा में उद्यानिकी महाविद्यालय हेतु अनुवर्ती स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के अन्तर्गत जिला छिन्दवाड़ा में उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना हेतु परियोजना परीक्षण समिति की बैठक दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 तथा दिनांक 16 जनवरी, 2019 की अनुशंसा अनुसार शैक्षणिक 51 पद एवं गैर शैक्षणिक 39 नियमित पद एवं 37 आउटसोर्स पद कुल गैर शैक्षणिक 76 पदों की स्वीकृति परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 अनुसार दी जाती है.

2. उद्यानिकी महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2019-20 से प्रारंभ कर पी.ए.टी. 2019 की प्रवेश परीक्षा की प्रवीणता सूची से छात्रों को प्रवेश दिया जावे.

3. नवीन उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना हेतु कलेक्टर, जिला-छिन्दवाड़ा द्वारा मौजा ग्राम खुनाझिरकला, रा.नि.मं. इकलबिहारी, तहसील मोहखेड, जिला छिन्दवाड़ा स्थित भूमि खसरा नं. 497/1, 497/2/1, 497/3 एवं 498 रकबा क्रमशः 32.376 हैक्टेयर, 3.751 हैक्टेयर, 7.281 हैक्टेयर एवं 0.575 हैक्टेयर कुल रकबा 43.983 हैक्टेयर चिन्हांकित भूमि का उपयोग किया जावे.

4. उद्यानिकी महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा की स्थापना के लिये प्रथम वर्ष में महाविद्यालय का कार्य जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के अन्तर्गत जोनल कृषि अनुसंधान केन्द्र एवं कृषि विज्ञान केन्द्र छिन्दवाड़ा में प्रथम वर्ष में प्रारंभ किया जावे तथा इस हेतु तात्कालिक आवश्यक व्यवस्थाओं की सुनिश्चितताओं हेतु राशि रुपये 500.00 लाख आवर्ती/अनावर्ती व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जावे. तत्पश्चात् उद्यानिकी महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा का पृथक् बजट शीर्ष स्थापित कर विभागीय संक्षेपिका दिनांक 16 जुलाई, 2019 के परिशिष्ट-3 अनुसार अनावर्ती व्यय रुपये 10281.04 लाख एवं आवर्ती व्यय रुपये 3285.87 लाख तीन चरणों में वित्तीय प्रावधान कराया जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र सिंह परिहार, पदेन अवर सचिव.

परिशिष्ट-1

उद्यानिकी महाविद्यालय जिला छिन्दवाड़ा के लिए प्रशासकीय पद एवं शैक्षणिक पद

अ. प्रशासकीय पद : —

1. अधिष्ठाता (एक) वेतनमान रुपये 37,400—67,000+10,000/- एजीपी

ब. शैक्षणिक पद : —

क्र.	विभाग	प्रध्यापक वेतनमान रु. 37400-67000+10,000/- एजीपी	सह प्राध्यापक वेतनमान रु. 37400-67000+9000/- एजीपी	सहायक प्राध्यापक वेतनमान रु. 15,600-39100+6000/- एजीपी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	फल विज्ञान (Breeding+Production)	01	02	03
2.	सब्जी विज्ञान (Breeding+Production+seed Production/seed Technalogy)	01	01	04
3.	फूल विज्ञान एवं लैण्ड स्केपिंग (Breeding+Production).	01	01	02
4.	पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नालॉजी (Breeding+Production).	01	01	02
5.	पादप संरक्षण (Entomology+Plant Pathalogy)	01	02	03
6.	आधार विज्ञान विभाग (Biochemistry, crop physiology, Biotechnology and genetics and plant Breeding, statistics and computer sciencenes).	01	02	06

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	प्राकृतिक संसाधन विभाग (Soil science & Agricultural Chemistry, microbiology, water Technology, Environmental Science, Agricultural Engineering, Agroforestry)	01	01	06
8.	सामाजिक विज्ञान विभाग (Agricultural Extension, Agricultural Economics, Agri/Horti, Business Management, English, Physical Education & Library Science).	01	01	05
कुल पद . . .		08	11	31
कुल पद		01		
अधिष्ठाता	—	08		
प्राध्यापक	—	11		
सह प्राध्यापक	—	31		
सहायक प्राध्यापक	—	51		
योग कुल पद . .				

परिशिष्ट-2

उद्यानिकी महाविद्यालय, जिला-छिन्दवाड़ा के गैर शैक्षणिक के लिए वित्त विभाग के अभिमत अनुसार पद

(स) गैर शैक्षणिक पद : —

क्र. (1)	पदनाम (2)	वेतनमान रुपये (3)	संख्या (4)
1	सहायक कुल सचिव/प्रशासनिक अधिकारी	56100	1
2	सहायक लेखा नियंत्रक	56100	1
3	अधीक्षक (प्रशासन)	36200	1
4	पुस्तकालय सहायक	25300	2
5	प्रयोगशाला तकनीशियन	25300	8
6	प्रक्षेत्र सहायक	25300	8
7	कम्प्यूटर सहायक	25300	6
8	वाहन चालक (जीप)	19500	6
9	प्रयोगशाला सहायक	18000	1
10	सेल्फ असिस्टेंट	16000	2
11	केअरटेकर	18000	3
योग . . .			39

निम्न पद आउट सोर्सिंग के आधार पर भरे जावेंगे:—

12	सहायक यंत्री (सिविल)	56100	1
13	सहायक चिकित्सा अधिकारी	56100	1
14	कनिष्ठ यंत्री (इलेक्ट्रिकल)	32800	1
15	वाहन चालक (ट्रेक्टर)	22800	2
16	खेल सहायक	25300	2
17	कार्यालय सहायक	16000	6
18	नर्स (पुरुष+स्त्री)	19500	2
19	कुक	16000	4
20	प्लम्बर	16000	1
21	इलेक्ट्रिशियन	22800	1
22	परिचालक (बस)	16000	2
23	माली	16000	6
24	दरबान	16000	2
25	वाचमेन	16000	6
			योग . . 37
			कुल योग . . 76

परिशिष्ट-3

नवीन उद्यानिकी महाविद्यालय, जिला छिन्दवाड़ा की स्थापना हेतु तीन वर्षों के लिये बजट प्रावधान

(राशि रुपये लाख में)

अ—अनावर्ती

क्र.	मद	कुल राशि	प्रारंभ से पूर्व	प्रथम वर्ष के लिये राशि	द्वितीय वर्ष के लिये राशि	तृतीय वर्ष के लिये राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	भवनों का निर्माण कार्य (मुख्य भवन छात्रावास, आवासीय भवन, आदि) विकास कार्य जैसे विद्युत् केन्द्र की स्थापना, अनुसंधान प्रक्षेत्र विकास एवं कृषि महाविद्यालय प्रांगण विकास, यांत्रिकी वर्कशाप.	10109.54	472.55	3000.00	3000.00	3636.99
2	उपकरण	100.00	—	50.00	50.00	—
3	वाहन (बस एवं जीप)	51.50	—	11.50	40.00	—
4	ऐस्पेरिमेंटल लर्निंग	20.00	—	—	10.00	10.00
कुल अनावर्ती व्यय		10281.04	472.55	3061.50	3100.00	3646.99

*प्रथम वर्ष शुरू होने से पूर्व की राशि

ब—आवर्ती

क्र.	मद	कुल राशि	प्रारंभ से पूर्व	प्रथम वर्ष के लिये राशि	द्वितीय वर्ष के लिये राशि	तृतीय वर्ष के लिए राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	वेतन एवं भत्ते (शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक संवर्ग).	2774.27	—	827.67	913.67	1032.93
2	आवर्ती आकस्मिकता व्यय	146.00	—	41.00	47.00	58.00
3	यात्रा भत्ता एवं पीओएल	65.60	—	18.00	21.60	26.00
4	ब्लाक ग्रांट	300.00	—	100.00	100.00	100.00
कुल आवर्ती व्यय		3285.87	—	986.67	1082.27	1216.93
योग—(अ एवं ब)		13566.91	472.55	4048.17	4182.27	4863.92

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2019

क्र. 1809-1445-2019-अ-तेहत्तर.—राज्य शासन, एतद्वारा पूर्व में जारी आदेशों को अधिक्रमित करते हुए, ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम, 1996 (1996 क्रमांक 22) के तहत नियम 3 में विद्यमान प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण का उनके नाम के समक्ष दर्शाये अनुसार अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य नामांकित करता है:—

क्र.	नाम	पद
(1)	(2)	(3)
1	श्री प्रशांत गंगवाल	अध्यक्ष
2	श्री प्रवीण अग्रवाल	उपाध्यक्ष
3	श्री रामसुन्दर सिंह रामू	सदस्य
4	श्री शील खत्री	सदस्य
5	श्री किशन मुदगल	सदस्य
6	श्री नवीन परांडे	सदस्य
7	श्री महबूब चैनवाला	सदस्य
8	श्री सुधीर मंडेलिया	सदस्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पर्वत सिंह, उपसचिव.

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2019

क्र. एफ 5-27-2014-1-पचपन.—मानव अंग और ऊतक प्रतिरोपण अधिनियम 1994 व मानव अंग और ऊतक प्रतिरोपण संशोधन अधिनियम (2011 का क्रमांक 16) की धारा 13 एवं 13 अ के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित राज्य सलाहकार समिति का गठन करती है अर्थात्:-

(1)	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग ।	-	अध्यक्ष
(2)	02 चिकित्सा विशेषज्ञ, जो आर्युविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री और अंग या ऊतक प्रत्यारोपण के क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव रखते हों।	-	सदस्य
(3)	आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा , मध्यप्रदेश ।	-	सदस्य सचिव
(4)	उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा एवं सत्य निष्ठा वाले 02 प्रख्यात समाज सेवी जिनमें से एक महिला संगठन के प्रतिनिधियों में से हो।	-	सदस्य
(5)	एक विधि विशेषज्ञ, जो अपर जिला न्यायाधीश या समकक्ष पद धारण करता हो।	-	सदस्य
(6)	ऐसे गैर-सरकारी संगठन या संस्थाओं से एक व्यक्ति, जो अंग या ऊतक दान के क्षेत्र में या मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत हो।	-	सदस्य
(7)	मानव अंग प्रतिरोपण के क्षेत्र का एक विशेषज्ञ, किन्तु वह अंग प्रतिरोपण टीम का सदस्य नहीं होना चाहिए ।	-	सदस्य सचिव

F No.5-27/2014/1/55:- In exercise of the powers conferred by section 13 & 13A (amended by amendment act 16 of 2011) of the Transplantation of Human Organs and Tissues Act 1994, the State Government, hereby, constitutes the following State Advisory Committee, namely:-

(1)	The Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Medical Education Department.	—	Chairperson
(2)	02 Medical Experts having Postgraduate medical degree and minimum five year experience in the field of organ and tissue transplantation.	—	Member
(3)	The Commissioner , Medical Education Government of Madhya Pradesh.	—	Member Secretary
(4)	02 eminent social worker of high social standing and integrity, one of whom shall be from amongst representatives of women's organization.	—	Member
(5)	One legal expert who is holding the post of an Additional District Judge or equivalent	—	Member
(6)	One person from non-governmental organisation or associations which are working in field of organ or tissue donations or human rights.	—	Member
(7)	One specialist in the field of human organ transplantation, but should not be a member of the transplantation team.	—	Member

क्रमांक एफ 5-27/2014/1/55:- मानव अंग और ऊतक प्रतिरोपण नियम 2014 के नियम 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतद्वारा निम्नलिखित राज्य प्राधिकार समिति और संभाग स्तरीय प्राधिकार समिति का गठन करती है अर्थात् :

(1) राज्य प्राधिकार समिति			
(एक)	आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन	-	अध्यक्ष
(दो)	अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल	-	सदस्य सचिव
(तीन)	अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर	-	सदस्य
(चार)	अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा संघ मध्यप्रदेश	-	सदस्य
(पांच)	नियम 13 (ग) के अधीन अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट स्वयंसेवी संगठन का एक प्रतिनिधि	-	सदस्य
(छह)	संचालक, स्वास्थ्य विभाग या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी	-	सदस्य

(2) भोपाल एवं होशंगाबाद संभाग स्तरीय प्राधिकार समिति			
(एक)	अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल	-	अध्यक्ष
(दो)	विभागाध्यक्ष, मेडिसिन विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल	-	सदस्य
(तीन)	विभागाध्यक्ष, शल्य क्रिया विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल	-	सदस्य
(चार)	आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा नियम 13 (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट प्रतिरोपण से संबंधित दो स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि	-	सदस्य
(पांच)	भोपाल जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	-	सदस्य

(3) इंदौर एवं उज्जैन संभाग स्तरीय प्राधिकार समिति			
(एक)	अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर	-	अध्यक्ष
(दो)	विभागाध्यक्ष, मेडिसिन विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर	-	सदस्य
(तीन)	विभागाध्यक्ष, शल्य क्रिया विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर	-	सदस्य
(चार)	आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा नियम 13 (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट प्रतिरोपण से संबंधित दो स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि	-	सदस्य
(पांच)	इंदौर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	-	सदस्य

(4) जबलपुर संभाग स्तरीय प्राधिकार समिति			
(एक)	अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर	-	अध्यक्ष
(दो)	विभागाध्यक्ष, मेडिसिन विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर	-	सदस्य
(तीन)	विभागाध्यक्ष, शल्य क्रिया विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर	-	सदस्य
(चार)	आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा नियम 13 (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट प्रतिरोपण से संबंधित दो स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि	-	सदस्य
(पांच)	जबलपुर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	-	सदस्य

(5) ग्वालियर एवं चंबल संभाग स्तरीय प्राधिकार समिति			
(एक)	अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर	-	अध्यक्ष
(दो)	विभागाध्यक्ष, मेडिसिन विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर	-	सदस्य
(तीन)	विभागाध्यक्ष, शल्य क्रिया विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर	-	सदस्य
(चार)	आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा नियम 13 (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट प्रतिरोपण से संबंधित दो स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि	-	सदस्य
(पांच)	ग्वालियर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	-	सदस्य

(6) रीवा संभाग स्तरीय प्राधिकार समिति			
(एक)	अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा	-	अध्यक्ष
(दो)	विभागाध्यक्ष, मेडिसिन विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा	-	सदस्य
(तीन)	विभागाध्यक्ष, शल्य क्रिया विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा	-	सदस्य
(चार)	आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा नियम 13 (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट प्रतिरोपण से संबंधित दो स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि	-	सदस्य
(पांच)	रीवा जिले के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी	-	सदस्य
(7) सागर संभाग स्तरीय प्राधिकार समिति			
(एक)	अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सागर	-	अध्यक्ष
(दो)	विभागाध्यक्ष, मेडिसिन विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, सागर	-	सदस्य
(तीन)	विभागाध्यक्ष, शल्य क्रियाविभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, सागर	-	सदस्य
(चार)	आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा नियम 13 (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट प्रतिरोपण से संबंधित दो स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि	-	सदस्य
(पांच)	सागर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	-	सदस्य

F no. 5-27/2014/1/55 :- In exercise of the powers conferred by Rule 13 of the Transplantation of Human Organs and Tissues Rule, 2014, the State Government, hereby, constitutes the following State Level Authorization Committee and Divisional Level Authorization Committee, namely:-

(1) State Authorization Committee			
(i)	The Commissioner , Medical Education Government of Madhya Pradesh	—	Chairperson
(ii)	Dean, Government Medical College Bhopal	—	Member Secretary
(iii)	Dean, Government Medical College Indore	—	Member
(iv)	Chairperson, Indian Medical Association, Madhya Pradesh	—	Member
(v)	One representative of voluntary organization, nominated by Chair person under Rule 13 (c)	—	Member
(vi)	Director, Health Department or an Officer Nominated by him.	—	Member

(2) Bhopal and Hoshangabad Division Level Authorization Committee			
(i)	Dean, Government Medical College, Bhopal.	—	Chairperson
(ii)	Head of the Department, Medicine, Medical College, Bhopal.	—	Member
(iii)	Head of the Department, Surgery, Medical College, Bhopal.	—	Member

(iv)	Representatives of Two Voluntary organisations related to Transplantation nominated under rule 13 (c) by the commissioner, Medical Education.	-	Member
(v)	The Chief Medical and Health Officer Bhopal District.	-	Member

(3) Indore and Ujjain Division Level Authorization Committee.			
(i)	Dean, Government Medical College, Indore.	-	Chairperson
(ii)	Head of the Department, Medicine, Medical College, Indore.	-	Member Secretary
(iii)	Head of the Department, Surgery, Medical College, Indore.	-	Member
(iv)	Representatives of Two Voluntary organisations related to Transplantation nominated under rule 13 (c) by the commissioner, Medical Education.	-	Member
(v)	The Chief Medical and Health Officer Indore District	-	Member

(4) Jabalpur Division Level Authorization Committee.			
(i)	Dean, Government Medical College, Jabalpur.	-	Chairperson
(ii)	Head of the Department, Medicine, Medical College, Jabalpur.	-	Member Secretary
(iii)	Head of the Department, Surgery, Medical College, Jabalpur.	-	Member

(iv)	Representatives of Two Voluntary organisations related to Transplantation nominated under rule 13 (c) by the commissioner, Medical Education.	-	Member
(v)	The Chief Medical and Health Officer Jabalpur District.	-	Member

(5) Gwalior and Chambal Division Level Authorization Committee.			
(i)	Dean, Government Medical College, Gwalior.	-	Chairperson
(ii)	Head of the Department, Medicine, Medical College, Gwalior.	-	Member Secretary
(iii)	Head of the Department, Surgery, Medical College, Gwalior.	-	Member
(iv)	Representatives of Two Voluntary organisations related to Transplantation nominated under rule 13 (c) by the commissioner, Medical Education.	-	Member
(v)	The Chief Medical and Health Officer Gwalior District	-	Member

(6) Rewa Division Level Authorization Committee.			
(i)	Dean, Government Medical College, Rewa.	-	Chairperson
(ii)	Head of the Department, Medicine, Medical College, Rewa.	-	Member Secretary
(iii)	Head of the Department, Surgery, Medical College, Rewa.	-	Member

(iv)	Representatives of Two Voluntary organisations related to Transplantation nominated under rule 13 (c) by the commissioner, Medical Education.	—	Member
(v)	The Chief Medical and Health Officer Rewa District.	—	Member

(7)	Sagar Division Level Authorization Committee.		
(i)	Dean, Government Medical College, Sagar.	—	Chairperson
(ii)	Head of the Department, Medicine, Medical College, Sagar.	—	Member Secretary
(iii)	Head of the Department, Surgery, Medical College, Sagar.	—	Member
(iv)	Representatives of Two Voluntary organisations related to Transplantation nominated under rule 13 (c) by the commissioner, Medical Education.	—	Member
(v)	The Chief Medical and Health Officer Sagar District.	—	Member

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवशेखर शुक्ला, प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद्, भोपाल
(भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 के अन्तर्गत स्थापित)
कामधेनु भवन परिसर, वैशाली नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश-462003

क्रमांक 789-पंजीयत-2019-20

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2019

विषय - म.प्र. राज्य पशु चिकित्सक रजिस्टर में से अमान्य पंजीकृत पशु चिकित्सकों के नाम हटाने के पश्चात् प्रकाशन के संबंध में।

म.प्र. राज्य पशु चिकित्सक रजिस्टर में से कुल 304 पंजीकृत पशु चिकित्सकों के नाम भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 (84 का 52) की धारा 48(2) के परिपालन में उनके द्वारा समय पर पंजीयन का नवीनीकरण न किये जाने से नाम हटाया गया है। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 (84 का 52) की धारा 49(6) के परिपालन में म.प्र. राज्य पशु चिकित्सक रजिस्टर में से हटाये गये नामों का प्रकाशन किया जा रहा है।

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 (84 का 52) की धारा 50 के अनुसार म.प्र. राज्य पशु चिकित्सक रजिस्टर में से हटाये गये पशु चिकित्सकों के नाम निर्धारित शुल्क भुगतान करने पर पंजीयन के नवीनीकरण कराने के उपरांत रजिस्टर में पुनः स्थापित किये जायेंगे। ऐसे पशु चिकित्सक जिनके द्वारा इस सूची के प्रकाशन के पूर्व पंजीयन का नवीनीकरण करा लिया गया है वे इस अधिसूचना से स्वयं को असंबद्ध मान्य कर सकते हैं।

निरंजन सिंह, रजिस्ट्रार.

मध्य प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् भोपाल
मध्य प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा रजिस्टर
अमान्य पंजीयन सूची

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 (84 का 52) की धारा 48(2) अंतर्गत

क्र.	पंजीयन क्र.	नाम	पता
1	0712/1996	डॉ. मुकेश शर्मा	177-ए कल्पना नगर भोपाल 462021
2	0723/1996	डॉ. राजमल मल्होत्रा	गाव/ पोस्ट तुमडा तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र.
3	1099/1997	डॉ. नवीन शुक्ला	257 गीतांजली नगर सेक्टर 2 रायपुर छ ग
4	1148/1998	डॉ. मदनसिंह सालवर	प्लॉट न.1037 शाही तालाब के किनारे संजीवनी नगर गढा जबलपुर 482803.
5	1169/1998	डॉ. अशोक कुमार चौरसिया	सी/2 सासवत विला नियर एस सी ए स्कूल नेपियर टाउन जबलपुर म.प्र.
6	1170/1998	डॉ. साई किरण झा	एफ-110/34 शिवाजी नगर भोपाल 462008

क्र.	पंजीयन क्र.	नाम	पता
7	1176/1998	डॉ.आशीष तिवारी	44 कमलाराम एक्सटेंशन बरखेडी रोड रसलपुरा महु जिला इन्दौर म.प्र.453446
8	1185/1998	डॉ. रश्मि खण्डेलवाल	ए-204 बी सी एम सिटी नवलखा चौराहा इंदौर म.प्र.452001
9	1186/1998	डॉ.पूनम त्रिपाठी	88 श्रीनगर मेन इंदौर 452001
10	1199/1998	डॉ.निलेश शाह	एल.आई.जी. 88 कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल म.प्र.
11	1200/1998	डॉ. अरविंद कुमार गुप्ता	बी/3 ऑफीसर्स कालोनी खुरई जिला सागर म.प्र.470117
12	1258/1998	डॉ. ब्रजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	बलाजी नगर उन्नाव दतिया म.प्र. 475661
13	1259/1998	डॉ.प्रवीण शिंदे	एफ-108/29 शिवाजी नगर 6 नंबर स्टाप भोपाल म.प्र.
14	1261/1998	डॉ. लोकेश गोयल	सी/ओ डॉ अमित गोयल चोधरी बिल्डिंग जैन मंदिर रोड मुरैना 476001
15	1263/1998	डॉ.उमेशचंद्र शर्मा	ई-1 डेरी कालोनी जहागीराबाद भोपाल म.प्र. 462008
16	1265/1998	डॉ.महेन्द्रकुमार वर्मा	वेटनरी आफिस कृष्णा नगर सतना 485001
17	1266/1998	डॉ.अंजय अग्रवाल	प्लाट न 07 मथुरा विहार कंचन विहार विजय नगर जबलपुर 482002
18	1268/1998	डॉ.संजय जाधव	डॉ.संजय जाधव पशु चिकित्सालय मुलताई मासोद रोड मुलताई जिला बैतुल
19	1269/1998	डॉ.पंकज कुमार दुबे	51 स्वप्नील विहार कालोनी शानी मंदिर के पास इंदौर रोड हरदा म.प्र. 461331
20	1277/1998	डॉ.पवन कुमार सिंघल	एम एस रोड सुभाष स्कूल के पास कैलारस जिला मुरैना म.प्र. 476224
21	1281/1998	डॉ.राजेश कुमार जैन	डी 90 द्वाराका गार्डन तीली वार्ड सागर म.प्र.470002
22	01308/1998	डॉ.प्रतीभा मण्डलोई	बी 16 नवलखा काम्प्लेक्स इंदौर 4652001
23	01309/1998	डॉ.राजेन्द्र सिंह	70/1 अभय विहार कालोनी इंद्रजीत होटल राजनंदनी अहमदाबाद रोड धार म.प्र.
24	01311/1998	डॉ.पंकज कपूर	29 अनुपम नगर सोम्या विहार तुलसी परिसर अवधपुरी भोपाल म.प्र.462220
25	01318/1998	डॉ.रविन्द्र कुमार राठी	एफ 17 ऑफीसर कालोनी धार
26	01319/1998	डॉ.छतरसिंह डावर	गांव पोस्ट पिपली गाधवानी धार म.प्र.484001
27	01320/1998	डॉ.मंजुशा राठी	एफ 17 ऑफीसर कालोनी धार
28	01321/1998	डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	48 महावीर गंज राज टाकिज मार्ग भिंड म.प्र.
29	01324/1998	डॉ.तेजिन्दर कौर बग्गा	म.न.बी.3ए रचना केम्पस चूना भट्टी भोपाल.
30	01330/1998	डॉ.रघुराजसिंह	एम.आई.जी 24 रामटेकरी जिला मंदसौर 458001
31	01331/1998	डॉ.भारतलाल स्वर्णकार	पशु चिकित्सालय पिछौर जिला शिवपुरी म.प्र.473995
32	01353/1998	डॉ.ब्रजेश कुमार गुप्ता	एफ-93/3 तुलसी नगर भोपाल 462003
33	01354/1998	डॉ.दिनेश पटेल	तिवारी कालानी ब्योहारी शहडोल म.प्र.
34	01356/1998	डॉ.उमेश कुमार चौरसिया	ई-04 कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल 462003
35	01386/1998	डॉ.स्मृति देसाई	बी 28 गौतम नगर भोपाल म.प
36	01391/1998	डॉ.गोल्डी श्रीवास्तव	4 त्रिवेणी कालोनी माणिकबाग इंदौर म.प्र. 452004
37	01404/1998	डॉ. रविन्द्र कुमार जैन	व्ही ललितपुर उ.प्र. 284122

क्र.	पंजीयन क्र.	नाम	पता
38	01407/1998	डॉ.अच्युत दीक्षित	एल.आई.जी.हाउसिंग बोर्ड कालोनी मुख्य डाक घर के पास जबलपुर म.प्र.482001
39	01418/1998	डॉ.विक्रम पवार	बजरंग अपार्टमेंट 300 क्लर्क कालोनी इंदौर म.प्र.
40	01429/1998	डॉ.नितिन कुमार	730 अग्रवाल कालोनी जबलपुर म.प्र.481002
41	01439/1998	डॉ.प्रज्ञा चौरसिया	ई-04 कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल 462003
42	01462/1998	डॉ.सीमा जैन	बी 4 सालीमार गार्डन कोलार रोड भोपाल म.प्र.
43	01497/1998	डॉ.अदिति दीक्षित	एल आइ जी 35 हाउसिंग बोर्ड कालोनी साउथ सिविल लाईस जबलपुर म.प्र. 482001
44	1501/1998	डॉ.ब्रजेश कुमार दुबे	न्यु कालोनी म न 2/205 बिरला निवास ग्वालियर म.प्र.474004
45	01505/1998	डॉ.नरेन्द्र पालसिंह गंगवार	चाणक्यपुरी गर्ल्स कालेज के पास सीहोर म.प्र. 466001
46	01506/1998	डॉ.सुनील कुमार यादव	1001 द्वारिका नगर लालमति चुंगी चौकी जबलपुर म.प्र. 482001
47	01507/1998	डॉ.ओमप्रकाश	गायत्री मंदिर ए बी रोड कोलारस म.प्र.
48	01508/1998	डॉ.राजेश्वर सिंह	बी-15 दीनदयाल पुरम बालाघाट म.प्र.481001
49	01525/1998	डॉ.जितेन्द्र कुमार जाटव	एफ 1 फोरेस्ट कालोनी कीन्नी नाका माधव नेशनल पार्क शिवपुरी म.प्र. 473551
50	01526/1998	डॉ.हरीश कुमार त्रिपाठी	म.न.18-19 तुलसी परिसर फेस-2 अवधपुरी भोपाल म.प्र.
51	01530/1998	डॉ.आनंद कुमार द्विवेदी	ग्राम व पोस्ट बडखरा तह चुरहट जिला सीधी 486771
52	01534/1998	डॉ.शंकर प्रसाद पाण्डेय	ग्राम व पोस्ट राजेन्द्रग्राम जिला अनुपपुर म.प्र.
53	01552/1998	डॉ.रावेन्द्र सिंह बाघेल	गली न0 3 राजेन्द्र नगर जिला सतना म.प्र. 485001
54	01554/1998	डॉ.गोपाल सहाय सक्सेना	69 यमुना नगर दर्पण कालोनी ग्वालियर म.प्र. 474011
55	01562/1998	डॉ.गोवर्धन दास	बुन्देलखण्ड कालोनी नियर वाटर टैंक दतिया म.प्र.475661
56	01570/1998	डॉ. मीता गुहा	51 राजुल विहार तिलहरी मण्डला रोड जबलपुर म.प्र.482020
57	01573/1998	डॉ.संजय कुमार शर्मा	1786 न्यु शोभापुर कालोनी जबलपुर म.प्र. 482009
58	01582/1998	डॉ. जगदम्बा प्रसाद लखेर	अमानगंज पोस्ट ऑफिस अमानगंज जिला पन्ना म.प्र.488441
59	01584/1998	डॉ.कीर्ति नेमा	21 रुद्रा कालोनी मालखेडी रोड होशंगाबाद म.प्र.461001
60	01586/1998	डॉ.निशी पांडे	130 नेहरू नगर अपोजिट मेडिकल कालेज जबलपुर 482003
61	01589/1998	डॉ.रिचा पांडे	272 जय नगर यादव कालोनी जबलपुर म.प्र. 482002
62	01593/1998	डॉ.सरोज मरकम	बडी खेडी कालेज रोड मंडला म.प्र. 481661
63	1614/1998	डॉ.अमिताव बनर्जी	आदित्य निवास 39 टेगोर नगर बरखेडा भोपाल म.प्र.
64	1627/1998	डॉ.अभिनव शुक्ला	390 जवाहरगंज वार्ड निवारगंज गढ़ा फाटक, कछियाना जबलपुर म.प्र. 482002
65	1630/1998	डॉ.मुकेश कुमार सिंघल	दिनेश फोटो स्टुडियो बिरापुर विजयपुर मुरैना म.प्र. 476335
66	1632/1998	डॉ.संजीव कुमार मालवीय	मरूपुरा सोहागपुर जिला होशंगाबाद 461771

क्र.	पंजीयन क्र.	नाम	पता
67	1634/1998	डॉ. सुभाष बाबू दोहरे	आर एच 8 गर्ल्स हा.से. स्कूल के पीछे पीडब्लुडी आफिस सिविल लाइंस सौसर जिला छिंदवाडा म.प्र.480106
68	1636/1998	डॉ. प्रवीण उपाध्याय	ए 7 द्वारिकापुरी ग्वालियर म.प्र. 474002
69	1659/1998	डॉ. हरिओम पाटिल	108 भाएती कालोनी हरदा म.प्र. 461331
70	1660/1998	डॉ. सत्यनारायण बांके	क्वा नं एफ 1 वेटेनरी केम्पस हरदा म.प्र.
71	1666/1998	डॉ. भूपेन्द्र सिंह पाटीदार	पशु चिकित्सालय खचरोद जिला उज्जैन म.प्र. 456457
72	1667/1998	डॉ. परम सिंह कुशवाह	पशु चिकित्सालय परिसर सिविल लाईन रोड जावरा जिला रतलाम
73	1669/1998	डॉ. विनीत कुमार तिवारी	शिवम नागर इन होम सुनील शर्मा वकिल रायसेन म.प्र. 464551
74	1670/1998	डॉ. गुलाब सिंह सोलंकी	वार्ड न.14 गायत्री कालोनी कुक्षी 454331
75	1673/1998	डॉ. धर्मदास चढ़ार	गांव पोस्ट गुना जिला टीकमगढ़ म.प्र. 472001
76	1676/1998	डॉ. हेमा कपूर	29 अनुपम नगर सौम्या विहार तुलसी परिसर अवधपुरी भोपाल म.प्र.
77	1677/1998	डॉ. एलिजाबेथ शाजी थामस	118 गुड शेफर्ड कालोनी कोलार रोड भोपाल 462042
78	1679/1998	डॉ. बबीता चतुर्वेदी	बी 2 कमला नगर कोटरा भोपाल म.प्र. 462024
79	1680/1998	डॉ. सूर्य प्रकाश उपाध्याय	उपाध्याय सदन एमएलबी रोड शिन्दे की छावनी लश्कर ग्वालियर म.प्र. 474009
80	1682/1998	डॉ. दीपशिखा शिंदे	एफ-108/29 शिवाजी नगर 6 नंबर स्टाप भोपाल म.प्र.
81	1683/1998	डॉ. संदीप ठोके	103 गोदावरी विहार 263 फ्रेन्ड्स कालोनी कारोल रोड नागपुर 440013
82	1687/1998	डॉ. वंदना जैन	अहिंसा वास्त्रालय चौक बाजार सतना म.प्र. 485001
83	1690/1998	डॉ. स्वतंत्र कुमार गुप्ता	200/3 नयापुरा नियर जेल रोड इंदौर म.प्र. 452003
84	1698/1999	डॉ. धर्मेश कुमार जैन	वैशाली छात्रावास के पीछे प्रेम कालोनी स्टेशन रोड मंदसौर म. प्र. 458001
85	1707/1999	डॉ. कामता प्रसाद कुर्मी	म न 36 शिव स्थली कालोनी मकरोनिया सागर म.प्र.470004
86	1737/1999	डॉ. अतुल गुप्ता	ई 8/183 भरत नगर शाहपुरा भोपाल 462039
87	1765/1999	डॉ. अंजु सोढ़ी	डी.के. 1/85 दानिशकुंज कोलार रोड भोपाल 462042
88	1812/1999	डॉ. प्यारसिंह पटेल	एफ 93/31 तुलसीनगर भोपाल म.प्र. 452008
89	1839/1999	डॉ. शेख मेहबूब	पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी गांव व पोस्ट शाहगढ़ तह. बंडा जिला सागर म.प्र. 462339
90	1858/1999	डॉ. आशा विभोर श्रीवास्तव	एच.आई.जी.1/8 पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर सेक्टर 3 रायपुर छत्तीसगढ़ 492010
91	1859/1999	डॉ. मनोज कुमार शर्मा	जी/एच-554, बायपास रोड अयोध्या नगर भोपाल म.प्र.
92	1915/2000	डॉ. सुरेश कुमार श्रीवास्तव	न्यू देवेन्द्र कालोनी एम.आर.एफ. टायर शोरूम के पास इंगलिशपुरा सीहोर म.प्र. 466001
93	2045/2002	डॉ. गोपाल राय बंसल	नेहरू बाजार विजयपुर जिला श्योपुर 476001
94	2108/2003	डॉ. आशीष जैन	72 अभिनंदन नगर सुकलिया इन्दौर म.प्र.452010
95	2109/2003	डॉ. शैली जैन	97 रचना नगर भोपाल 462023

क्र.	पंजीयन क्र.	नाम	पता
96	2122/2003	डॉ. योगेश कुमार	गली न.07 नवजीवन कालोनी छोला रोड भोपाल म.प्र.462010
97	2126/2003	डॉ. देवेन्द्र कुमार गौतम	ई-6 इन्द्रमणि नगर भोले राम मन्दिर ग्वालियर म.प्र.474001
98	2135/2003	डॉ. राघवेंद्र शर्मा	गांव व पोस्ट पिपाडी तह. गोहद जिला भिंड म.प्र.
99	2155/2003	डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा	एफ-50/28 साउथ टी.टी.नगर भोपाल 462003
100	2159/2003	डॉ. आशीष शर्मा	69 पलटन एरिया नया बस स्टेण्ड प्रायमरी स्कूल के सामने जिला सीहोर म.प्र. 466001
101	2160/2003	डॉ. अमित व्यास	म.न.101 एस.एस.प्राईड गुलाब कालोनी देवास नाका रोड इन्दौर म.प्र.452010
102	2166/2003	डॉ. सोनल नेमा	दुर्गा मंदिर के पीछे सुहागी अधारतल जबलपुर 482004
103	2167/2003	डॉ. अतुल सोनी	सिविल लाइन डिडोरी म.प्र. 481880
104	2170/2004	डॉ. आलोक कुमार जैन	श्री.एम.पी.जैन महावीर किराना स्टोर चीप स्टोर के पास टीकमगढ म.प्र. 472001
105	2172/2004	डॉ. सौरभ गुप्ता	अमृता निवास दुबे कालोनी बरही रोड कटनी म.प्र.483501
106	2185/2004	डॉ. आशीष कुमार गोदानी	केयर ऑफ ईश्वरलाल पाटीदार 12/12 प्रगति नगर नानाखेडा बस स्टेण्ड के पास उज्जैन म.प्र.456010
107	2186/2004	डॉ. पुष्पराजसिंह सिकरवार	पेट्रोल पंप के सामने सबलगढ जिला मुरैना 476229
108	2187/2004	डॉ. राजू महादेव राव भुरमुदे	वेटनरी हास्पिटल गहुघहरी मंडला 481664
109	2200/2004	डॉ. स्नेहलता पटले	प्लॉट न 162 शाक्ति नगर जबलपुर 482001
110	2202/2004	डॉ. ज्योति मित्तल	1153 बी खातीवाला टैंक जैन मंदिर के पीछे इंदौर 452014
111	2206/2004	डॉ. जगबीर सिंह	वैटी हास्पिटल धारगांव जिला खरगोन म.प्र. 451222
112	2212/2004	डॉ. नानसिंह आखाडे	गांव बखतला गंधवानी जिला धार म.प्र.
113	2214/2004	डॉ. राजाराम अहिरवार	56 जी वीर सावरकर मार्ग शासकीय पशु चिकित्सालय परिसर पौ. चौपाठी जिला धार म.प्र.454001
114	2216/2004	डॉ. बृजेश कुमार निवारिया	विक्रम नगर एमपीईबी कालोनी के पास रसूलिया होशंगाबाद म. प्र. 461001
115	2219/2004	डॉ. रिन्केश कुमार वर्मा	30 हाट की चौकी गली नं 2 रतलाम म.प्र. 457001
116	2225/2004	डॉ. विशाखा अहिरवार	एफ-83/15 तुलसी नगर महाराष्ट्र भवन के पास भोपाल 462003
117	2226/2004	डॉ. राजेश सिंह	श्री कृष्ण नगर गली नं 5 बिरलानगर ग्वालियर 474004
118	2230/2004	डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा	सी/ओ श्रीबाबूलाल मिश्रा मेडिकल स्टोर इलाहाबाद बैंक के सामने सेमरिया रीवा म.प्र. 486445
119	2232/2004	डॉ. चतुर्भुज नागर	शास. पशु चिकित्सालय केम्पस, न्यू बस स्टैंड झिरन्या खरगोन म.प्र. 415332
120	2287/2005	डॉ. सुरेश कुमार गौड	ग्रा व पो बिलांत्री जि. मंदसौर म.प्र.458990
121	2490/2008	डॉ. राकेश तिवारी	ग्राम बरछा खुर्द खातेगांव देवास म.प्र. 455336
122	2494/2008	डॉ. मनीषा सहसनानी	जे.के.मेडिकल स्टोर टेगौर कालोनी मोघट रोड खंडवा 450001

क्र.	पंजीयन क्र.	नाम	पता
123	2496/2008	डॉ. जयकुमार जैन	सुख सागर रेस्टोरेट के पीछे जबलपुर रोड दमोह 470661
124	2508/2008	डॉ. दीपक कुमार नाग	एम-854 दर्पण कालोनी थाटीपुर ग्वालियर 474011
125	2511/2008	डॉ. भारत सुमन शर्मा	15-बी/2 सेनशाह गार्डन भोपाल
126	2513/2008	डॉ. धरमसिंह जागरिया	498 शीलनाथ कैम्प कुलकर्णी का भद्दा इंदौर म.प्र. 452003
127	2517/2008	डॉ. जगजीवन लाल साकेत	ग्राम पो. डेरा तह. मऊगंज जि. रीवा 486333
128	2522/2008	डॉ. संजय कुमार शाक्य	ग्रा. अलापुर तह. जौरा जि. मुरैना म.प्र. 476221
129	2526/2008	डॉ. अनिल सिंह	10/642 नन्दन किडस स्कूल के पास अनंतपुर रीवा 486001
130	2527/2008	डॉ. चंदनसिंह बाथम	भल्ला गारमेटस के पीछे नरेन्द्र नगर जि. शिवपुरी म.प्र.
131	2528/2008	डॉ. नवलसिंह रावत	ग्रा घनौरा पो. जीराबाद तह. गंधवानी जि. धार म.प्र. 454446
132	2531/200	डॉ. निशा पटेल	10/642 नन्दन किडस स्कूल के पास अनंतपुर रीवा 486001
133	2532/2008	डॉ. प्रमोद कुमार शर्मा	225/38 केशव कालोनी मुरैना 476001
134	2534/2008	डॉ. दीप्ती गुप्ता	24/152 जवाहर रोड पी.एन.बी.के पास छतरपुर म.प्र. 471001
135	2535/2008	डॉ. जितेंद्र चौधरी	सेंटर पॉइंट काम्प्लेक्स के पास त्रिमूर्ति भवन फूल बाग चौराहा लश्कर ग्वालियर 474002
136	2538/2008	डॉ. अरविंद कुमार शर्मा	सी/ओ कमलेश शर्मा गायत्री मार्केट अटेर रोड चौराहा पोरसा जि. मुरैना 476111
137	2543/2008	डॉ. सुषमा शेलु	एच-12 पाटवापुरा शाहपुर जि. भोपाल बैतुल म.प्र. 460440
138	2546/2008	डॉ. योगेन्द्र कुमार गौड	1/7 हास्पिटल केम्पस सबलगढ मुरैना 476229
139	2550/2008	डॉ. पीयूष दुबे	24/151 द्वारिका नगर रीवा 486001
140	2555/2008	डॉ. भरतलाल शर्मा	ग्रा सिकरोदा जि. मुरैना 476002
141	2567/2008	डॉ. मनोज कुमार गौतम	एच-16 हरिकृष्ण होम्स कोलार रोड भोपाल
142	2570/2008	डॉ. स्मृति गुप्ता	सरदार पटेल स्कूल के पीछे घसौला मोहल्ला शहडोल 48400
143	2575/2008	डॉ. नीलम टांडिया	राजेन्द्र ग्राम (किरगी) तहा पुष्पराजगढ जि० अनूपपुर 484881
144	2582/2009	डॉ. अनिल शर्मा	ग्राका भुआ का पुरा पोस्ट खानो का पुरा तह. अम्बाह जि. मुरैना म.प्र. 476111
145	2585/2009	डॉ. महिप दीक्षित	प्रगति नगर मेन रोड कॉटे साहब का बाग ग्वालियर 474012
146	2592/2009	डॉ. राजेश कुमार शेन्डे	पशु चिकित्सालय धरमपुर तहा.अजयगढ जिला पन्ना म.प्र. 488222
147	2595/2009	डॉ. आशीष अग्रवाल	केयर आफ जय मॉ टेडर्स नियर बी.आर.गार्डन नैना गृह की पुलिया मयूर तिलक रोड मुरैना 470001
148	2597/2009	डॉ. मानसिंह बामनिया	ग्रम जबनिया पो. मोटी बडवई तह.व जिला अलीराजपुर म.प्र.

क्र.	पंजीयन क्र.	नाम	पता
149	2598/2009	डॉ. अनिल डाबर	पशु चिकित्सालय पुनासा जि.खण्डवा म.प्र.
150	2599/2009	डॉ. हुकुमचंद पटेल	146 एमआईजी विन्धा विहार न्यू हाउसिंह बोर्ड कालोनी खरगोन
151	2601/2009	डॉ. अशोक कुमार सुले	कार्या.उपसंचालक प.चि.सेवाये सनावद रोड खरगोन म.प्र.451001
152	2602/2009	डॉ. शिवकुमार दंगोडे	88 सरस्वती नगर बडवाह जि. खरगोन 451115
153	2603/2009	डॉ. दिनेश कुमार मालवीय	ग्राम बछरखाल तह0खातेगाँव जिला देवास
154	2604/2009	डॉ. दीपक नवानी	म.न.186 सविल लाइंस वार्ड न 2 ज्ञान ज्योति स्कूल के पास नेन पुर जिला मंडला म.प्र.
155	2607/2009	डॉ. रामगोविंद	राम नगर कालोनी गली नं जौरा जि. मुरैना 476221
156	2608/2009	डॉ. अनूप बैस	जी-138 कृषि नगर कालोनी आधारतल जबलपुर 482004
157	2609/2009	डॉ. मनीष कुमार त्रिपाठी	बी 31 आर के पुरी थाटीपुर मुरार ग्वालियर म.प्र.474011
158	2610/2009	डॉ. बलराम सलेवार	शिवम सुन्दरम नगर पी0जी0 कालेज रोड ककडा जगत छिन्दवाडा
159	2613/2009	डॉ. जितेंद्र बघेल	ग्राम कुडारी वाया खेरा पलरी जि. सिवनी 480991
160	2615/2009	डॉ. सोनल श्रीवास्तव	1425 सरस्वती कालोनी चेरीताल जबलपुर 482002
161	2617/2009	डॉ. सुनिल कुमार चौधरी	व्यास कालोनी वात्सलय हास्पिटल के पीछे एल.आई.जी.ए 02
162	2618/2009	डॉ. मनोज कुमार उरमलिया	शिव नगर बस स्टैंड कटनी 483501
163	2619/2009	डॉ. कुश श्रीवास्तव	जगतनारायण 1567 नेपियर टाउन जबलपुर 482001
164	2624/2009	डॉ. पूजा भारद्वाज	साकेत नगर कालोनी करेली नरसिंहपुर म.प्र. 487221
165	2626/2009	डॉ. अमित कुमार दोहरे	महाराणा प्रताप चौराहा लहार भिंड म.प्र. 477445
166	2627/2009	डॉ. रोशनलाल बैरवा	ग्रा व पो तुलसेफ तह0 व जिला श्योपुर म.प्र. 476337
167	2629/2009	डॉ. रणवीर सिंह जाटव	63 हिजोनिया सदन सिध्दार्थ नगर थाटीपुर ग्वालियर 476011
168	2634/2009	डॉ. संजय सोनकेशरिया	बजरंग चौक वार्ड 5 बरघाट जिला सिवनी म.प्र. 480667
169	2637/2009	डॉ. देवश्री भौमिक	1139, यादव कालोनी जबलपुर 482002
170	2644/2009	डॉ. महेन्द्रसिंह सेमिल	पी.जी.कॉलेज के पीछे उत्तमपुरा जिला मुरैना 476001
171	2649/2009	डॉ. गिरधारीलाल आवासे	82 विवेकानंद नगर झाबुआ 457661
172	2956/2013	डॉ. दीपक सुरी	1/4 यादगार कालोनी सदर जबलपुर म.प्र. 482009
173	2962/2013	डॉ. चन्द्रपाल सिंह जादौन	ग्राम बिरखडी तहसील गोहद जिला भिण्ड
174	2963/2013	डॉ.अर्पणा रायकवार	बी.एम.10,राजीव नगर अयोध्या फेस-3 भोपाल 462041
175	2965/2013	डॉ.दुर्गेन्द्र सिंह	म.न.6/16 टी.आई.कालोनी कॉचघर जबलपुर 482001
176	2966/2013	डॉ.गिरजेश कुमार पटेल	म.न.849 डी गली न.16 सदर जबलपुर 482001
177	2972/2013	डॉ. संतोष सिंघल	हरी आयरन स्टोर,अम्बाह रोड,पोरसा मुरैना म.प्र.476115
178	2973/2013	डॉ.नरेन्द्र कुमार मधुरिया	ग्राम गडरौली पोस्ट खितौली तहा.गोहद जिला भिण्ड म.प्र. 477116
179	2980/2013	डॉ. अमित ओड	डी 31 सिध्दार्थ लेक सिटी रायसेन रोड भोपाल म.प्र.462021
180	2985/2013	डॉ. कुमार गोविल	50,सिकन्दर कम्पू लश्कर ग्वालियर म.प्र.474001

क्र.	पंजीयन क्र.	नाम	पता
181	2988/2013	डॉ.प्रियंका मर्सकोले	एच 37 वार्ड न.15 बडी खेरमाई के पीछे नयनपुर मण्डला म.प्र. 481776
182	2989/2013	डॉ.श्वेता ठाकुर	220 टेगौर वार्ड वाटर टैंक पावर हाउस ऐरिया सिवनी म.प्र. 480661
183	2991/2013	डॉ भानु प्रताप सिंह ठाकुर	सी 89 पारस बिहार नाका चन्द्रवदनी झॉंसी रोड ग्वालियर म.प्र. 474009
184	2994/2013	डॉ मधु मिश्रा	एफ-4 कोतवाली कालोनी स्टेडियम रोड शहडोल म.प्र.484001
185	2995/2013	डॉ.अनुभा प्रशांत पाठक	डी.के.-2/506 दानिश कुंज कोलार रोड भोपाल म.प्र.462042
186	2997/2013	डॉ. सौक्षी दुबे	जानकी भवन ददु मोहल्ला सिवनी म.प्र.480661
187	3000/2013	डॉ शशी टेकाम	वार्ड न.9 डी 22 के पास एम.सी.पी निवर गॉव पोस्ट मलाजगंज तहा वैहर जिला बालाघाट म.प्र.481116
188	3002/2013	डॉ.शिवानी तिवारी	चौरमारी रामपुर बगहलन जिला सतना म.प्र.485116
189	3004/2013	डॉ मनीषा तावर	113 ग्राम जूनापानी तहा.बडवाह जिला खरगौन म.प्र.451111
190	3007/2013	डॉ रिंकु पेंडारकर	भीकनगॉव जिला खरगौन म.प्र.
191	3008/2013	डॉ.पवन सोलंकी	ग्राम बासखेडा पोस्ट लुन्हेरा बुजुर्ग तहा मनावर जिला धार म.प्र. 454446
192	3010/2013	डॉ.मनोज कुशवाह	तेल मिल के सामने बंसीपुरा मुरार ग्वालियर म.प्र.474006
193	3011/2013	डॉ प्रशांत सिंह	ग्राम.व पोस्ट रौरा(करो) तहा रायपुर (कचु)जिला रीवा म.प्र. 486114
194	3014/2013	डॉ अंकित निगम	392 ग्राम पो.रैगॉव तहा रघुराज नगर जिला सतना म.प्र.485441
195	3016/2013	डॉ.रागिनी हजारी	राय बिल्डिंग के पास जबलपुर नाका जिला दमोह म.प्र.470661
196	3020/2013	डॉ शैलेन्द्र भंडारी	बास्कू कालोनी तहा.पानसेमल जिला बडवानी म.प्र.451770
197	3024/2013	डॉ साक्षी तिवारी	व्हेटनरी केम्पस जेल के पीछे ईश्वर नगर बेगमगंज जिला रायसेन म.प्र.464881
198	3026/2013	डॉ.गीता लोधी	24 के पटेलपुरा दिधारी तहा गोटेगॉवा जिला नरसिंहपुर म.प्र. 487114
199	3027/2013	डॉ सीमा सोनगरा	160 हरसोला भोली माता मन्दिर तहा महु जिला इन्दौर म.प्र. 453441
200	3028/2013	डॉ अभिषेक राजपूत	एम-71 विनय नगर सेक्टर 2 ए ग्वालियर म.प्र.474012
201	3029/2013	डॉ. सृति पाण्डेय	2/20/479 नेहरु नगर रीवा म.प्र.486001
202	3030/2013	डॉ विजय राठौड	ब्राह्मण मोहल्ला बाकानेर तह.मनावर जिला धार म.प्र.454446
203	3031/20132	डॉ मोहित गौतम	न्यू अशोक कालोनी नदी पार टाल मुरार ग्वालियर म.प्र.474006
204	3032/2013	डॉ ज्योति सैनी	39/ए सूर्यदेव नगर इन्दौर म.प्र.452009

क्र.	पंजीयन क्र.	नाम	पता
205	3035/2013	डॉ. जयविकास डुडवा	सी1,2 डि आर पी लाईन चोंदपुर रोड जिला अलीराजपुर म.प्र. 457887
206	3039/2013	डॉ मंयक शुक्ला	8718 प्रधानपुरा कालोनी जतारा जिला टीकमगढ म.प्र.472118
207	3043/2013	डॉ बबलू जमरे	ग्राम बसलगाँव पोस्ट व तह झिरन्या जिला खरगौन म.प्र.451332
208	3052/2013	डॉ विनीत केशरी	ग्राम सेमरिया तह.सिरमौर जिला रीवा म.प्र. 486445
209	3059/2013	डॉ. सव्यसौंदी त्रिपाठी	इन्द्रा नगर बरा जिला रीवा म.प्र. 486001
210	3061/2013	डॉ.रंजना बास्कले	राम मन्दिर कालोनी मु.पोस्ट तह.झिरन्या जिला खरगौन म.प्र. 450332
211	3062/2013	डॉ.प्रीति बाला रावत	पुलिस लाईन आम्बुआ तह जोवट जिला अलिराजपुर म.प्र. 457990
212	3064/2013	डॉ प्रियंका मुदगिल	प्लैट न.310 असित-अपाटमेट आर.टी.ओ ऑफिस के सामने साउथ सिविल लाईन जबलपुर म.प्र.482001
213	3065/2013	डॉ.रुचि शर्मा	कीवे कम्पाउन्ड उज्जैन म.प्र. 4456010
214	3069/2013	डॉ.विकास महाजन	एल.आई.जी.6 हाउसिंग बोर्ड कालोनी नरसिंहपुर म.प्र.487001
215	3071/2013	डॉ.श्वेता काम्बले	74 बी पुष्प नगर खजराना रोड इन्दौर म.प्र.452018
216	3072/2014	डॉ रुपसिंह पचाया	ग्राम आम्बा पो पिथनपुर तह.एवं जिला झाबुआ म.प्र.457661
217	3073/2014	डॉ.राजकुमार परमार	ग्राम लसुडिया(मलक)तह.कालापीपल जिला शाजापुर म.प्र. 465337
218	3074/2014	डॉ रामेन्द्र सिंह पटेल	ग्राम सालोचौका तह.गाडरवाडा जिला नरसिंहपुर म.प्र.487881
219	3075/2014	डॉ अजेन्द्र सिंह पाल	वृहताकार के पीछे लहार जिला भिण्ड म.प्र 477445
220	3076/2014	डॉ.मोनिका अग्रवाल	एस.आर.कम्पाउड लसोडिया मोरी देवास नाका ए.बी रोड इन्दौर म.प्र.452010
221	3077/2014	डॉ.अनुराधा गुप्ता	523 विवेकानंद वार्ड,यादव कालोनी जबलपुर म.प्र.482002
222	3078/2014	डॉ.मनी गहोई	हुजरात कोतवाली ग्वालियर म.प्र.474001
223	3079/2014	डॉ.सुरेन्द्र कुमार	विद्या नगर कालोनी खजुराहो तहा राजनगर जिला छतरपुर म. प्र.
224	3080/2014	डॉ प्रियंका अचाले	151/7 राधा रमण कालोनी लाईफ लाईन स्कूल के सामने मनावर जिला धार म.प्र.454446
225	3081/2014	डॉ.सरिता सिंह	109/1 ग्राम कदमसरा पो0वेंकट नगर अनुपपुर म.प्र.484113
226	3082/2014	डॉ सुनिता चौहान	न्यू .डी.आर.पी.लाईन रुम न.1/6 रैदास मार्ग वार्ड न.12 जिला बडवानी म.प्र.451551
227	3083/2014	डॉ महेश खराडी	89 शुभम श्री कालोनी रतलाम म.प्र.457001
228	3084/2014	डॉ राजीव कुमार शुक्ला	केयर ऑफ देवेन्द्र कुमार शुक्ल रतहरा पेट्रोल पंप एन.एच-7 रोड रीवा म.प्र.486001

क्र.	पंजीयन क्र.	नाम	पता
229	3085/2014	डॉ गजेन्द्र उईके	विवेकानंद वार्ड नेमा किराना दुकान के पास सिवनी म.प्र. 480661
230	3086/2014	डॉ प्रतिभा मालवीय	15 / 218 लालपुरा शाजापुर म.प्र.465001
231	3087/2014	डॉ.प्रीति बर्डे	जी-2 अबिका नगर (पाटीदार कालोनी) कपास मंडी के सामने खरगौन म.प्र.451001
232	3088/2014	डॉ आशा सोलंकी	ग्राम व पोस्ट बालपुर जिला अलीराजपुर म.प्र.457887
233	3089/2014	डॉ प्रियंका पाण्डेय	सरकारी स्कूल के बाजू से इंदिरा नगर सुहागी अधार ताल जबलपुर म.प्र.482004
234	3090/2014	डॉ शोभना मडावी	इन्द्रा आवास कालोनी वार्ड न.15 दमुआ जिला छिन्दवाडा म.प्र. 480555
235	3091/2014	डॉ शिवा सिंह परिहार	बाणसागर कालोनी रामपुर बघेलन जिला सतना म.प्र.425115
236	3092/2014	डॉ.दीपांशु गुप्ता	04 शिवजी नगर बालाजी निवास चौहान प्याउ थाटीपुर ग्वालियर 474011
237	3093/2014	डॉ अनिल कुमार सोलंकी	275 वार्ड न.14 शिवरात्री चौक आदीवासी बस्ती बडोदा जिला श्योपुर म.प्र.476339
238	3094/2014	डॉ धमेन्द्र सिंह यादव	ग्राम व पोस्ट जौरा खुर्द जिला मुरैना म.प्र.476001
239	3095/2014	डॉ कृष्णकान्त धाकड	किरार कालोनी गली न.3 कम्पू रोड लश्कर ग्वालियर म.प्र. 474001
240	3096/2014	डॉ संदीप शुक्ला	एलतिस ग्रेसियास बडी पोस्ट ऑफिस के पीछे 482001
241	3097/2014	डॉ नवीन कुमार शाक्य	एम.पी.ई.बी.ऑफिस के सामने नई कालोनी कुतधान रोड सवलगढ जिला मुरैना म.प्र.476229
242	3098/2014	डॉ.मुकेश कुमार निगम	अमहा पटेल पुल सीधी म.प्र.486661
243	3099/2014	डॉ जितेन्द्र कुमार	ग्राम उरहेरा पो.छैरा तहा0जौरा जिला मुरैना म.प्र.476001
244	3100/2014	डॉ.गिरीश मंगल	राधिका ट्रेडर्स साहू निवास 22 दाल बाजार ग्वालियर म.प्र. 474001
245	3101/2014	डॉ.दिनेश कुमार	ग्राम ककरधा पोस्ट इमलिया मुरैना 476221
246	3102/2014	डॉ.भावना रानी	म.न.1062 गली न.02 रोशन बाग पी.ओ सिकदरीय सराय भोपाल 462010
247	3103/2014	डॉ.कु.सुष्मिता सस्त्या	दशहरा खेडा धरमराय रोड डही जिला धार म.प्र.454365
248	3104/2014	डॉ कु.निर्मला मुवेल	राधारमण कालोनी जागेश्वर मंदिर लाईन मनावर म.प्र.454446
249	3105/2014	डॉ.महेन्द्र पाल सिंह क्षत्रीय	ग्राम गोवा पूर्वी पोस्ट चौमो तहा.पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ म.प्र. 472338
250	3106/2014	डॉ.पूजा विकास झा	ए-10 सूरज को ओपरेटिव हाउसिंग सोसायटी एन.आई.बी.एम. रोड कोढवा पुणे 411048
251	3107/2014	डॉ विन्नी डोडीयार	197 मोहन नगर रतलाम म.प्र.457001
252	3108/2014	डॉ.पंकज भाटी	शिवराम सेन शीतला माता गली कोदरिया महु जिला इन्दौर 453441

क्र.	पंजीयन क्र.	नाम	पता
253	3109/2014	डॉ.शैलजा बंसल	घास मण्डी मुशर भवन पुरानी कचहरी ग्वालियर म.प्र.474006
254	3110/2014	डॉ.महेश सूर्यवंशी	अम्बेडकर नगर सराना कालोनी तथा नरसिंहगढ जिला राजगढ(ब्यावरा) म.प्र.
255	3111/2014	डॉ सुभाष सिंह परिहार	न्यू धावडा कालोनी क्वाटर न.एम/25 उमरिया जिला उमरिया म.प्र.484661
256	3112/2014	डॉ बुधा वास्कले	ग्राम भिकारखेडी पो तथा. सेगोव जिला खरगौन म.प्र.451442
257	3113/2014	डॉ.अखिलेश पिपल	28/345 न्यू गॉंधी कालोनी मुरैना म.प्र.476001
258	3114/2014	डॉ सोनू कदम	वार्ड क 5 न्यू कालोनी. शासन भित रवार जिला ग्वालियर 475220
259	3115/2014	डॉ.मनोज कुमार शाक्य	ग्राम आटरी तथा पोस्ट कैलारस जिला मुरैना म.प्र.476224
260	3117/2014	डॉ चन्द्रकान्ता रावत	म.न.713 आजाद कालोनी कुशी जिला धार म.प्र. 454331
261	3118/2014	डॉ साधना वर्मा	ए/20 जुनी कचहरी सेगोव पो व तथा सेगोव जिला खरगौन म.प्र.451442
262	3119/2014	डॉ युद्धित मन्जु टोप्पो	म.न.18 सोमया विहार फेस 2 अवधपुरी खजुरीकला भोपाल
263	3120/2014	डॉ अमित सागर	गुरुद्वारे के सामने केशव नगर कालोनी श्योपुर म.प्र.476337
264	3121/2014	डॉ चेतन सिंह	ग्राम पोस्ट खैरहन तथा सिरमौर रीवा 486448
265	3122/2014	डॉ.धर्मन्द्र कुमार यादव	489/10 इदरिश नगर भूसाखेडी के पास इन्दौर 452001
266	3123/2014	डॉ खेमेन्द्र रोकडे	ग्राम व पो सेगवाल तह0 ठीकरी जिला बडवानी 457660
267	3124/2014	डॉ अंजली गौतम	बी-56 विवेक नगर मेला ग्राउण्ड के पीछे थाटीपुर ग्वालियर म. प्र.474011
268	3125/2014	डॉ.कल्पना पटेल	202 ए वसुन्धरा काम्पलेक्स वंदना नगर इन्दौर 452017
269	3126/2014	डॉ.लईक अहमद खान	41 ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कालोनी बडवानी म.प्र.451551
270	3127/2014	डॉ रुपेश	ग्राम लिंगवाँ पो.बकवाडी तथा राजपूर जिला बडवानी म.प्र. 451449
271	3128/2014	डॉ.अर्जुनलाल वर्मा	ग्राम सैपुरा पोस्ट पलेरा तथा पलेरा जिला टीकमगढ म.प्र. 472221
272	3129/2014	डॉ मनोज कुमार देवडा	89 शुभमक्षी कालोनी रतलाम म.प्र.457001
273	3131/2014	डॉ.गायत्री कश्यप	कटरा बाजार वार्ड 10 बडी सीमरीया रीवा म.प्र.486445
274	3132/2014	डॉ.अनामिका विश्वकर्मा	म.न.8/147 आनंद नगर ग्राम बोदा बाग जिला रीवा 486001
275	3133/2014	डॉ.भावना कुशवाह	म.न. 34/7 किशोर मंदिर के पीछे जिला पन्ना म.प्र.488001
276	3134/2014	डॉ प्रिया सिंह	पटेरिया हाउस के सामने गली न. 4 धावरी जिला सतना म.प्र. 485001
277	3135/2014	डॉ दीपक वास्कले	ग्राम बिरला पोस्ट दसनावल तथा सैगोव जिला खरगौन म.प्र. 451442
278	3136/2014	डॉ राकेश अवासे	77 घटटी तथा ठीकरी जिला बडवानी म.प्र.451660

क्र.	पंजीयन क्र.	नाम	पता
279	3137/2014	डॉ कान्ति राजे	खजुहा कला जिला रीवा म.प्र.486001
280	3138/2014	डॉ राकेश वारेस्वा	ग्राम मंजीटोला पोस्ट मुक्की तहा बैहर जिला बालाघाट म.प्र. 481111
281	3139/2014	डॉ शैलेन्द्र कुमार ठाकुर	सच्चिदानंद आश्रम के सामने ग्राम नककहुआ जिला इन्दौर म.प्र. 487001
282	3140/2014	डॉ पवन कुमार कवरेती	ग्राम जामुनझिरी पोस्ट खजरी तहा व जिला छिन्दवाडा म.प्र. 480001
283	3141/2014	डॉ प्रियंका शाक्य	गणेश मंदिर के पास बेगम गंज जिला रायसेन म.प्र.464881
284	3142/2014	डॉ प्रज्ञा यादव	102 तेज समीर अपार्टमेन्ट 16/1 रेस कोर्स रोड इन्दौर म.प्र. 452001
285	3143/2014	डॉ अनिल कुमार यादव	माल गोदाम रोड गणेशपुरा हाईस्कूल न.1 मैदान के पास मुरैना म.प्र.476001
286	3144/2014	डॉ अश्विनी उपध्याय	वार्ड 12 पुराना बाजार भितरवार ग्वालियर म.प्र.475220
287	3145/2014	डॉ संगीता कुलथिया	132 के.वी.एम.पी.ई.बी.ग्रीड कालोनी राजगढ़ जिला धार म.प्र. 454116
288	3146/2014	डॉ रंजना भारती	म.न.41 वार्ड न.05 डॉ साहू क्लीनिक के सामने बरेला जिला जबलपुर म.प्र.483001
289	3174/2014	डॉ योगेन्द्र सिंह	सीटी होम्स अपार्टमेन्ट 898 पटेल नगर सिटी सेन्टर ग्वालियर म.प्र.474011
290	3148/2014	डॉ राहुल निरंजन	मौनी बाबा मंदिर के पास नौगाँव जिला छतरपुर म.प्र.471201
291	3149/2014	डॉ गर्विता रुनवाल	13 कृषि बिहार कालोनी रसलपुरा महू जिला इन्दौर म.प्र. 453446
292	3150/2014	डॉ अजीत सिंह यादव	केयर ऑफ भागचन्द यादव भोज भवन के बगल से एम एस रोड मुरैना म.प्र. 476001
293	3151/2014	डॉ0 विनय कुमार इंदौरिया	ग्राम लखनपुरा तहसील भिण्ड म0प्र0 477001
294	3152/2014	डॉ0 सुमित सिंह तोमर	705, रसूलाबाद, हजीरा, ग्वालियर म0प्र0 474003
295	3153/2014	डॉ0 गरिमा शुक्ला	एल-100/9 ए, साकेत नगर भोपाल म0प्र0 462024
296	3155/2014	डॉ. सौरभ कुमार राजवैद्य	329, शिव महिमा भवन, एम.डी.जैन कॉलोनी, सनावद जिला खरगोन 451111
297	3156/2014	डॉ. निशांत सक्सेना	39, पाल रोड, नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ म.प्र. 465669
298	3157/2014	डॉ. ऋतु कोठे	259, बजरंग नगर, सनावद रोड, जैतपुर, खरगोन 451001
299	3158/2014	डॉ. मनीष चौरसिया	जी.एम. 279, दीनदयाल नगर, ग्वालियर, म.प्र. 474020
300	3295/2016	डॉ अशोक कुमार	472/500 ग्राम व पोस्ट जेरठ तहसील पथरिया जिला दमोह म.प्र. 470666
301	3297/2016	डॉ अरुण कुमार शुक्ला	पटेल हाऊस के पीछे, निराला नगर, रीवा म.प्र. 486002
302	3313/2016	डॉ उपेंद्र मिश्रा	ग्राम आकुरी रीवा म.प्र. 486001
303	3449/2017	डॉ पूजा तम्बोली	मां शारदा इलेक्ट्रिकल शारदा नगर रीवा म.प्र. 486001
304	3589/2017	डॉ.राजीव कुमार	शा.पो. पोस्ट अमरपुर जिला डिंडोरी म.प्र. 481880

No. 789-Reg-2019-20

Bhopal, the 17th September 2019

Sub : Publication of the list of defaulters, whose names have been removed from the Madhya Pradesh State Veterinary Practitioner Register (M.P.S.V.P.R.)

The Names of 304 Registered Veterinary Practitioners (RVPs) who have failed to renew their registration with the Madhya Pradesh State Veterinary Council on time are removed from the M.P.S.V.P.R. as per Section 48(2) of the Indian Veterinary Council (IVC) Act, 1984 (52 of 84). Further, the names & registration numbers so removed from the M.P.S.V.P.R. are published herewith in accordance with Section 49(6) of IVC Act, 1984.

The R.V.P.s whose names have been removed from the M.P.S.V.P.R. as per Section 48(2), can restore their names in the M.P.S.V.P.R. upon payment of the prescribed fee as per Section 50 of the Indian Veterinary Council Act, 1984. The R.V.P.s whose names are listed herewith and who have already restored their names before this notification may ignore this notification.

NIRANJAN SINGH, Registrar.

Madhya Pradesh State Veterinary Council, Bhopal
Madhya Pradesh State Veterinary Practitioner Register
Invalid List [Under IVC Act 1984 (52 of 1984) Section 48(2)]

Sr.	Reg No	Name	Address
1	0712/1996	Dr. Mukesh Sharma	177-A Kalpana Nagar ,Bhopal M.P. 462021
2	0723/1996	Dr. Rajmal Malhotra	Vill. & Post Tumda ,Tehsil Huzur Distt. Bhopal M.P. 462001
3	1099/1997	Dr. Naveen Shukla	257 Geetanjali Nagar ,Sector 2 Raipur C.G. 492001
4	1148/1998	Dr. Madan Singh Saalwar	Plot No 1037 Near Shahi Talab ,Sanjivani Nagar Garha,Jabalpur M.P. 482803
5	1169/1998	Dr. Ashok Kumar Chourasiya	C/2 Shaswat Villa Near SCA School ,Napier Town ,Jabalpur M.P. 482001
6	1170/1998	Dr. Sai Kiran Jha	F 110/34 Shivaji Nagar ,Bhopal M.P. 462008
7	1176/1998	Dr. Ashish Tiwari	44 Kamla Gram Extension ,Barkhedi Road ,Rasalpura Mhow, Indore M.P. 453446
8	1185/1998	Dr. Rashmi Khandelwal	A-204 BCM City ,Navlakha Chouraha ,Indore M.P.
9	1186/1998	Dr. Poonam Triphathi	88 Shrinagar Main Road,,Indore M.P. 452001
10	1199/1998	Dr. Neelesh Shah	EWS-820, Kotra, Sultanabad,,Bhopal M.P. 452003
11	1200/1998	Dr. Arvind Kumar Gupta	B/3 Officers Colony ,Khurai Distt. Sagar M.P. 470117
12	1258/1998	Dr. Brajendra Kumar Shrivastava	Balaji Nagar Unnav Road, ,Datia M.P. 475661
13	1259/1998	Dr. Praveen Shinde	D-373 Sardar Vallabh Bhai Patel,Misrod Phase-II B.D.A.,Behind Akriti Greens, Salaiya,,Bhopal M.P. 462026

Sr.	Reg_No	Name	Address
14	1261/1998	Dr. Lokesh Goyal	C/O Dr.Amit Goyal Choudary Building ,Jain Mandir Road ,Morena M.P. 476001
15	1263/1998	Dr. Umesh Chandra Sharma	E 7/1 Char Imli ,Bhopal M.P.462016
16	1265/1998	Dr. Mahendra Kumar Verma	Veterinary Office ,Krishna Nagar ,Satna M.P. 485001
17	1266/1998	Dr. Anjay Agarwal	Plot No 07 Mathura Vihar , ,Kanchan Vihar, Vijay Nagar,,Jabalpur M.P. 482002
18	1268/1998	Dr. Sanjay Jadhav	Veterinary Hospital Multai ,Masod Road Multai,Distt. Betul M.P.
19	1269/1998	Dr. Pankaj Kumar Dubey	51 Swapnil Vihar Colony,,Near Sari Mandir,, Indore Road Harda M.P. 461331
20	1277/1998	Dr. Pawan Kumar Singhal	M S Road Near Subash School,Kailaras Distt. Morena M.P. 476001
21	1281/1998	Dr. Rajesh Kumar Jain	D-90 Dwaraka Garden ,Tili Ward ,Sagar M.P. 470002
22	1308/1998	Dr. Pratibha Mandloi	B-16 Navlakha Complex ,Indore M.P. 465001
23	1309/1998	Dr. Rajendra Singh Damar	70/1 Abhyodaya Vihar Colony ,In front of Hotel Rajnandini ,Ahmdabad Road Dhar M.P. 454001
24	1311/1998	Dr. Pankaj Kapoor	29 Anupam Nagar, Soumya Vihar, ,Tulsi Parisar, Awadhपुरi, ,Bhopal M.P. 462220
25	1318/1998	Dr. Ravindra Kumar Rathi	F-17 Officers Colony ,Dhar M.P. 454001
26	1319/1998	Dr. Chhatar Singh Dawar	Vill.&PO Pipali Ghandhwani,Distt. Dhar M.P. 484001
27	1320/1998	Dr. Manjusha Rathi	F-17 Officers Colony ,Dhar M.P. 454001
28	1321/1998	Dr. Rajendra Prasad Sharma	48 Mahavir Ganj, Raj Talkies Road, ,Bhind M.P. 477001
29	1324/1998	Dr.Tejinder Kour Bagga	H. No - B 3A, Rachna Campus, ,Chuna Batthi, ,Bhopal M.P. 462001
30	1330/1998	Dr. Raghuraj Singh Gurjar	MIG-24 Ramtekri ,Distt. Mandsour M.P. 458001
31	1331/1998	Dr. Bharat Lal Swarnakar	Veterinary Hospital ,Pichhore Distt. Shivपुरi M.P. 473995
32	1353/1998	Dr. Brajesh Kumar Gupta	F 93/3 Tulsi Nagar ,Bhopal M.P. 462003
33	1354/1998	Dr. Dinesh Patel	P.O. Madawra, Teh. Thikri,,Barwani M.P. 451555
34	1356/1998	Dr. Umesh Kumar Chourasiya	E-04 Kotra Sultanabad,Bhopal M.P. 462003
35	1386/1998	Dr. Smriti Desai	F-8/45, Char Imli,,Bhopal M.P. - 462016
36	1391/1998	Dr. Goldy Shrivastava	4 Triveni Colony Manikbagh ,Indore M.P. 452004
37	1404/1998	Dr. Ravindra Kumar Jain	VAS, Veterinary Hospital, ,Hoshangabad M.P. 461001
38	1407/1998	Dr. Achayut Dixit	LIG Housing Board Colony ,Near Main Post Office ,Jabalपुर M.P. 482001
39	1418/1998	Dr. Vikram Pawar	Bajrang Apartment ,300 Clerk Colony ,Indore M.P. 452001
40	1429/1998	Dr. Nitin Kumar	730 Agarwal Colony ,Jabalपुर M.P. 482001
41	1439/1998	Dr. Pragya Chourasia	E-4 Kotra Suitanabad ,Bhopal M.P. 462003
42	1462/1998	Dr. Seema Jain	B-4 Shalimar Garden, ,Kolar Road, ,Bhopal M.P.
43	1497/1998	Dr. Aditi Dixit	LIG-35 Housing Board Colony ,South Civil Lines,Jabalपुर M.P. 482001
44	1501/1998	Dr. Brajesh Kumar Dubey	New Colony, H.No. 2/205, ,Birla Niwas ,Gwalior M.P. 474004
45	1505/1998	Dr. Narendra Pal Singh Gangwar	Chankyapuri, Near Girls College, ,Sehore M.P. 466001
46	1506/1998	Dr. Sunil Kumar Yadav	1001 Dwarika Nagar ,Lalmati Chungi Chouki ,Jabalपुर M.P. 482001
47	1507/1998	Dr. Om Prakash	Gayatri Mandir A.B. Road ,Kailaras Distt. Morena M.P. 476001
48	1508/1998	Dr. Rajeshwar Singh	B-15 Deendayalpuram ,Balaghat M.P. 481001
49	1525/1998	Dr. Jitendra Kumar Jatav	F1 Forest Colony Khinni Naka ,Madhav National Park ,Shivपुरi M.P. 473551

Sr.	Reg No	Name	Address
50	1526/1998	Dr. Harish Kumar Tripathi	H No 18-19 Tulsi Parisar Phase 2 ,Awadhपुरी ,Bhopal M.P. 462001
51	1530/1998	Dr. Anand Kumar Dwivedi	Village Post Badkhara ,Tahsil Churhat Distt. ,Sidhi M.P. 486771
52	1534/1998	Dr. Shankar Prasad Pandey	Village Post Rajendra Gram ,Distt. Anuppur M.P. 484440
53	1552/1998	Dr. Ravendra Singh Baghel	Gali No 3 Rajendra Nagar ,Distt. Satna M.P. 485001
54	1554/1998	Dr. Gopal Sahay Saxena	69 Yamuna Nagar Darpan Colony ,Gwalior M.P. 474011
55	1562/1998	Dr. Govardhan Das	Bundelkhand Colony ,Near Water Tank ,Datiya M.P. 475661
56	1570/1998	Dr. Meeta Guha	51 Rajul Vihar Tilhari ,Mandla Road ,Jabalpur M.P. 482020
57	1573/1998	Dr. Sanjay Kumar Sharma	1786 New Shobhapur Colony ,Jabalpur M.P. 482009
58	1582/1998	Dr. Jagdamba Prasad Lakher	Amanganj Post Office ,Distt. Panna M.P. 488441
59	1584/1998	Dr. Keerti Nema	21 Rudra Colony ,Malakhedri Road ,Hoshangabad M.P. 461001
60	1586/1998	Dr. Nishi Pandey	130 Nehru Nagar ,Opp. Medical College ,Jabalpur M.P. 482003
61	1589/1998	Dr. Richa Pandey	272 Jay Nagar Yadav Colony ,Jabalpur M.P. 482002
62	1593/1998	Dr. Saroj Markam	Badikheri College Road ,Mandla M.P. 481661
63	1614/1998	Dr. Amitava Banerjee	Aditya Nagar 39 Tegor Nagar ,Ph-II Barkhera ,Bhopal M.P. 462001
64	1627/1998	Dr. Abhinav Shukla	Hansnagar Colony ,Narmada Pul Par ,Dindori M.P. 481880
65	1630/1998	Dr. Mukesh Kumar Singhal	Raseshwari, Dinesh Photo Studio ,Beerapur Vijaypur,,Morena M.P. 476335
66	1632/1998	Dr. Sanjeev Kumar Malviya	Marapura Sohagpur ,Distt. Hosnagabad M.P. 461771
67	1634/1998	Dr. Subhash Babu Dohare	RH-8 PWD Office, Behind Girls H.S. School, ,Civil Lines Sounsar ,Distt. Chhindwara M.P. 480106
68	1636/1998	Dr. Praveen Upadhyay	A-7 Dwarikapuri ,Gwalior M.P. 474003
69	1659/1998	Dr. Hariom Patil	108 Bahaeti Colony ,Harda M.P. 461331
70	1660/1998	Dr. Satya Narayan Banke	Qtr No F1 Veterinary Campus ,Harda M.P. 461331
71	1666/1998	Dr. Bhupendra Singh Patidar	Veterinary Hospital Khachrod,Distt. Ujjain M.P. 456001
72	1667/1998	Dr. Param Singh Kushwaha	Veterinary Hospital Compound ,Civil Lines Road ,Jaora Distt. Ratlam M.P. 457001
73	1669/1998	Dr. Vinit Kumar Tiwari	H/O Sunil Sharma Vakil, ,Shivam Nagar, ,Raisen M.P. 464551
74	1670/1998	Dr. Gulab Singh Solanki	Ward No 14 Gayatri Colony ,Kukshi ,Distt. Dhar M.P. 454331
75	1673/1998	Dr. Dharam Das Chadhar	O/oDeputy Director Veterinary Services,,Dr Makhani Jain Compound,,Cantt., Behind Pili Kothi,,Sagar M.P. 470001
76	1676/1998	Dr. Hema Kapoor	29 Anupam Nagar Soumya Vihar ,Tulsi Parisar Awadhपुरी ,Bhopal M.P. 462001
77	1677/1998	Dr. Elizabeth Thomas	118 Good Shefard Colony ,Kolar Road ,Bhopal M.P. 462040
78	1679/1998	Dr. Babita Chaturvedi	B2 Kamla Nagar Kotra ,Bhopal M.P. 462024
79	1680/1998	Dr. Surya Prakash Upadhyay	Upadhyay Sadan MLB Road ,Shinde Ki Chhavni ,Lashkar Gwalior M.P. 474009
80	1682/1998	Dr. Deepshikha Shinde	D-373 Sardar Vallabh Bhai Patel,Misrod Phase-II B.D.A.,Behind Akriti Greens, Salaiya,,Bhopal M.P. 462026
81	1683/1998	Dr. Sandip Thoke	103 Godawari Vihar ,263 Friends Colony Karol Road ,Nagpur (M.H.) 440013
82	1687/1998	Dr. Vandana Jain	Ahinsa Vastralay Chowk Bazar ,Satna M.P. 485001

Sr.	Reg. No	Name	Address
83	1590/1998	Dr. Sawtantra Kumar Gupta	200/3 Nayapura Near Jail Road ,Indore M.P. 452003
84	1698/1999	Dr. Dharmendra Kumar Jain	Behind Vaishali Hostel Prem Colony ,Station Road ,Mandsour M.P. 458001
85	1707/1999	Dr. Kamta Prasad Kurmi	H No 36 Shiv Sthali Colony ,Makroniya, Sagar M.P. 47004
86	1737/1999	Dr. Atul Gupta	E 8/183 Bharat Nagar Shahpura ,Bhopal M.P. 462039
87	1765/1999	Dr. Anju Sodhi	D K 1/85 Danish Kunj Kolar Road ,Bhopal 462042
88	1812/1999	Dr. Pyar Singh Patel	F 93/31 Tulsi Nagar ,Bhopal M.P. 452008
89	1839/1999	Dr. Sheikh Mahmood	Vill. & Post Rajnagar,,Chhatarpur M.P. 471001
90	1858/1999	Dr. Asha Vibhor Shrivastava	524, Agrawal Colony,,Jabalpur M.P. 482001
91	1859/1999	Dr. Manoj Kumar Sharma	G / H 554 Bypass Road ,Ayodhya Nagar ,Bhopal M.P. 462001
92	1915/2000	Dr. Suresh Kumar Shrivastava	New Devendra Colony ,Near MRF Tyre Showroom, Englishpura,Sehore, M.P. 466001
93	2045/2002	Dr. Gopal Rai Bansal	Nehru Bazaar ,Vijaypur Distt. Sheopur M.P. 476 001
94	2108/2003	Dr. Ashish Kumar Jain	72 Abhinandan Nagar, Sukhaliya, ,Indore M.P. 452010
95	2109/2003	Dr. Shailly Jain	97 Rachna Nagar , ,Bhopal M.P. 462 023
96	2122/2003	Dr. Yogesh Kumar	Road No 7,Navjeevan Colony, ,Chhola Road ,Bhopal M.P. 462010
97	2126/2003	Dr. Devendra Kumar Gautam	E -6 Indramani Nagar ,Bhole Ram Mandir, ,Gwalior M.P. 474001
98	2135/2003	Dr Raghvendra Sharma	Village & Post Pipadi, Gohad, ,Distt. Bhind M.P.
99	2155/2003	Dr. Pradeep Kumar Sharma	F -50/28 South T T Nagar ,Bhopal M.P. 462 003
100	2159/2003	Dr. Ashish Sharma	69 Platoon Area, New Bus Stand, ,In Front Of The Primary School , ,Sehore M.P. 466 001
101	2160/2003	Dr. Amit Vyas	House No. 101 S.S. Pride Gulab Colony ,Dewas Naka Road ,Indore M.P. 452010
102	2166/2003	Dr. Sonal Nema	Behind Durga Temple Suhagi Adhartaal ,Jabalpur M.P.482004
103	2167/2003	Dr. Atul Soni	Civil Line ,Didonri M.P. 481 880
104	2170/2004	Dr. Alok Kumar Jain	C/oShri M.P. Jain Mahaveer Kirana Store, ,Near Cheap Store, ,Tikamgarh M.P. 472001
105	2172/2004	Dr. Saurabh Gupta	Amrita Nivas Dubey Colony ,Barahi Road ,Katni M.P. 483501
106	2185/2004	Dr. Ashish Kumar Godani	C/o Ishwarlal Patidar, 12/12 Pragati Nagar, ,Near Nanakeda Bus Stand, ,Ujjain M.P. 456010
107	2186/2004	Dr Pushpraja Singh Sikarwar	In Front Petrol Pump, ,Sabalgadh ,Distt. Morena M.P. 476 229
108	2187/2004	Dr. Raju Mahadeo Rao Bhurbhude	Veterinary Hospital Gughri ,Mandla M.P. 481 664
109	2200/2004	Dr. Snehlata Patle	Plot No 162 Shakti Nagar, ,Jabalpur M.P. 482 001
110	2202/2004	Dr. Jyoti Mittal	1153 B Khatiwala Tank ,Behind Jain Temple,Indore M.P. 452 014
111	2206/2004	Dr. Jagbir Singh Kanesh	Veterinary Hospital Dhargaon, ,Distt. Khargone M.P. 451 222
112	2212/2004	Dr. Nan Singh Akaade	Village Bakhtala Post Gandhvani ,Distt. Dhar M.P. 454001
113	2214/2004	Dr. Rajaram Ahirwar	56 G Veer Sawarkar Marg, ,Veterinary Hospital Campus, ,Post Chopathi, Distt. Dhar M.P. 454001
114	2216/2004	Dr. Brijesh Kumar Niwaria	Vikram Nagar Near MPEB Coloy, ,Rasulia Hoshangabad M.P. 461 001
115	2219/2004	Dr. Rinkesh Kumar Verma	30 Haat Ki Chowki Gali No. 2 ,Ratlam, M.P. 457 001

Sr.	Reg_No	Name	Address
116	2225/2004	Dr Vishakha Ahirwar	F -83/15 Tulsi Nagar ,Near Maharashtra Bhawan ,Bhopal M.P. 462003
117	2226/2004	Dr. Rajesh Singh	Shri Krishna Nagar, Street No. 5 ,Birlanagr ,Gwalior M.P. 474 004
118	2230/2004	Dr. Girish Kumar Mishra	C/o Shri Babulal Mishra, Medical Store ,Infront of Allahabad Bank, Semariya , Rewa, M.P. 486 445
119	2232/2004	Dr. Chaturbhuja Naagar	Veterinary Hospital Campus ,New Bus Stand Jhirnya ,Khargone, M.P. 415 332
120	2287/2005	Dr. Suresh Kumar Goud	Vill.& Post Bilanji ,Distt. Mandsaur M.P. 458990
121	2490/2008	Dr. Rakesh Tiwari	Vill. Barchakhurd, Khategaon,,Dewas M.P. 455 336
122	2494/2008	Dr. Manisha Sahasnani	J.K. Medical Store , Taigore Colony , ,Moghat Road ,Khandwa M.P. 450 001
123	2496/2008	Dr. Jay Kumar Jain	Behind Sukh Sagar Restaurant ,Jabalpur Road ,Damoh M.P. 470 661
124	2508/2008	Dr. Deepak Kumar Nag	M -854 , Darpan Colony, Thatipur ,Gwalior M.P. 474011
125	2511/2008	Dr. Bharat Suman Sharma	15-B/2 Senshah Garden , Bhopal M.P.
126	2513/2008	Dr. Dharam Singh Jagria	498 Shilnath Camp Kulkarni Ka Bhatta ,Indore M.P. 452003
127	2517/2008	Dr. Jagajeevan Lal Saket	Vill.&Post Dera , Tehsil Mauganj , ,Distt. Rewa M.P. 486 333
128	2522/2008	Dr. Sanjay Kumar Shakya	G. Alapur , Tehsil Joura ,Distt. Morena M.P. 476 221
129	2526/2008	Dr. Anil Singh	10/642 , Near Nandan Kids School ,Anantnpur,Rewa M.P. 486 001
130	2527/2008	Dr. Chandan Singh Batham	Behind Bhalla Garment , ,Narendra Nagar ,Distt. Shivpuri M.P.
131	2528/2008	Dr. Naval Singh Rawat	Vill. Ghanaura PO Jirabad ,Tehsil Gandhvani ,Distt. Dhar M.P. 454 446
132	2531/2008	Dr. Nisha Patel	10/642 , Near Nandan Kids School ,Anantnpur ,Rewa M.P. 486 001
133	2532/2008	Dr. Pramod Kumar Sharma	Veterinary Hospital Campus ,Agar Agarmalwa M.P. 465441
134	2534/2008	Dr. Deepti Gupta	24/152 Jawar Road , Near PNB ,Chhatarpur M.P. 471001
135	2535/2008	Dr. Jitendra Choudhary	Near Centre Point Complex , ,Trimurti Bhawan ,Phool Bagh Chauraha, Lashkar ,Gwalior M.P. 474002
136	2538/2008	Dr. Arvind Kumar Sharma	C/o Kamlesh Sharma , Gayatri Market ,Ater Road Chauraha, Porsa ,Distt. Morena M.P. 476111
137	2543/2008	Dr. Sushma Shelu	H -112 Patwapura Shahpur ,Betul M.P. 460 440
138	2546/2008	Dr. Yogendra Kumar Goud	1/7 Hospital Campus ,Sabalgarh Morena M.P. 476229
139	2550/2008	Dr. Piyush Dubey	24/151Dwarka Nagar ,Rewa M.P. 486 001
140	2555/2008	Dr. Bharatlal Sharma	Village Sikaroda ,Distt. Morena M.P. 476 002
141	2567/2008	Dr. Manoj Kumar Gautam	H -16 Hare Krishna Homes ,Kolar Road Bhopal M.P. 462026
142	2570/2008	Dr. Smriti Gupta	Behind Sardar Patel School ,Ghasaula ,Shahdol M.P. 48400
143	2575/2008	Dr. Neelam Tandia	Rajendra Garam (Kirgi) ,Tehsil Pushprajgarh ,Distt. Anuppur M.P. 484881
144	2582/2009	Dr. Anil Sharma	Village Bhua Ka Pura, Post Khand ,Tehsil Ambah Distt. ,Morena M.P. 476 111
145	2585/2009	Dr. Maheep Dixit	Pragati Nagar Main Road ,Kante Sahab Ka Bagh ,Gwalior M.P. 474 012

Sr.	Reg. No	Name	Address
146	2592/2009	Dr. Rajesh Kumar Shende	Veterinary Hospital Dharampur, Ajaygarh,,Distt. Panna M.P. 488222
147	2595/2009	Dr. Ashish Agrawal	C/o Jai Ma Traders, Near B R Garden, Naina Gruh Ki Puliya, Mayur Tilak Road, Morena M.P. 470 001
148	2597/2009	Dr. Man Singh Bamania	Village Jabniya, Post Moti Badwai, Distt. Alirajpur M.P.
149	2598/2009	Dr. Anil Dawar	Veterinary Hospital Punasa, Khandwa M.P. 450001
150	2599/2009	Dr. Hukum Chand Patel	146 MIG Vindhya Vihar Colony, New Housing Board, Khargone M.P. 451001
151	2601/2009	Dr. Ashok Kumar Sule	O/o Deputy Director, Veterinary Services, Sanawad Road, Khargone M.P. 451001
152	2602/2009	Dr. Shivkumar Dangode	88 Saraswati Nagar, Badwah, Khargone M.P. 451 115
153	2603/2009	Dr. Dinesh Kumar Malviya	Village Bachhkhal, Tehsil Khatagaon, Distt. Dewas M.P. 455336
154	2604/2009	Dr. Deepak Nawani	H.No. 186 Civil Lines Ward 2, Near Gyan Jyoti School Nainpur, Distt. Mandla M.P. 481776
155	2607/2009	Dr. Ram Govind	Ram Nagar Colony Gali No. Jaura, Morena M.P. 476 221
156	2608/2009	Dr. Anup Vaishya	G -138 Krishi Nagar Colony, Aadhartal, Jabalpur M.P. 482004
157	2609/2009	Dr. Manish Kumar Tripathi	B-31 R K Puri, Thatipur, Murar, Gwalior, M.P. 474011
158	2610/2009	Dr. Balram Salewar	Shivam Sundaram Nagar, P G College Road Kukda Jagat, Chhindwara M.P.
159	2613/2009	Dr. Jitender Baghel	Village Kudari Via Khera Palri, Dist. Seoni M.P. 480 991
160	2615/2009	Dr. Sonal Shrivastava	1425 Saraswati Colony Cherital, Jabalpur M.P. 482002
161	2617/2009	Dr. Sunil Kumar Choudhary	LIG A-22, Priyadarshini Nagar, Nyas Colony, Behind Vatsalya Hospital, Itarsi M.P. 461111
162	2618/2009	Dr. Manoj Kumar Urmalia	Shiv Nagar Bus Stand, Katni M.P. 483501
163	2619/2009	Dr. Kush Shrivastava	Jagatnarayn 1567 Napier Town, Jabalpur M.P. 482001
164	2624/2009	Dr. Pooja Bharadwaj	Saket Nagar Colony, Kareli, Narsinghpur, M.P. 487221
165	2626/2009	Dr. Amit Kumar Dohre	Maharana Pratap Chouraha Lahar, Bhind M.P. 477 445
166	2627/2009	Dr. Roshanlal Bairwa	Village & Post Tulsef, Distt. Sheopur M.P. 476 337
167	2629/2009	Dr. Ranveer Singh Jatav	63 Hinjoniya Sadan Siddharth Nagar, Thatipur Gwalior M.P. 476 011
168	2634/2009	Dr. Sanjay Sonkeshria	C/o Komal Chand Sonkeshria, Bajrang Chouk Ward 5, Barghat, Distt. Seoni M.P. 480 667
169	2637/2009	Dr. Debsri Bhowmick	1139, Yadav Colony, Jabalpur M.P. 482 002
170	2644/2009	Dr. Mahendra Singh Semil	Behind P G College Uttmpura, Distt. Morena M.P. 476 001
171	2649/2009	Dr. Girdharilal Awase	82 Vivekananda Nagar, Jhabua M.P. 457 661
172	2956/2013	Dr. Deepak Suri	1/4 Yadgar Colony Sadar, Jabalpur, M.P. 482.009
173	2962/2013	Dr. Chandrapal Singh Jadoun	Village Birkadi Tehsil Gohad, Distt. Bhind M.P. 477001
174	2963/2013	Dr. Arpana Raikwar	B.M. 10, Rajiv Nagar, Ayodhya Phase -3, Bhopal M.P. 462 041
175	2965/2013	Dr. Durgendra Singh	House No 6/16, T.I.T. Colony, Jabalpur M.P. 482 001
176	2966/2013	Dr. Girjesh Kumar Patel	House No 849 D, Gali No 16 Sadar, Jabalpur M.P. 482 001
177	2972/2013	Dr. Santosh Singhal	Hari Iron Store, Ambah Road, Porsa, Morena, M.P. 476115
178	2973/2013	Dr. Narendra Kumar Madhuria	Village Gadroali Post Khitauli, Tehsil Gohad, Distt. Bhind M.P. 477116
179	2980/2013	Dr. Amit Odh	D-31 Siddharth Lake City, Raisen Road, Bhopal M.P. 462021
180	2985/2013	Dr. Kumar Govil	50, Sikander Kampu, Lashkar, Gwalior M.P. 474001

Sr.	Reg_No	Name	Address
181	2988/2013	Dr. Priyanka Marskole	H-37, Ward-15, Behind Badi Kermal, ,Nainpur,,Distt. Mandla M.P. 481776
182	2989/2013	Dr Shweta Thakur	220 Tagore Ward Water Tank ,Powerhouse Area ,Seoni M.P. 480661
183	2991/2013	Dr. Bhanu Pratap Singh Thakur	C- 89 Paras Vihar Naka ,Chandravadni, Jhansi Road, ,Gwalior, M.P., 474009
184	2994/2013	Dr. Madhu Mishra	F-4 Kotwali Colony Stadium Road ,Shahadol M.P. 484001
185	2995/2013	Dr. Anubha Prashant Pathak	Dk-2/506 Danish Kunj ,Kolar Road Bhopal M.P. 462042
186	2997/2013	Dr. Sakshi Dubey	Janaki Bhavan, Dodo Mohalla, ,Seoni M.P. 480661
187	3000/2013	Dr. Shashi Tekam	Ward 9, D-22 M.C.P. Navrang Village ,Near Post Malajganj Tehsil Baihar ,Distt. Balaghat M.P. 481116
188	3002/2013	Dr. Shivani Tiwari	Vill. Chormari Rampur Baghalan, ,Distt. Satna M.P. 485116
189	3004/2013	Dr. Manisha Tawar	113 Vill. Junapani Tehsil Badwah ,Distt. Khargone M.P. 451111
190	3007/2013	Dr. Rinku Pendarkar	Vikas Photo Studio, Bus Stand,,Bhikangaon, ,Distt. Khargone M.P. 451331
191	3008/2013	Dr. Pawan Solanki	Vill. Banskhedha Post Lunhera Bujurg ,Tehsil Manavar, ,Distt. Dhar M.P. 454446
192	3010/2013	Dr. Manoj Kushwah	Infront Of Oil Mill ,Bansipura Murar ,Gwalior, M.P. 474006
193	3011/2013	Dr Prashant Singh	Vill. And Post Raura (Kaira) ,Tehsil Raipur (Kachthan) ,Distt. Rewa M.P. 486114
194	3014/2013	Dr Ankit Nigam	392 Vill. Post Raigaon , ,Tehsil Raghuraj Nagar, ,Distt. Satna, M.P. 485441
195	3016/2013	Dr. Ragini Hajari	Near Rai Building, ,Jabalpur Naka ,Distt. Damoh M.P. 470661
196	3020/2013	Dr. Shailendra Bhandari	Bascu Colony , Tehsil Pansamal ,Distt. Badvani M.P. 451770
197	3024/2013	Dr. Sakshi Tiwari	Veterinary Campus, Behind Jail, Ishwar Nagar, ,Begamganj ,Distt. Raisen M.P. 464881
198	3026/2013	Dr. Geeta Lodhi	24-K, Patelpura Didhari, ,Tehsil Gotegaon, ,Distt. Narsinghpur ,M.P. 487114
199	3027/2013	Dr. Seema Songra	160 Harsola , Bholi Mata Mandir, ,Tehsil Mhow ,Distt. Indore M.P. 453441
200	3028/2013	Dr. Abhishek Rajput	M -71 Vinay Nagar Sector 2 A ,Gwalior M.P. 474012
201	3029/2013	Dr. Sriti Pandey	2/20/479, Nehru Nagar,,Rewa, M.P. 486001
202	3030/2013	Dr. Vijay Rathore	Brahman Mohalla Bakaner, ,Tehsil Manavar ,Distt. Dhar M.P. 454446
203	3031/2013	Dr. Mohit Gautam	New Ashok Colony , Nadi Par, ,Tal Murar ,Gwalior, M.P. 474006
204	3032/2013	Dr. Jyoti Saini	39/A Suryadev Nagar ,Indore M.P. 452009
205	3035/2013	Dr. Jayvikas Dudwa	C 1,2 DRP Line Chandpur Road ,Distt. Alirajpurpur M.P. 457 887
206	3039/2013	Dr. Mayank Shukla	8718 Pradhanpura Colony Jatara ,Distt. Tikamgarh M.P. 472118
207	3043/2013	Dr. Bablu Jamre	Vill.s Salgaon Post Jhiranya, ,Dist. Khargone M.P. 451332
208	3052/2013	Dr. Vineet Keshri	Vill. Semaria, Tehsil Sirmaur, ,Distt. Rewa, M.P. 486 445
209	3059/2013	Dr. Savyasachi Tripathi	Indira Nagar , Bara, ,Distt. Rewa, M.P. 486 001
210	3061/2013	Dr. Ranjana Baskle	Ram Mandir Colony ,Post & Tehsil Jhiranya, ,Distt. Khargone M.P. 450332

Sr	Reg No	Name	Address
211	3062/2013	Dr. Pritibala Rawat	Police Line Ambua Tehsil Jowat ,Distt. Alirajpur M.P. 457990
212	3064/2013	Dr. Priyanka Mudgal	Flat No. 310 Asit Apartmet , ,Infront Of RTO Office, South Civil Lines, Jabalpur M.P. 482001
213	3065/2013	Dr Ruchi Sharma	Kive Compound ,Ujjain, M.P. 4456010
214	3069/2013	Dr. Vikas Mahajan	LIG 6 Housing Board Colony ,Narsinghpur, M.P.487001
215	3071/2013	Dr. Shweta Kamble	74 B , Pushp Nagar, Khajrana Road ,Indore M.P. 452018
216	3072/2014	Dr. Rup Singh Pachaya	Vill. Amba PO Pithanpur , ,Tehsil And Distt. Jhabua M.P. 457661
217	3073/2014	Dr Rajkumar Parmar	Vill. Lasudia (Malak) , Tehsil Kala Peepal ,Distt. Shajapur M.P. 465337
218	3074/2014	Dr. Ramendra Singh Patel	Vill. Salichauka ,Tehsil Gadarwara ,Distt. Narsinghpur M.P. 487881
219	3075/2014	Dr. Ajendra Singh Pal	Behind Vrhatakar, Lahar ,Distt. Bhind M.P. 477 445
220	3076/2014	Dr. Monika Agrawal	C/o Prashant Medicos, ,S R Compound, Lasodia Mori , ,Dewas Naka A.B. Road, ,Indore, M.P. 452010
221	3077/2014	Dr. Anuradha Gupta	523, Vivekananda Ward, Yadav Colony ,Jabalpur M.P. 482002
222	3078/2014	Dr. Mani Gahoi	Hujrat Kotwali ,Gwalior M.P. 474001
223	3079/2014	Dr. Surendra Kumar	Vidya Nagar Colony Khajuraho ,Tehsil Rajnaagar ,Distt. Chhatarpur M.P. 471625
224	3080/2014	Dr. Priyanka Achale	151/7 Radha Raman Colony, ,Infront Of Life Line School, Manavar ,Dist. Dhar M.P. 454446
225	3081/2014	Dr. Sarita Singh	109/1 Vill. Kadamsara , ,Post Venkatnaagar ,Anuppur M.P. 484113
226	3082/2014	Dr. Sunita Chauhan	New DRP Line, Room No. 16, ,Raidas Marg, Ward No. 12, ,Barwani M.P. 451551
227	3083/2014	Dr. Mahesh Kharadi	89 Shubham Shri Colony, ,Ratlam, M.P. 457001
228	3084/2014	Dr. Rajiv Kumar Shukla	C/o Devendra Kumar Shukla, ,Ratahra Petrol Pump, NH-7 Road, ,Rewa M.P. 486001
229	3085/2014	Dr. Gajendra Uike	Vivekananda Ward, Near Nema Kirana, ,Krishna Mandir, ,Seoni M.P. 480661
230	3086/2014	Dr.Pratibha Malviya	15/218 Lalpura ,Shajapur M.P. 465001
231	3087/2014	Dr. Preeti Barde	G-2 Ambika Nagar (Patidar Colony) ,In Front Of Kapas Mandi, ,Khargone M.P. 451001
232	3088/2014	Dr. Asha Solannki	Vill. And Post Balpur ,Distt. Alirajpurpur M.P. 457887
233	3089/2014	Dr. Priyanka Pandey	Next To The Govt. School, Indira Nagar, ,Suhagi, Adhartaal,,Jabalpur M.P. 482004
234	3090/2014	Dr. Shobhana Madavi	Indra Awas Colony Ward 15,Damua. ,Distt. Chhindwara M.P. 480555
235	3091/2014	Dr. Shiva Singh Parihar	Bansagar Colony Rampur Baghelan ,Distt. Satna M.P. 425115
236	3092/2014	Dr Deepanshu Gupta	04 Shivji Nagar, Balaji Niwas ,Chauhan Pyau Thatipur ,Gwalior M.P. 474 011
237	3093/2014	Dr. Anil Kumar Solanki	275 Ward No. 14 Shivaratri Chowk, ,Adiwasi Basti Baroda ,Distt. Sheopur M.P. 476339
238	3094/2014	Dr. Dharmendra Singh Yadav	Vill. And Post Jaura Khurd ,Distt. Morena, M.P. 476001
239	3095/2014	Dr. Krishnkant Dhakad	Kirar Colony , Gali No. 3 , ,Kampu Road Lashkar ,Gwalior M.P. 474001
240	3096/2014	Dr. Sandeep Shukla	Eltis Gresias Behind Badi Post Office, ,Rewa M.P. 486001

Sr	Reg_No	Name	Address
241	3097/2014	Dr. Naveen Kumar Shakya	In Front Of MPEB Office, New Colony , ,Kutdhan Road, Sabalgarh, ,Distt. Morena M.P. 476229
242	3098/2014	Dr. Mukesh Kumar Nigam	Amaha Patel Pul, ,Sidhi M.P. 486661
243	3099/2014	Dr. Jitender Kumar	Vill.s Urhera , Post Chhera , ,Tehsil Jaura , ,Distt. Morena M.P. 476001
244	3100/2014	Dr. Girish Mangal	Radhika Traders Sahu Niwas, ,12 Dal Bazaar , ,Gwalior M.P. 474001
245	3101/2014	Dr Dinesh Kumar	Vill. Kakardha Post Imalia Tehsil Jaura , ,Distt. Morena M.P. 476221
246	3102/2014	Dr. Bhavna Rani	House No.1062 , Gali No. 2, Roshan Bagh ,Sikandariye Saray, ,Bhopal M.P. 462 010
247	3103/2014	Dr. Ku. Sushmita Sastya	Dusshehra Kheda ,Dharamrai Road Dahi ,Distt. Dhar M.P. 454365
248	3104/2014	Dr. Ku. Nirmala Muwel	Radharaman Colony ,Jageshwar Temple Line Manavar ,Distt. Dhar M.P. 454446
249	3105/2014	Dr. Mahendra Pal Singh Kshatriya	Vill. Gowa Poorvi Post Chomo ,Tehsil Prithvipur,,Distt. Tikamgadh M.P. 472338
250	3106/2014	Dr. Puja Vikas Jha	C/o V.P. Tiwari ,8/502/2 Anand Nagar, Rewa, M.P.
251	3107/2014	Dr. Vinny Dodiya	197 Mohan Nagar, ,Ratlam M.P. 457001
252	3108/2014	Dr. Pankaj Bhati	Shivram Sen , Sheetla Mata Gali, Kodaria, Mhow,,Distt. Indore M.P. 453 441
253	3109/2014	Dr. Shailja Bansal	Ghass Mandi, Murar Bhawan, Purani Kachehri, ,Gwalior M.P. 474006
254	3110/2014	Dr. Mahesh Suryavanshi	Ambedkar Nagar Sarana Colony , ,Tehsil Narsingharh, Distt. Raigarh (Biaora) M.P.
255	3111/2014	Dr. Subhash Singh Parihaar	New Chhabra Colony ,Quarter No. MQ 25 Umaria ,Distt. Umaria M.P. 484661
256	3112/2014	Dr Budha Waskle	Vill. Bhikarkhedi ,Post & Tehsil Segaon, ,Distt. Khargone M.P. 451442
257	3113/2014	Dr. Akhilesh Pippal	28/345 New Gandhi Colony,,Morena M.P. 476001
258	3114/2014	Dr. Sonu Kadam	Ward No. 5 ,New Colony Bhitwar ,Distt. Gwalior M.P. 475 220
259	3115/2014	Dr. Manoj Kumar Shakya	Vill.Aatri ,Tehsil Post Kailaras ,Distt. Morena, M.P. 476224
260	3117/2014	Dr. Chandrakanta Rawat	House No. 713 , Azad Colony, ,Kukshi Distt. Dhar M.P. 454 331
261	3118/2014	Dr. Sadhana Verma	4/20 Juni Kachehri, Segaon, ,Distt. Khargone M.P. 451442
262	3119/2014	Dr. Yudit Manju Toppo	House No. 18, Somya Vihar Ph-2, ,Awadhपुरi, Khajurikala, ,Bhopal M.P. 462021
263	3120/2014	Dr. Amit Sagar	In Front Of Gurudwara, ,Keshav Nagar Colony ,Sheopur M.P. 476337
264	3121/2014	Dr. Chetan Singh	Vill. Post Khairhan, ,Tehsil Sirmaur, ,Distt. Rewa M.P. 486 448
265	3122/2014	Dr. Dharmendra Kumar Yadav	489/10 Idrish Nagar, Near Bhusakhedi, ,Indore M.P. 452001
266	3123/2014	Dr. Khemendra Rokde	Village And Post Segwal, ,Tehsil Thikri ,Distt. Barwani M.P. 457660
267	3124/2014	Dr. Anjali Gautam	B -56 , Vivek Nagar, ,Behind Mela Ground, ,Thatipur Gwalior M.P. 474011
268	3125/2014	Dr. Kalpana Patel	202 A Vasundhara Complex ,Vandana Nagar, ,Indore M.P. 452017

Sr.	Reg No	Name	Address
269	3126/2014	Dr. Laik Ahmed Khan	41 Old Housing Board Colony ,Barwani M.P. 451551
270	3127/2014	Dr Rupesh	Vill. Lingwa , PO Bakwadi , Tehsil Raipur , Distt. Barwani M.P. 451449
271	3128/2014	Dr. Arjun Lal Verma	Vill. Sepura Post Palera, Tehsil Palera , Distt. Tikamgarh M.P. 472221
272	3129/2014	Dr. Manoj Kumar Deoda	89 Shubhamshri Colony ,Ratlam, M.P. 457001
273	3131/2014	Dr. Gaytri Kashyap	Katra Bazaar ,Ward 10, Badi Semariya ,Rewa M.P. 486445
274	3132/2014	Dr. Anamika Vishwakarma	House No. 8/147, Anand Nagar, Vill. Boda Bagh, ,Distt. Rewa M.P. 486 001
275	3133/2014	Dr. Bhavna Kushwaha	House No. 34/7, Behind Kishore Temple, ,Panna M.P. 488001
276	3134/2014	Dr Priya Singh	Infront Of Pateriya House , Gali No. 4, Dhavari , Distt. Satna M.P. 485001
277	3135/2014	Dr. Deepak Waskle	Vill. Birla , Post Dasnaval, Tehsil Seagaon , Distt. Khargone M.P. 451442
278	3136/2014	Dr. Rakesh Awase	77 Ghatti, Tehsil Thikri , Distt. Barwani M.P. 451660
279	3137/2014	Dr Kanti Raje	Khajuha Kala , Distt. Rewa, M.P. 486001
280	3138/2014	Dr. Rakesh Kumar Wareshwa	Vill. Manjitola Post Mukki , ,Tehsil Baihar, ,Distt. Balaghat M.P. 481111
281	3139/2014	Dr. Shailendra Kumar Thakur	Infront of Sachchidanand Aashram, ,Vill. Nakakhua, ,Distt. Narsinghpur M.P. 487001
282	3140/2014	Dr. Pawan Kumar Kavreti	Vill. Jamunjhiri Post Khajri , Distt. Chhindwara M.P. 480001
283	3141/2014	Dr. Priyanka Shakya	Near Ganesh Temple, Begumganj, ,Distt. Raisen M.P. 464881
284	3142/2014	Dr. Pragya Yadav	102 Tej Samir Apartments, ,161 Race Course Road,, Indore M.P. 452001
285	3143/2014	Dr. Anil Kumar Yadav	Malgodam Road, Ganeshpura High School No. 1 , ,Near Maidan, ,Morena M.P. 476001
286	3144/2014	Dr. Ashwini Upadhyay	Ward 12 Purana Bazaar, ,Bhitarwar Gwalior M.P.475220
287	3145/2014	Dr Sangeeta Kulthiya	132 KV MPEB Grid Colony, ,Rajgarh,,Distt. Dhar M.P. 454116
288	3146/2014	Dr. Ranjana Bharti	House No.41 Ward No.05, ,In Front Of Dr. Sahu Clinic, ,Barela Distt. Jabalpur M.P. 483001
289	3147/2014	Dr Yogendra Singh	City Homes Apartment ,898 Patel Nagar City Centre,,Gwalior M.P. 474011
290	3148/2014	Dr. Rahul Niranjan	Near Mauni Baba Temple, Naugaon ,Distt. Chhatarpur M.P. 471201
291	3149/2014	Dr. Garvita Roonwal	13 Krishi Vihar Colony , Rasalpura Mhow ,Distt. Indore M.P. 453446
292	3150/2014	Dr. Ajit Singh Yadav	C/o Bhagchand Yadav, ,Next To Bhoj Bhawan , ,M.S. Road, Morena M.P. 476 001
293	3151/2014	Dr. Vinay Kumar Indouria	Vill. Lakhanpura ,Distt. Bhand M.P. 477 001
294	3152/2014	Dr. Sumit Singh Tomar	705, Rasulabad, Hazira, ,Gwalior M.P. 474003
295	3153/2014	Dr. Garima Shukla	L-100/9 A, Saket Naga, ,Bhopal M.P. 462 024
296	3155/2014	Dr. Saurabh Kumar Rajvaidya	329, Shiv Mahima Bhawan, ,M D Jain Colony, Sanawad,,Distt. Khargone M.P. 451111
297	3156/2014	Dr. Nishant Saxena	39, Paul Road, Narsingharh ,Distt. Rajgarh M.P. 465 669
298	3157/2014	Dr. Ritu Kothe	259, Bajrang Nagar, ,Sanawad Road, Jaitpur, ,Khargone M.P. 451 001
299	3158/2014	Dr. Manish Chourasiya	GM 279, Deen Dayal Nagar, ,Gwalior, M.P. 474 020
300	3295/2016	Dr. Ashok Kumar	472/500, Vill. & Post Jerath,,Teh. Patharia, Distt. Damoh M.P. 470666
301	3297/2016	Dr. Arun Kumar Shukla	Behind Patel Hostel, Nirala Nagar,,Rewa M.P. 486002
302	3313/2016	Dr. Upendra Mishra	Vill. Akauri ,Distt. Rewa M.P. 486001
303	3449/2017	Dr. Pooja Tamboli	Maa Sharda Electricals, Sharda Nagar, ,Rewa M.P. 486001
304	3589/2017	Dr. Rajeev Kumar	Vill. & Post Amarpur ,Distt. Dindori M.P. 481880

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-102अ-82-2017-18-4939.-

सागर, दिनांक 6 जून 2019

कड़ान मध्यम परियोजनांतर्गत मौजा बेरखेरी सुवंश, बेरखेरी खुर्द, खानपुर पटवारी हल्का नंबर-48 तहसील व जिला सागर स्थित भूमि पर प्रभावित मकान इत्यादि स्थावर परिसंपत्तियों के अर्जन किये जाने हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 24/4/2018 को जारी की गई थी जिसकी दिनांक 23/4/2019 को बारह मास की अवधि पूर्ण हो चुकी है। अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत जहां उपधारा (1) के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है परंतु समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी, यदि उसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जो उसे न्यायोचित ठहराती हैं। इस प्रकरण में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण बारह मास की अवधि के भीतर धारा 19(1) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन तथा घोषणा और सार का प्रकाशन नहीं किया जा सका है जो धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि बढ़ाये जाने हेतु न्यायोचित कारण है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

क्र.-23-A-82-19-20.-

सागर, दिनांक 22 जुलाई 2019

मौजा दलपतपुर प. ह. न.-14 तहसील केसली

::सार्वजनिक सूचना::

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की दलपतपुर जलाशय परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण से लगभग 335 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

(1) परियोजना का नाम	: दलपतपुर जलाशय परियोजना
(2) भूमि का विवरण	:
1. जिला	: सागर
2. तहसील	: केसली
3. ग्राम	: दलपतपुर
4. पट.ह.न.-	: 14
5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल	: 18.81 है०

:: अनुसूची-1 ::

स० क्र०	भूमि स्वामी का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं०	कुल रकवा हेक्टेयर	अर्जित किया जाने वाला रकवा (हे०)	अन्य विवरण
1	कुददा देवी पिता आलम हरिजन	भूमिस्वामी	88	1.250	1.250	
2	सुखराम मिठू पिता शेवदीन बहादुर पूरन पिता शेवदीन फूलरानी वेवा शेवदीन	भूमिस्वामी	89	1.000	1.000	
3	नत्थू रमकल जमना काशीबाई पिता परसा	भूमिस्वामी	90	1.000	1.0000	
4	हल्का कन्ना पिता चेतू हरिजन पता सा. नाहरमउ	भूमिस्वामी	91	1.500	1.5000	
5	सुन्दर पिता छोटेलाल कौशबाई जोजे सुन्दर	भूमिस्वामी	85/2	0.700	0.2000	
6	बालमुकुन्द पिता हरिराम नोखेलाल वीरेन्द लक्ष्मीकान्त रश्मि ना. वा. पिता वली बालमुकुन्द	भूमिस्वामी	85/3	0.600	0.2000	

7	टीकाराम रामसींग दशरथ मोहन सुशीला ममता ना.वा. वल्द पिता रामदयाल वली मां खुद शारदाबाई वेवा रामदयाल	भूमिस्वामी	85/5	0.700	0.3000	
8	पूरन पिता शिवचरन	भूमिस्वामी	85/6	0.700	0.5000	
9	द्वारका पिता बलवंत फूलरानी जोजे द्वारका	भूमिस्वामी	85/7	0.700	0.5000	
10	कन्छेदी पिता हजारी वती जोजे कन्छेदी	भूमिस्वामी	85/8	0.700	0.6000	
11	गुवन्दी पिता टन्डू कुसुमरानी जोजे गुवन्दी	भूमिस्वामी	85/9	0.600	0.5000	
12	राधे पिता टन्डू सीतारानी जोजे	भूमिस्वामी	85/10	0.600	0.4000	
13	टीकाराम पिता गोमत सरोजरानी जोजे टीकाराम	भूमिस्वामी	85/11	0.600	0.5000	
14	शिवदयाल पिता गोमत राधाबाई जोजे शिवदयाल	भूमिस्वामी	85/12	0.600	0.4000	
15	लछमन पिता गनेश	भूमिस्वामी	77	1.820	1.2000	

16	कच्छेदी मुन्ना केवल पिता घन्से नन्नीबाई वेवा घन्से हरिनारायण सुनीता विनीता पारवती किरण रजनी पिता गनू संतोषरानी वेवा गनू	भूमिस्वामी	73	1.000	0.8000
17	रामकुमार महेश कुमार पिता विन्द्रावन	भूमिस्वामी	75	1.500	1.5000
18	केवल पिता घन्घे रामरानी जोजे केवल	भूमिस्वामी	72	1.000	1.0000
19	कुवरसींग पिता पदमसींग	भूमिस्वामी	71/1	1.000	1.0000
20	शिवरानी पति विन्द्रावन	भूमिस्वामी	70	1.140	1.1400
21	पदमसींग पिता गनेश	भूमिस्वामी	69	1.010	1.0100
22	अमरसींग पिता दरयाव सवितारानी जोजे अमरसींग	भूमिस्वामी	80	0.880	0.8800
	स्पिल चैनल				
23	गोदई खिलान परसादी पिता फागू	भूमिस्वामी	96	2.000	0.5000
24	हरीसींग पिता परमलाल काशीबाई जोजे हरीसींग	भूमिस्वामी	112/2	0.500	0.2500
25	परमसुनी जोजे जोराबल	भूमिस्वामी	112/2	0.500	0.2500
26	दुलारी पति प्रेमसींग	भूमिस्वामी	113	0.990	0.4300
	योग:-		26	24.590	18.810

राज्य सरकार, अधिसूचना क्रमांक - एफ 16-15 (7) सात-शा,2ए भोपाल, दिनांक 29/04/2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिये प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार, अधिसूचना क्रमांक - एफ 16-15 (7) सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/04/2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा, अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला-सागर के कार्यालय में किया जा सकेगा है।

क्र.-23-A-82-19-20.-

::सार्वजनिक सूचना::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को दलपतपुर जलाशय परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण से लगभग 335 है भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

(1) परियोजना का नाम	: दलपतपुर जलाशय परियोजना
(2) भूमि का विवरण	
1. जिला	: सागर
2. तहसील	: केसली
3. ग्राम	: बरकोटी खुर्द
4. पट.ह.न.-	: 14
5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल	: 4.52 हे०

:: अनुसूची-1 ::

सं क्र०	भूमि स्वामी का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं०	कुल रकवा हेक्टेयर	अर्जित किया जाने वाला रकवा (हे०)	अन्य विवरण
1	प्रदीप प्रमोद सतीष मुकेश राकेश पिता नेमीचंद	भूमिस्वामी	386/4	0.130	0.130	
2	प्रदीप प्रमोद सतीष मुकेश राकेश पिता नेमीचंद	भूमिस्वामी	386/5	2.030	2.030	
3	नेमीचंद पिता कच्छेदीलाल	भूमिस्वामी	386/7	1.000	0.5600	
4	प्रदीपकुमार प्रमोदकुमार सतीषकुमार मुकेशकुमार राकेशकुमार पिता नेमीचंद	भूमिस्वामी	386/13	0.800	0.8000	
5	प्रदीपकुमार प्रमोदकुमार सतीषकुमार मुकेशकुमार राकेशकुमार पिता नेमीचंद	भूमिस्वामी	386/17	1.200	1.0000	
	योग:-		5	5.160	4.520	

राज्य सरकार, अधिसूचना क्रमांक - एफ 16-15 (7) सात-शा.2ए भोपाल, दिनांक 29/04/2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिये प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार, अधिसूचना क्रमांक - एफ 16-15 (7) सात-शा.2ए भोपाल, दिनांक 29/04/2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा, अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी वित्त्वंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला-सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-भू-अर्जन-19-प्र.क्र.-07-अ-82-2018-19-

रतलाम, दिनांक 25 जुलाई 2019

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "डुमाला तालाब योजना" तहसील व जिला रतलाम के निर्माण हेतु ग्राम छत्री के खातेदार की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 112-2/2014/सात/2 ए/भोपाल दिनांक 12/11/2014 के तहत आपसी सहमति से कय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

क्रं.	कृषकगण का नाम व पिता का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसम्पत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
1	श्री नानालाल पिता चुन्नीलाल, जाति-भील, भूमि स्वामी- छत्री तह. व जिला- रतलाम।	205/2 में से	0.110	-	0.110	-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रुचिका चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र.क्र.-8610-अ-2017-18.-

धार, दिनांक 26 अगस्त 2019

:प्रारंभिक अधिसूचना:

(अन्तर्गत धारा -11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 01 में बलकुण्डा सिंचाई योजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम सुनेड़ी तहसील सरदारपुर जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम- सुनेड़ी

तहसील- सरदारपुर जिला धार

क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1.	बलकुण्डा सिंचाई योजना के निर्माण में प्रभावित होने से	0.000	1.076	1.076
	योग	0.000	1.076	1.076

अनुसूची (2)

बलकुण्डा सिंचाई योजना अन्तर्गत ग्राम सुनेड़ी तहसील सरदारपुर जिला धार की प्रभावित भूमि का विवरण

क.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	गंगाबाई, गेंदीबाई, पिता मेहजी जाति भील निवासी ग्राम सुनेड़ी	223	0.000	3.699	3.699	0.000	0.365	0.365
2	कालीया पिता नरसिंह जाति भील निवासी ग्राम भाटीखोदरा	226	0.000	0.136	0.136	0.000	0.136	0.136
3	नंदराम पिता रणजीत भील निवासी ग्राम सुनेड़ी	229	0.000	0.575	0.575	0.000	0.575	0.575
	योग:-		0.000	4.410	4.410	0.000	1.076	1.076

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकान्त बनोट, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पत्र क्र.-3364-65-भू-अर्जन-2019.-

राजगढ़, दिनांक 4 सितम्बर 2019

प्रारंभिक अधिसूचना

(अंतर्गत धारा - 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में उचावदा बैराज तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)				
उचावदा बैराज		तहसील - जीरापुर		
क्र	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (है. मे)		
	निजी भूमि उचावदा बैराज के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से			
1	ग्राम उचावदा की भूमि	0.597		
	योग	0.597		
अनुसूची (2)				
क्र	कृषक का नाम मय पिता/पति का नाम एवं जाति	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	हीरालाल, देवीलाल, पिता किशनलाल जाति सौध्या पता.नि. ग्राम	124	3.149	0.597
	कुल योग -		3.149	0.597

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र.-3359-60-भू-अर्जन-2019.-

राजगढ़, दिनांक 6 सितम्बर 2019

अधिसूचना

(अंतर्गत धारा-19 भूमि भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013))

चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डालिया बृहद परियोजना तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ की ग्राम कडलावद के लिये डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता हैं

ग्राम - कडलावद		तहसील - सारंगपुर	जिला राजगढ़
क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर	
		कुल रकबा है.	पूरक प्रकरण में अर्जित रकबा है.
1	निजी भूमि 1. कुण्डालिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	40.754	14.752
	योग	40.754	14.752

अनुसूची (2)

(1) कुण्डालिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नं.	भूमि का कुल रकबा है.	पुर्व में भूमि का अर्जित रकबा है.	पूरक प्रकरण में भूमि का अर्जित रकबा है.	कुल अर्जित रकबा है.
1	2	3				
1	कृष्णपालसिंह आ गंगाधर जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	464/1/2	0.632	0.500	0.070	0.570
		677	0.202	0.000	0.202	0.202
	योग		0.834	0.500	0.272	0.772
2	संतोष सिंह पिता प्रभुनाथसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	272/1	0.154	0.046	0.010	0.056
		272/2	0.076	0.023	0.010	0.033
		272/3	0.468	0.141	0.010	0.151
	योग		0.698	0.210	0.030	0.240
3	श्री राम मंदिर श्री नरसिंह मंदिर पु. भरतदास गुरु महंत व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय जिला राजगढ़	51	1.644	0.000	0.070	0.070
		93	0.772	0.310	0.110	0.420
		103	1.830	1.420	0.290	1.710
		106	2.469	0.000	0.100	0.100
		120/1	0.114	0.080	0.010	0.090
		105	1.354	0.934	0.040	0.974
	योग		8.183	2.744	0.620	3.364
4	सिद्धनाथ एलकारसिंह पिता नंद सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	95/4/1	0.221	0.101	0.120	0.221

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नं.	भूमि का कुल रकबा है.	पुर्व में भूमि का अर्जित रकबा है.	पूरक प्रकरण में भूमि का अर्जित रकबा है.	कुल अर्जित रकबा है.
1	2	3				
	योग		0.221	0.101	0.120	0.221
5	बालूसिंह पिता गेन्दसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	95/4/2	0.347	0.327	0.020	0.347
		173/2	0.108	0.000	0.108	0.108
		174	0.025	0.000	0.025	0.025
	योग		0.480	0.327	0.153	0.480
6	मनोहरसिंह पिता दुर्जनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	687/1	0.466	0.200	0.266	0.466
	योग		0.466	0.200	0.266	0.466
7	ईश्वरसिंह पिता प्रहलाद सिंह लाड़कुंवरबाई बेवा प्रहलाद सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	270/1	0.810	0.610	0.200	0.810
	योग		0.810	0.610	0.200	0.810
8	जगदीश पिता शंकरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	397/1	0.229	0.091	0.138	0.229
		397/2	0.152	0.060	0.092	0.152
		397/3	0.467	0.198	0.269	0.467
		397/4	0.202	0.080	0.122	0.202
	योग		1.050	0.429	0.621	1.050
9	करणसिंह पिता शंकरलाल जाति गुर्जर निवासी तीतरी	397/5	0.354	0.147	0.207	0.354
		397/6	0.152	0.060	0.092	0.152
		397/7	0.089	0.035	0.014	0.049
	योग		0.595	0.242	0.313	0.555
10	श्यामसुन्दर पिता बाबुलाल जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	398	1.366	0.014	1.300	1.314
	योग		1.366	0.014	1.300	1.314
11	मनोहरलाल पिता मांगीलाल जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	352/2	0.464	0.200	0.070	0.270
	योग		0.464	0.200	0.070	0.270
12	गंगाराम पिता मांगीलाल, प्रभूलाल, भगवानसिंह, जमनाप्रसाद, सागरप्रसाद, कमलसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	391/5	0.339	0.000	0.339	0.339
		392/7/5	0.106	0.000	0.106	0.106
	योग		0.445	0.000	0.445	0.445
13	समन्दरसिंह पिता प्रतापसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तीतरी भूमि स्वामी	395/3/2	0.758	0.698	0.060	0.758
	योग		0.758	0.698	0.060	0.758
14	देवसिंह, शैतानबाई, सौरमबाई, नर्मदाबाई पिता समन्दर सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम तीतरी	400/28	3.794	0.740	0.220	0.960
	योग		3.794	0.740	0.220	0.960
15	देवसिंह पिता मांगू जाति गुर्जर निवासी ग्राम तीतरी भूमि स्वामी	400/29	1.012	0.500	0.512	1.012
	योग		1.012	0.500	0.512	1.012

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नं.	भूमि का कुल रकबा हे.	पुर्व मे भूमि का अर्जित रकबा हे.	पूरक प्रकरण मे भूमि का अर्जित रकबा हे.	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3				
16	शिवसिंह पिता सजनसिंह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	456/16	0.443	0.000	0.443	0.443
	योग		0.443	0.000	0.443	0.443
17	सौरम कुंवर बेवा मनोहरसिंह, कृष्णाकुंवर, प्रकाशकुंवर, गोविन्दकुंवर, मांगूसिंह दीपसिंह पिता मनोहरसिंह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	559/2	0.126	0.000	0.126	0.126
	योग		0.126	0.000	0.126	0.126
18	महेन्द्रसिंह पिता रणजीतसिंह नि. आमगढ़ा व भगवानसिंह पिता हनुमतसिंह नि. कलमंडीखुर्द झालावाड़ जाति राजपुत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	563/2	0.253	0.120	0.133	0.253
	योग		0.253	0.120	0.133	0.253
19	देवीसिंह पिता लालसिंह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	591/1/2	0.594	0.000	0.070	0.070
			0.594	0.000	0.070	0.070
20	उमरावसिंह पिता उदय सिंह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम उज्जैन भूमि स्वामी	591/2/2	0.506	0.020	0.446	0.466
	योग		0.506	0.020	0.446	0.466
21	रमेश कालू पिता लक्ष्मण जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	670	0.228	0.200	0.028	0.228
	योग		0.228	0.200	0.028	0.228
22	भेरूलाल लालसिंह बाबूलाल उदयसिंह पिता देवा जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	671/1	0.335	0.325	0.010	0.335
	योग		0.335	0.325	0.010	0.335
23	लीलाबाई, सौरमबाई, शांताबाई पिता सेवा जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	671/2	0.335	0.325	0.010	0.335
		701/2	0.014	0.000	0.014	0.014
	योग		0.349	0.325	0.024	0.349
24	रतन भेरू संतोष पिता नारायण जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	726/4	0.044	0.011	0.011	0.022
	योग		0.044	0.011	0.011	0.022
25	मोहनलाल पिता रामलाल जाति कलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	786/2	0.272	0.200	0.062	0.262
	योग		0.272	0.200	0.062	0.262
26	भंवरलाल पिता गोवर्धनसिंह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	925/1/2	0.974	0.040	0.060	0.100
	योग		0.974	0.040	0.060	0.100
27	सत्यनारायण पिता जगदीश जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	880	0.240	0.220	0.015	0.235
	योग		0.240	0.220	0.015	0.235
28	महेन्द्रसिंह पिता भगवानसिंह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	202/1/3	0.127	0.117	0.010	0.127
	योग		0.127	0.117	0.010	0.127

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नं.	भूमि का कुल रकबा हे.	पुर्व भे भूमि का अर्जित रकबा हे.	पूरक प्रकरण मे भूमि का अर्जित रकबा हे.	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3				
29	हरिसिंह विक्रमसिंह पिता पदमसिंह गुलाब बाई बैवा पदमसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	269/1	0.493	0.000	0.493	0.493
	योग		0.493	0.000	0.493	0.493
30	मांगीलाल पिता दरियावसिंह जाति लोहार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	279/1	0.306	0.000	0.306	0.306
	योग		0.306	0.000	0.306	0.306
31	बापूलाल पिता दरियावसिंह जाति लोहार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	242/2	0.131	0.000	0.131	0.131
		279/2	0.354	0.000	0.354	0.354
	योग		0.485	0	0.485	0.485
32	भगवानसिंह पिता बापूलाल जाति कलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8/2	0.367	0.000	0.367	0.367
	योग		0.367	0.000	0.367	0.367
33	जगन्नाथ पिता मोती जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	395/6	2.529	0.000	0.640	0.640
	योग		2.529	0.000	0.640	0.640
34	नन्दकिशोर पिता मांगीलाल जाति कुल्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	356	0.999	0.000	0.060	0.060
	योग		0.999	0.000	0.060	0.060
35	मनोहर पिता धुला ना.बा. सरपस्त धुला निवासी ग्राम बिरछाखेडी भूमि स्वामी	456/1	0.114	0.000	0.114	0.114
		456/2	0.089	0.000	0.089	0.089
	योग		0.203	0.000	0.203	0.203
36	अमरा पिता बापूलाल जाति गुर्जर नि0ग्राम तीतरी भूमि स्वामी	400/27	5.072	0.000	1.000	1.000
	योग		5.072	0.000	1.000	1.000
37	राधेश्याम पिता भेरु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	308/2/2/1	0.140	0.000	0.125	0.125
	योग		0.140	0.000	0.125	0.125
38	भेरूलाल पिता रामलाल जाति कलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	857/1	0.193	0.000	0.133	0.133
	योग		0.193	0.000	0.133	0.133
39	रामसिंह पिता शकरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	389/1/2	0.759	0.000	0.759	0.759
	योग		0.759	0.000	0.759	0.759
40	कमलसिंह पिता दुलेसिंह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	95/2/1	0.632	0.000	0.632	0.632
	योग		0.632	0.000	0.632	0.632
41	भगवतसिंह पिता दुलेसिंह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	95/2/2	0.633	0.000	0.633	0.633

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नं.	भूमि का कुल रकबा है.	पुर्व में भूमि का अर्जित रकबा है.	पूरक प्रकरण में भूमि का अर्जित रकबा है.	कुल अर्जित रकबा है.
1	2	3				
	योग		0.633	0.000	0.633	0.633
42	लाडकुंवर बाई पति माखनलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	793/2/1	0.399	0.000	0.399	0.399
	योग		0.399	0.000	0.399	0.399
43	मनोजकुमार पिता भैरूलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	793/2/2	0.398	0.000	0.398	0.398
	योग		0.398	0.000	0.398	0.398
44	गंगराम पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	315/1/1	0.190	0.000	0.190	0.190
	योग		0.190	0.000	0.190	0.190
45	प्रभुलाल पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	315/1/2	0.190	0.000	0.190	0.190
	योग		0.190	0.000	0.190	0.190
46	भगवानसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	315/1/3	0.190	0.000	0.190	0.190
	योग		0.190	0.000	0.190	0.190
47	जमना प्रसाद पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	315/1/4	0.189	0.000	0.189	0.189
	योग		0.189	0.000	0.189	0.189
48	सागर पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	315/1/5	0.189	0.000	0.189	0.189
	योग		0.189	0.000	0.189	0.189
49	कमल पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	315/1/6	0.189	0.000	0.189	0.189
	योग		0.189	0.000	0.189	0.189
50	श्री राम मंदिर पुजारी गोरवधनलाल पिता देवीलाल व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय जिला राजगढ़	768	0.342	0.000	0.342	0.342
	योग		0.342	0.000	0.342	0.342
महायोग :-			40.754	9.093	14.752	23.845

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी सारंगपुर कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि निवेदिता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-4094-भू-अर्जन-2019.-

उज्जैन, दिनांक 7 सितम्बर 2019

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इंदौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट के अंतर्गत ग्राम कड़छा तहसील व जिला उज्जैन के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इंदौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क.30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्नवर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम-कड़छा

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
	सिंचित	असिंचित	कुल
इंदौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट के अंतर्गत	0.340	—	0.340
योग	0.340	—	0.340

अनुसूची (2)

इंदौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट के अंतर्गत ग्राम कड़छा की प्रभावित भूमि का विवरण :-

ग्राम- कड़छा

तहसील व जिला उज्जैन

क्र०	भूमि स्वामी का नाम	सर्वे नं०	कुल रकबा	अधिग्रहित रकबा		कुल अधिग्रहित	परिसम्पत्ति
				सिंचित रकबा	असिंचित रकबा		
1	भैरूसिंह पिता लक्ष्मण जाट नि० दुधिया तह० इंदौर	387, 386/1	0.29	0.05	—	0.05	—
2	जगदीश, कनीराम पिता परबत, मीराबाई पति परबत नि० चैनपुर-हंसखेड़ी	386/2	0.23	0.05	—	0.05	—
3	सुंदरलाल पिता राधाकिशन जाट नि० चैनपुर हंसखेड़ी	385, 383, 382	1.55	0.10	—	0.10	—

4	विनोद पिता मोहनलाल चौधरी नि० चैनपुर हंसखेड़ी	377/1/1	0.40	0.02	—	0.02	—
5	चंद्रकरण पिता सरवन जाट	377/1/2	0.38	0.02	—	0.02	—
6	देवनारायण पिता सरवन जाट	377/2, 376	1.87	0.05	—	0.05	—
7	अमरसिंह पिता बापुसिंह, धुलीबाई, लीलाबाई पति बापुसिंह राजपूत, नि० ग्राम	343	1.58	0.02	—	0.02	—
8	रेखा पिता मोहनलाल नि० ग्राम मुंजाखेड़ी	338/3	0.36	0.03	—	0.03	—
	योग			0.34	—	0.34	—

क्र.-4095-भू-अर्जन-2019.-

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इंदौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट के अंतर्गत ग्राम नौगांवा तहसील व जिला उज्जैन के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इंदौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क.30 सन्2013) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्नवर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम-नौगांवा

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
	सिंचित	असिंचित	कुल
इंदौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट के अंतर्गत	0.02	—	0.02
योग	0.02	—	0.02

अनुसूची (2)

इंदौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट के अंतर्गत ग्राम नौगांवा की प्रभावित भूमि का विवरण :-

ग्राम- नौगांवा

तहसील व जिला उज्जैन

क्र०	भूमि स्वामी का नाम	सर्वे नं०	कुल रकबा	अधिग्रहित रकबा		कुल अधिग्रहित	परिसम्पत्ति
				सिंचित रकबा	असिंचित रकबा		
1	रमजु पिता रहमत अली	541/1/2	2.88	0.02	—	0.02	कुआं कच्चा
	योग			0.02		0.02	

क्र.-4096-भू-अर्जन-2019.-

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इंदौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट के अंतर्गत ग्राम चैनपुर हंसखेड़ी तहसील व जिला उज्जैन के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इंदौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.30 सन्2013) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्नवर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम-चैनपुर हंसखेड़ी

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
	सिंचित	असिंचित	कुल
इंदौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट के अंतर्गत	0.510	-	0.510
योग	0.510	-	0.510

अनुसूची (2)

इंदौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट के अंतर्गत ग्राम चैनपुर हंसखेड़ी की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम- चैनपुर हंसखेड़ी

तहसील व जिला उज्जैन

क्र०	भूमि स्वामी का नाम	सर्वे नं०	कुल रकबा	अधिग्रहित रकबा		कुल अधिग्रहित	परिसम्पत्ति
				सिंचित रकबा	असिंचित रकबा		
1	सोरमबाई पति बालाराम जाट	28	2.18	0.03	-	0.03	-
2	कृष्णपालसिंह, विरेन्द्रसिंह पिता इन्दरसिंह जाट	50	6.37	0.12	-	0.12	वृक्ष सागौन -1
3	धिसुसिंह पिता मांगीलाल जाट	59/6 59/7	1.52	0.09	-	0.09	वृक्ष जामुन-1, नीम-2
4	ईश्वरलाल, हीरालाल, शिवनारायण पिता जगन्नाथ, भागवतीबाई, मीसरबाई, सुमद्राबाई, सुशीलाबाई पिता जगन्नाथ	61	1.85	0.08	-	0.08	कवित-1
5	शमीना बी पति शेर मो०	79/1/2	0.50	0.04	-	0.04	-
6	रामचंद्र पिता प्रहलाद	79/2	0.70	0.03	-	0.03	-
7	बालकृष्ण पिता मांगीलाल जाट	80	2.20	0.08	-	0.08	नलकुप -1
9	रेहना बी पति फारुख पटेल नि० नरवर	85, 86	5.54	0.04	-	0.04	-
	योग			0.51	-	0.51	-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

प्र.क्र.-01-अ-82-19-20.-

कटनी, दिनांक 11 सितम्बर 2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि के अनुसूची के खाते (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाते (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

चूँकि भारत सरकार रेल मंत्रालय से स्वीकृत जिला कटनी में ग्रेड सेपरेटर लाईन बायपास का निर्माण वृहद पुल तथा उसके उपर रेल यातायात व्यवस्था संबंधी कार्य कराया जाना है, जो कि देश प्रदेश हित, जन विकास की सार्वजनिक प्रयोजन संबंधी कार्य योजना है जिसमें भू-अर्जन कार्यवाही समय सीमा में वांछित है। म0प्र0शासन राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्र0 एफ-16-15-(1)-2014-सात-शा. 2ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 में दी गई अधिकारिक क्षमता व भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2014 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में कलेक्टर कटनी प्राधिकृत समुचित सरकार द्वारा प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III की कार्यवाही से विमुक्त किया गया है। द्वितीय अध्यादेश दिनांक 03.04.2015 में प्रावधानिकता अनुसार प्रस्तावित रकवा निर्माण योजना आवश्यकता के अनुरूप है। इस हेतु धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

अनुसूची-ब

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा हे0		
कटनी	कटनी	हिरवारा प.ह.नं. 32	0.820	मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेल जबलपुर	कटनी ग्रेड सेपरेटर बायपास लाईन के निर्माण हेतु
		पडरिया प.ह.नं. 31	2.020		
		झलवारा प.ह.नं. 30	0.820		
		कैलवाराखुर्द प.ह.नं. 21	0.100		
		मुडवारा प.ह.नं. 42	0.022		

2. प्रस्तावित अर्जन क्षेत्र में कोई धार्मिक संस्थान, स्मारक, मजार, मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान आदि प्रभावित नहीं होते, जिससे जनसंताप हो।
3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कटनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशिमूषण सिंह, कलेक्टर एवं पदेन समुचित सरकार.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

रा.प्र.क्र.-02-अ-82-2017-18-भू-अर्जन-

छिन्दवाड़ा, दिनांक 07 सितम्बर 2019

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति"(Consent Land Purchase Policy) के तहत गणेशगंज-खापासामी मार्ग में दुधी नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में गणेशगंज-खापासामी मार्ग में दुधी नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-:अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6	7
छिन्दवाड़ा	तामिया	ग्राम- केवलारी, प0ह0न0-09 ब0न0-20, रा0नि0म0- देलाखारी	1. कंछेदी पि0 बुद्ध, गौराबाई स्व0 प0 छोटेला मनोज, आशा, गीता, सुमन पिता छोटेला, कुरसी पिता हल्ली, मदन, लखन पिता प्रहलाद, रामजी पिता जयपाल,	2	0.189	गणेशगंज-खापासामी मार्ग में दुधी नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये।

			लखन, चन्द्रभान पिता गुलाब, ओमप्रकाश, मानसिंग, नारायण, प्रेमवती पिता मिरधू फुलियाबाई स्व०प० कल्लू भूरेसी पि० कल्लू निवासी ग्राम भूमि स्वामी-केवलारी			
		कुल योग		1	0.189 हेक्टेयर	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है ।

रा.प्र.क्र.-8-अ-82-2019-20-भू-अर्जन-

छिन्दवाड़ा, दिनांक 13 सितम्बर 2019

म०प्र० शासन. राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति"(Consent Land Purchase Policy) के तहत लोधीखेडा-खमारपानी मार्ग के 4/6 कि०मी० मार्ग हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म०प्र० शासन लोक निर्माण विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है ।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में लोधीखेडा-खमारपानी मार्ग के 4/6 कि०मी० मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-:अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है ।
1	2	3	4	5	6	7
छिन्दवाड़ा	सौसर	ग्राम- रझाडी बोरगांव प0ह0न0-43 ब0न0-338, रा0नि0म0- लोधीखेडा	1. पुष्पाबाई पति भोजराज, दीपक, शुभम पिता भोजराज जाति कलार निवासी ग्राम भूमि स्वामी-लोधीखेडा	55/5	0.360	लोधीखेडा- खमारपानी मार्ग के 4/6 कि०मी० मार्ग हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये।
		कुल योग		1	0.360 हेक्टेयर	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है ।

रा.प्र.क्र.-13-अ-82-2018-19-भू-अर्जन.-

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति"(Consent Land Purchase Policy) के तहत पनारा मढई टोला कोकरीढाना मार्ग लंबाई 02.00कि०मी० हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है ।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पनारा मढई टोला कोकरीढाना मार्ग लंबाई 02.00कि०मी० निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-:अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है ।
1	2	3	4	5	6	7
छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव	ग्राम- ढोडासेमर, प0ह0न0-19/81 ब0न0-284, रा0नि0म0- नवेगांव	1. सुखदेव पुत्र अंजुलाल, गुजरी, भूजल समलवती, निर्मला पुत्रियां अंजुलाल जाति कतिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी-ढोडासेमर	60/2	0.062	पनारा मढई टोला कोकरीढाना मार्ग लंबाई 02. 00कि0मी0 हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये।

			2. रूखवती, भागवती, जगवती पुत्रियां सम्मर, रेमती विधवा सम्मर जाति कतिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी-ढोडासेमर	60/4	0.065	
			3. रूखवती, भागवती पुत्रियां सम्मर जाति कतिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी-ढोडासेमर	60/6	0.114	

		4.कमला बाई बेवा धना,पूरन,गोदीलाल, बिदीलाल,भागलाल, धरमू,हेमन्त पुत्रगण धना,इशियाबाई, झिपियाबाई,डारोबाई, गीताबाई,ज्ञानवती बाई पुत्रियां धना जाति कतिया निवासीग्राम भूमि स्वामी-ढोडासेमर	17/6	0.010
		5.सुखदेव पुत्र अंजुलाल,गुजरी,भूजल समलवती,निर्मला पुत्रियां अंजुलाल, सकरू पुत्र बुद्ध, कारी पुत्री बुद्ध, ओझे बेवा बुद्ध, हरिदास फुलराव,श्यामराव,राम	17/7	0.060

		राव पुत्रगण बिहारी,सीताबाई बेवा बिहारी जाति कतिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी-ढोडासेमर		
--	--	---	--	--

			6. सोनेलाल, सोनसिंग, झामसिंग, रामसिंग पुत्रगण ओझा, प्रेमवती पुत्री ओझा, मोहन पुत्र भोन्दु, किड्डो, गिल्ली पुत्रियां भोन्दु, किसनलाल, किसनु, सुबेलाल पुत्रगण सुककन, कमलिया, समलो, मंगली, मंगलवती, गुडडी पुत्रिया सुककन, जगियाबाई बेवा झुनकु, संतलाल, मंसु, हंस, सुरेसिंग, नेहरू पुत्रगण झुनकु, खुन्नी पुत्री झुनकु, जीवनलाल, जीवनसा, चंदन पुत्रगण भीलू, बलीराम, कलीराम, सा लकराम, मिलकराम पुत्रगण झनक, रासवती पुत्री झनक, बिसनलाल पुत्र जिरेसा गोंड, निवासी ग्राम भूमि स्वामी-ढोडासेमर	65	0.287
--	--	--	---	----	-------

		कुल योग	6	0.598 हेक्टेयर
--	--	---------	---	-------------------

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डॉ. श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपरसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

प्र.क्र.-01-अ-82-भू-अर्जन-2019-20-10975-

मुरैना, दिनांक 12 सितम्बर 2019

प्रारम्भिक अधिसूचना

[भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (उत्तर मध्य रेल मथुरा झॉसी के मध्य तीसरी रेल निर्माण) के लिये ग्राम- चुरहैला, तहसील- बानमौर, उपखण्ड- मुरैना, जिला-मुरैना में कुल रकवा 0.689 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला- मुरैना, तहसील-बानमौर के ग्राम-चुरहैला, प.ह.नं. 79 रा.नि. वृत्त-07 में उक्त परियोजना के लिये 0.689 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	508/7	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.088	प्रेमसिंह पुत्र उदयसिंह जाति गु0ठा0 पता निवासी ग्राम।
2	508/6	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.088	जयराम पुत्र रन्छोर जाति गु0ठा0 पता निवासी ग्राम।
3	508/5	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.088	बुदेश पुत्र मोहरमनि जाति गु0ठा0 निवासी ग्राम।
4	508/4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.088	कुसुमा पुत्र उदयसिंह जाति गु0ठा0 पता निवासी ग्राम।
5	508/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.088	रामेश्वर रामजीलाल रामभजन रामनारायण पुत्रगण दीनानाथ जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम।
6	508/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.088	रामेश्वर रामजीलाल रामभजन रामनारायण पुत्रगण दीनानाथ जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम।
7	508/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.088	राकेश सिंह एदल सिंह पुत्रगण कृपाशम जाति गु0ठा0 पता निवासी ग्राम।
8	507	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.060	रामेश्वर रामजीलाल रामभजन रामनारायण पुत्रगण दीनानाथ जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम।
9	505	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.013	रामेश्वर रामजीलाल रामभजन रामनारायण पुत्रगण दीनानाथ जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम।
कुल कित्ता	09			0.689	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र.क्र.-02-अ-82-भू-अर्जन-19-20-10974.-

[भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (उत्तर मध्य रेल मथुरा झॉसी के मध्य तीसरी रेल निर्माण) के लिये ग्राम- जरारा, तहसील- मुरैना, उपखण्ड- मुरैना, जिला-मुरैना में कुल किता 01 कुल अर्जित रकवा 0.010 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला- मुरैना, तहसील-मुरैना के ग्राम-जरारा, प.ह.नं 79 रानि. वृत्त- 07 में उक्त परियोजना के लिये कुल किता 01 व कुल अर्जित रकवा 0.010 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	117	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.010	मु प्रेमा बेवा रघुवीर राजेन्द्र विशंभर खिलाई परीक्षित, अशोक बंटी पुत्र रघुवीर मिथलेश शीला पुत्री रघुवीर हि. 9/10 मु0 लक्ष्मी बेवा शिवराम संदीप पुत्रगण शिवराम हि 1/10 जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूमिस्वामी
कुल किता		01		0.010	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है। सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

शेष :- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र.क्र.-03-अ-82-भू-अर्जन-19-20-10972-

{भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]}

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (उत्तर मध्य रेल मथुरा झौंसी के मध्य तीसरी रेल निर्माण) के लिये ग्राम- जडेरुआ, तहसील- बानमौर, उपखण्ड- मुरैना, जिला-मुरैना में कुल किता 06 व कुल अर्जित रकवा 1.011 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला- मुरैना, तहसील-बानमौर के ग्राम-जडेरुआ, प.ह.नं 91 रा.नि. वृत्त-07 में उक्त परियोजना के लिये कुल किता 06 व कुल अर्जित रकवा 1.011 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	1344	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.26	रामलखन, राधेश्याम, रामजवीर, रामवीर सिंह पुत्रगण लायक सिंह जाति गु0ठाC पता निवासी ग्राम
2	1345	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.262	भूपेन्द्र नाबा0 पि लज्जाराम राजाबेटी बं. लज्जाराम स0भा0 हि 1/2 माता प्रसाद पि बाबू हि 1/2 जाति गु0ठा0 पता निवासी ग्राम

3	1346	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.222	मु. रामश्री बेवा बाबूलाल पप्पन कालीचरन जीतेन्द्र पिता बाबूलाल राजाबेटी नाबा० पि० बाबूलाल समान भाग जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम
4	1347	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.145	सीताराम, उधौ, विज्जो, रामवरन, नरेश रामवीर पि. राम किशन समान भाग हि० 6/7 काशी बाई वेवा शिवसिंह कल्ली राजू रानी नेहा नाब. पि शिवसिंह सर मा खुद हि 1/7 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम। भूमिस्वामी
5	1350	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.044	बैजनाथ श्री कृष्ण पि हाकिम स०भा० हि 1/2 आदिराम पि होतमसिंह हि 1/2 जाति गु०टा० नि ग्राम भूमिस्वामी
6	1351	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.078	केदारसिंह पिता छत्रपालसिंह जाति ब्रा निवासी ग्राम भूमिस्वामी
कुल कित्ता	06			1.011	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

प्र.क्र.-17-अ-82-2018-19.-

राजगढ़, दिनांक 24 सितम्बर 2019

अनुसूची

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पार्वती सिंचाई परियोजना डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम सांका जागीर तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की निजी भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-1 की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची :- (1)

भूमि का वर्णन

(क) जिला - राजगढ़

(ख) तहसील - नरसिंहगढ़

(ग) ग्राम - सांका जागीर

(घ) क्षेत्रफल - 264.889

पार्वती सिंचाई परियोजना के एफ.टी.एल तक डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि ग्राम सांका जागीर

स.क.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
1	2	3	4
	सांका जागीर	300.606	264.889
	कुल योग :-	300.606	264.889

अनुसूची :- (2)

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि योग
1	2	3	4	5
1	रामस्वरूप पिता फतेसिंह गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी	3/4	1.227	1.070
		3/1	0.316	0.160
		62/1/1	0.047	0.047
	योग	3	1.590	1.277
2	हरी सिंह पिता मागीलाल जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/2	0.316	0.268
		3/3	0.632	0.180
	योग	2	0.948	0.448
3	सौरभ सिंह पिता मागीलाल जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/5/1	0.580	0.580
		4/1	1.122	0.302
		36/2	0.126	0.126
		37/1	0.620	0.620
		38/1	3.651	3.651

2

		38/3	1.012	1.012
		39/1	0.860	0.860
		40	0.531	0.531
		41	0.316	0.316
		42	0.493	0.493
		43	0.367	0.367
	योग	11	9.678	8.858
4	कचन सिंह पिता मागीलाल गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/3	1.123	0.920
	योग	1	1.123	0.920
5	मागीलाल पिता जगन्नाथ जाति गुजर पता निष् ग्राम फतेपुर भू मि स्वामी	5/1	1.292	1.292
	योग	1	1.292	1.292
6	प्रेमासिंह पिता भारत सिंह जाति गुजर पता निष् ग्राम भूमि स्वामी	5/2	1.296	1.296
	योग	1	1.296	1.296
7	गगाबाई बेवा चनसिंह जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7/1	3.200	3.200
	योग	1	3.200	3.200
8	सज्जन सिंह सौराम सिंह चन्द्र सिंह पिता मागीलाल जाति गूजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7/2/1	3.807	3.807
	योग	1	3.807	3.807
9	हरजान सिंह पिता मागीलाल जाति गूजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7/2/2/1	1.928	1.928
		80	1.619	0.840
		81	3.124	1.400
		137	0.177	0.177
		144	0.152	0.152
	योग	5	7.000	4.497
10	बख्तारवरीसिंह पिता मागीलाल जाति गूजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	196/1, 197/1, 199/4/1	2.407	2.407
		7/2/2/2	0.549	0.549
		136/2	0.041	0.041
		136/3	0.041	0.041
		214/1	1.000	1.000
		214/2	0.581	0.581
		219/1	0.695	0.695
		220	1.518	1.518
		221	1.644	1.644
	योग	9	8.476	8.476
11	राजेन्द्रसिंह पिता मागीलाल जाति गूजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7/2/2/3	2.624	2.624
		229/2	2.352	2.352
	योग	2	4.976	4.976
12	विजयसिंह पिता मागीलाल जाति गूजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7/2/2/4	0.562	0.562
		230/3	0.810	0.810
	योग	2	1.372	1.372
13	नरेन्द्रसिंह पिता मागीलाल जाति गूजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7/2/2/5	1.018	1.018
		152	2.618	2.618
		211	0.519	0.519
	योग	3	4.155	4.155

14	चन्द्रकलाबाई पिता मागोलाल जाति गूजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7/2/2/6	0.933	0.933
	योग	1	0.933	0.933
15	भवारेया पिता नाथू जाति भाई निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8	0.253	0.253
		145	0.152	0.152
		196/2/2/1, 197/2/2/1, 199/4/2/2/1	0.494	0.494
		208/2	0.654	0.654
	योग	4	1.553	1.553
16	पारससिंह, भजनसिंह, भोलराम, राजेन्द्रसिंह, भगवतीबाई पिता मानसिंह, गोरीबाई बेवा मानसिंह निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9/1	2.400	2.400
		107	0.240	0.240
	योग	2	2.640	2.640
17	मोर बाई पति राजेन्द्रसिंह जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9/2	0.317	0.317
		9/5/1	0.365	0.365
		25/2/2	0.242	0.242
	योग	3	0.924	0.924
18	जयकिशन पिता हरलाल जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9/3	0.372	0.372
		15/3	0.300	0.300
		153/2	0.583	0.583
		187/1	0.139	0.139
	योग	4	1.394	1.394
19	दीपासिंह पिता मोड़ासिंह जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9/4/1	0.333	0.333
		153/1/2	0.578	0.578
	योग	2	0.911	0.911
20	जालमासिंह पिता मोड़ासिंह जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9/4/2	0.333	0.333
		151/7/2	0.436	0.436
		153/1/1	0.142	0.142
	योग	3	0.911	0.911
21	प्रेमसिंहएहेमासिंहएसूरजासिंह आप्नाथूलालएरामप्यारी विं नाथूलाल जाति गूजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	10/1	1.439	1.439
		11/1	0.410	0.410
		12/1	1.124	1.124
		109/3/3	0.110	0.110
	योग	4	3.083	3.083
22	सत्यनारायण पिता मथराप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9/5/2	0.365	0.365
	योग	1	0.365	0.365
23	भलोबाई बेवा कालू भगवतसिंह पिता कालू जाति गूजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9/6	0.296	0.296
	योग	1	0.296	0.296
24	भवरी बाई बेवा गोरीलाल जाति गूजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	10/2	0.600	0.600
		109/3/2	0.109	0.109
	योग	2	0.709	0.709
25	गुडडी बाई पति प्रेम सिंह जाति गूजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	10/3	0.600	0.600
		10/4	0.600	0.600
		11/2	0.586	0.586
		11/3	0.586	0.586

		12/2	0.600	0.600
		12/3	0.600	0.600
	योग	6	3.572	3.572
26	गजराजसिंह सोनाथसिंह पिता देवीलाल जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	10/5	1.073	1.073
		11/4	0.500	0.500
		12/4	2.000	2.000
		109/1/2	0.149	0.149
		109/2/1	0.069	0.069
		171/1	0.215	0.215
		171/2/1	0.480	0.480
		172/1	0.527	0.527
			योग	8
27	बद्रीलाल पिता जगन्नाथ जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	10/6	1.000	1.000
		11/5	0.573	0.573
		26	0.101	0.101
		27	0.253	0.253
		109/1/1	0.218	0.218
	योग	5	2.145	2.145
28	सत्यनारायण पिता मथराप्रसाद जाति ब्राह्मण पता निष् बजरंग मोहल्ला नरसिंहगढ सूरजपोल भूमि स्वामी	12/5	2.000	2.000
		201/3	0.350	0.350
	योग	2	2.350	2.350
29	गोविन्दसिंह पिता चैनसिंह मु. गंगाबाई बेवा चैनसिंह जाति गुजर नि.ग्राम भू-स्वामी	13/1	2.813	1.500
		14/1	1.821	1.821
	योग	2	4.634	3.321
30	गोविन्द्रसिंह आ चनासिंह जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	82/1	0.375	0.295
		91	0.177	0.177
		180	0.266	0.266
	योग	3	0.818	0.738
31	देवीसिंह आचनसिंह जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	13/2	2.813	2.533
		14/2	1.822	1.822
		75/2	0.657	0.010
		78/1	1.315	1.315
		79/1	0.538	0.538
		82/3	0.375	0.285
	योग	6	7.520	6.503
32	समदरसिंह पिता चनासिंह जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	13/3	2.814	2.814
		75/3	0.657	0.080
		78/2	1.315	0.240
		79/2	0.537	0.537
		82/2	0.376	0.285
		232	0.063	0.063
	योग	6	5.762	4.019
33	दयालसिंहसूरतसिंह पिताबापूलालकुमराबाई विष् बापूलाल जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	15/5	1.750	1.750
		108/1	0.176	0.176
	योग	2	1.926	1.926
34	सरजनसिंह पिता कालू जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि	15/6	0.404	0.404
	योग	1	0.404	0.404
35	जमना चदर पिता मोतीलाल भूली बेवा मोतीलाल जाति राव निवासी ग्राम भूमि स्वामी	16/4	0.708	0.708
	योग	1	0.708	0.708

36	कैलाश, बट्टी, रामबाबू पिता अमरसिंह जाति नाई निवासी ग्राम भूमि स्वामी	125	0.164	0.164
		126	0.126	0.126
		127	0.114	0.114
		131	0.051	0.051
		132/1	0.240	0.240
		132/2	0.228	0.228
	योग	6	0.923	0.923
37	देवा पिता किशोर सूरज पिता किशोर जाति भोई निवासी ग्राम भूमि स्वामी	16/7	0.708	0.708
		योग	1	0.708
38	कलावती बाई पत्नि द्वारकाप्रसाद जाति तेली निवासी ग्राम भूमि स्वामी	16/8	1.000	1.000
		योग	1	1.000
39	देवा रामसिंह पिता काशीराम जाति भोई निवासी ग्राम भूमि स्वामी	16/9	0.708	0.708
		योग	1	0.708
40	रामसिंह पिता मोहनलाल जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	20	0.974	0.974
		21	0.240	0.160
		24/23	0.723	0.723
		35/2/1	0.230	0.230
		104/4/1	0.111	0.111
	योग	5	2.278	2.198
41	जगदीश पिता कालूसिंह सम्पतबाई बेवा कालूसिंह अजबूबाई पुत्री कालूसिंह जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	24/24	0.722	0.722
		35/2/2	0.229	0.229
	योग	2	0.951	0.951
42	हरिप्रसाद पिता मोहनलाल जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	35/2/3	0.229	0.229
		योग	1	0.229
43	विश्रामसिंह पिता कनीराम जाति राव पतिवासी ग्राम भूमि स्वामी	24/13/1	1.265	0.076
		योग	1	1.265
44	दशरथ सिंह पिता अमरसिंह जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	104/5/1	0.116	0.116
		155/1	0.506	0.506
		156/1/1	0.232	0.032
	योग	3	0.854	0.654
45	जान सिंह पिता अमर सिंह जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	24/14/2	1.138	1.138
		104/5/2	0.117	0.117
		156/1/3	0.737	0.100
		65/3/1	1.297	1.297
	योग	4	3.289	2.652
46	रमेश पिता जालम सिंह जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	104/3/1	0.117	0.117
		योग	1	0.117
47	चन्द्र सिंह पिता जालम सिंह जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	35/5	0.688	0.688
		104/2	0.232	0.232
	योग	2	0.920	0.920
48	रामदयाल पिता अमर सिंह जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	24/16	2.289	2.289
		65/3/2	1.296	1.296
		103	0.316	0.316
		156/1/2	1.378	0.100
	योग	4	5.279	4.001

49	मागीलाल एकलाश रामासिंह मुन्शी पिता गगारामर गेन्द्राबाई बेबा गगाराम जाति गाडरी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	24/22	2.000	2.000
	योग	1	2.000	2.000
50	धीसालाल पिता अमरचंद रमकबाई बेवा अमरचंद जाति भोई पता सांका जागीर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	25/1	0.484	0.484
		121/4	0.271	0.271
		122/1	0.054	0.054
		123/1	0.031	0.031
		124/1	0.076	0.076
		128	0.126	0.126
		129	0.063	0.063
		130	0.101	0.101
	योग	8	1.206	1.206
51	विजेन्द्र सिंह पिता मागीलाल जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	25/2/1	0.242	0.242
		202/3/1, 203/3/1, 204/3/1	0.265	0.265
		226	0.759	0.759
		227	1.455	1.455
		230/2	0.365	0.365
			योग	5
52	मागीलाल आ रत्या जाति भोई निवासी ग्राम भूमि स्वामी	25/3	0.483	0.483
		121/3	0.271	0.271
		122/4	0.053	0.053
		123/4	0.032	0.032
		124/4	0.076	0.076
		139/2	0.076	0.076
		201/2	0.350	0.350
	योग	7	1.341	1.341
53	अमृतलाल आ चैनासिंह गगाबाई बेवा चैनासिंह जाति भोई निवासी ग्राम भूमि स्वामी	25/4	0.483	0.483
		121/2	0.271	0.271
		122/3	0.054	0.054
		123/3	0.032	0.032
		124/3	0.076	0.076
		139/1	0.076	0.076
		201/1	0.350	0.350
	योग	7	1.342	1.342
54	कमलासिंह पिता बापूलाल जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	28	0.506	0.506
		108/2	0.090	0.090
	योग	2	0.596	0.596
55	जालमसिंह रामासिंह हरिसिंह पिता जयसिंह दारियाव बाई बेवा जयसिंह हि 11 पैसे श्री किशन भूरसिंह पिता गेन्द्रा हि 11 पैसे नारायण सिंह पिता घासीराम हि 78 पैसे जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	15/1/1	0.590	0.590
		96/2/1	0.126	0.126
		187/4	0.500	0.450
	योग	3	1.216	1.166
56	आशाबाई बेवा लाखनसिंह प्रहलादसिंह ना बा सप माता आशाबाई बेवा लाखनसिंह रामचरण पिता परथीसिंह जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	15/4	0.300	0.300
		96/1/2/1	0.053	0.053
		187/2	0.720	0.130
	योग	3	1.073	0.483

57	सन्तरा बाई बेवा चंदरसिंह विजेन्द्रसिंह नेनासिंह पिता चंदरसिंह जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	29/2	0.180	0.180
		30	0.304	0.304
		98/1	0.158	0.158
		33/1	0.030	0.030
	योग	4	0.672	0.672
58	हरिप्रसाद आण्ढयाराम सोरमबाई विण्ढयाराम जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	31	0.519	0.519
		33/2	0.325	0.325
	योग	2	0.844	0.844
59	गणपतसिंह पिता दयाराम जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	32	0.759	0.759
		33/3	0.075	0.075
	योग	2	0.834	0.834
60	अमर सिंह पिता गोरीलाल जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	35/1	0.688	0.688
	योग	1	0.688	0.688
61	मेहरवानीसिंह पिता लक्ष्मण जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	35/3	0.688	0.688
		104/1	0.333	0.333
		246/65	0.797	0.797
	योग	3	1.818	1.818
62	सुआबाई बेवा जालमसिंह जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	35/4	0.688	0.688
	योग	1	0.688	0.688
63	श्यामा बाई पति नरेन्द्रसिंह जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	104/3/2	0.116	0.116
	योग	1	0.116	0.116
64	चंदरसिंह पिता मागोलाल जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	36/1	1.038	1.038
		37/2	0.620	0.620
		38/2	4.558	4.558
		169	0.949	0.949
		39/2	0.253	0.253
	योग	5	7.418	7.418
65	जंगबहादुर, भोलाराम, शम्भूसिंह, उर्फ बलवीरसिंह पिता विक्रमसिंह जाति गुजर निवासी ग्राम भूस्वामी	44	0.493	0.493
		46	0.202	0.202
		94	0.266	0.266
	योग	3	0.961	0.961
66	प्रतापसिंह भूसिंह पिता भावसिंह फलानीबाई बेवा भावसिंह हि 50पै फतेसिंह पिता गंगाराम हि 50पै जाति गुजर पता नि ग्राम भूस्वामी	47	0.228	0.228
		48	0.139	0.139
	योग	2	0.367	0.367
67	घोसा बापू कनौराम रामसिंह पिता नदराम भूलोबाई मुन्नीबाई अमरीबाई पुत्री नंदराम जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	57/2	0.126	0.126
		65/6	0.063	0.063
		65/4	2.529	1.400
	योग	3	2.718	1.589
68	घासीराम बापूलाल कनौराम रामसिंह पिता नदराम जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	57/3	0.114	0.114
		65/10	0.240	0.240
	योग	2	0.354	0.354
69	रामकुंवरबाई पति हरिसिंह राजपूत निवासी ग्राम होशियारखेड़ी भूमि स्वामी	57/4	0.949	0.949
	योग	1	0.949	0.949

70	मानसिंह चदरसिंह पिता कनौराम मोहनलाल परतापसिंह चेनसिंह पिता हजारी मु पून्या बेवा हजारी जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	59	0.253	0.253
	योग	1	0.253	0.253
71	नारानी बाई बेवा मागीलाल जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	60/2	0.082	0.082
		61/2	0.082	0.082
		62/2	0.202	0.202
		63/2/1	0.140	0.140
	योग	4	0.506	0.506
72	अमरसिंह मानसिंह गोरधनसिंह पिता किशनलाल जाति गूजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	65/1	2.529	2.529
		99	0.304	0.304
	योग	2	2.833	2.833
73	सरदारबाई रेखाबाई पुत्री कैलाश जाति राव निवासी ग्राम भूमि स्वामी	65/2/1	0.652	0.652
	योग	1	0.652	0.652
74	भोलाराम पिता मागीलाल जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	65/2/2	1.517	1.517
	योग	1	1.517	1.517
75	पन्नालाल पिता कालू जाति नाथ निवासी ग्राम भूमि स्वामी	65/2/3	0.652	0.652
	योग	1	0.652	0.652
76	विजयासिंह पिता नारायणासिंह जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	65/3/3	1.833	1.833
	योग	1	1.833	1.833
77	परबत सिंह पिता लक्ष्मण जाति गूजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	65/5	1.391	1.391
	योग	1	1.391	1.391
78	गोरधन पिता किशनलाल जाति गूजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	65/8	3.161	3.161
	योग	1	3.161	3.161
79	मोतीलाल पिता गिरधारी जाति गूजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	65/9	0.190	0.190
		248/65	0.190	0.190
	योग	2	0.380	0.380
80	इमरत पिता मोहनलाल जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	65/12	0.683	0.683
	योग	1	0.683	0.683
81	इमरत पिता मोहनलाल, गीताबाई पत्नि इमरत जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी शासकीय पट्टा स्वीकृत	110/1/1	0.379	0.379
	योग	1	0.379	0.379
82	सजनसिंह पिता मागीलाल जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	66	0.063	0.063
		70/1	2.769	0.488
		72	0.531	0.020
		89/2/2	0.196	0.196
	योग	4	3.559	0.767
83	जगमोहन पिता गेदाजी जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	87	0.253	0.253
		185/2	1.010	1.010
		192/3	0.063	0.063
		199/9	0.228	0.228
		199/10	0.152	0.152
	योग	7	2.465	2.465

84	खुमानबाई बेवा जयसिंह, सरजूबाई बेवा नारायणसिंह समन्दरसिंह अनूपसिंह भगवतीबाई पिता नारायणसिंह, चन्द्रसिंह, कमलसिंह, सम्पतबाई पिता जयसिंह, कैलाशबाई बेवा हिम्मतसिंह, निरंजनसिंह, राजेन्द्रसिंह, सुनीताबाई पिता हिम्मतसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	70/3/1	0.236	0.100
		86/1	0.114	0.114
	योग	2	0.350	0.214
85	कचन सिंह इन्द्र सिंह भगवत सिंह कमल सिंह पिता बापूलाल जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	86/2	0.114	0.114
		70/3/2	0.236	0.015
	योग	2	0.350	0.129
86	सूरजसिंह, ज्ञानसिंह पिता नन्नूलाल पूनाबाई बेवा नन्नूलाल जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	86/3	0.114	0.114
	योग	1	0.114	0.114
87	चेनासिंह पिता दयाराम जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	29/1	0.250	0.250
		98/2	0.158	0.158
	योग	2	0.408	0.408
88	दयालबाई बेबा हरीनारायण चन्द्रसिंह रामबाबू नाबा पिता हरीनारायण सप माता दयालबाई गुडडीबाई ना बा पुत्री परवतसिंह सप काकी दयालबाई बेबा हरीनारायण जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	92	0.392	0.392
		105	0.152	0.152
		187/3	0.500	0.400
	योग	3	1.044	0.944
89	कमल सिंह पिता मागोलाल जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	77/2/1	0.674	0.257
	योग	1	0.674	0.257
90	नारायणसिंह पिता बक्षीलाल जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	83/1	0.797	0.497
		175/2	1.727	0.460
	योग	2	2.524	0.957
91	लखन सिंह पिता बक्षीलाल जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	83/2	0.797	0.597
	योग	1	0.797	0.597
92	गजेन्द्रसिंह पिता लाखनसिंह जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	175/1/1	0.841	0.073
	योग	1	0.841	0.073
93	दामोदर पिता लाखनसिंह जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	175/1/2	0.841	0.072
	योग	1	0.841	0.072
94	रामसिंह आबक्षीलाल जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	84/1	0.202	0.202
	योग	1	0.202	0.202
95	इन्द्रसिंह आबक्षीलाल जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	84/2	0.203	0.203
		177	1.695	0.110
		216/2/1	0.843	0.843
	योग	3	2.741	1.156
96	पन्नालाल आबक्षीलाल जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	85/1	0.152	0.152
	योग	1	0.152	0.152

97	भारतसिंह आण्बक्षीलाल जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	85/2	0.152	0.152
		216/1/1	0.805	0.805
	योग	2	0.957	0.957
98	महेन्द्रसिंह पिता धुरीलाल जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	89/1/1	0.107	0.107
		154/3/1	1.264	1.264
	योग	2	1.371	1.371
99	भगवती बाई बेवा रघुवीर सिंह जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	89/1/2	0.108	0.108
		155/2/1	0.456	0.456
		178/1	0.833	0.833
		179/1	0.431	0.431
		217/1	1.542	0.926
	योग	5	3.370	2.754
100	गजराज सिंह पिता धुरीलाल जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	89/1/3	0.108	0.108
		155/2/2	0.126	0.126
		178/2	1.215	1.215
		179/2	0.379	0.379
		217/2	1.543	1.500
	योग	5	3.371	3.328
101	चन्द्र प्रकाश पिता धुरीलाल जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	89/1/4	0.107	0.107
		154/3/2	1.265	1.265
	योग	2	1.372	1.372
102	मागीलाल पिता राधाकेशन जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	89/2/1	0.196	0.186
		100	0.291	0.291
		170	1.556	1.556
		176/1	0.392	0.392
	योग	4	2.435	2.425
103	ललताप्रसाद पिता मदनलाल जमनीबाई विष्मदनलाल जाति नाथ निवासी ग्राम भूमि स्वामी	90	0.215	0.215
	योग	1	0.215	0.215
104	जालमसिंह आण्मुन्शीलाल जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	95/1	0.058	0.058
		109/2/3	0.075	0.075
		109/3/1	0.034	0.034
		173/2/1	0.997	0.456
	योग	4	1.164	0.623
105	विजय सिंह पिता कालूराम जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	95/2	0.059	0.059
		109/2/2	0.109	0.109
		172/2	0.194	0.194
		173/2/2	0.394	0.067
	योग	4	0.756	0.429
106	पवतसिंह पिता मोड़सिंह जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	151/7/1	0.272	0.272
	योग	1	0.272	0.272
107	धन्नाएगणेश पिता कल्ला जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	102	0.304	0.304
	योग	1	0.304	0.304
108	सिद्दलाल पिता श्यामा जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	111/1	0.265	0.265
		116/2	0.411	0.411
		191/1/2	0.035	0.035
		213/1/1	0.790	0.790
	योग	4	1.501	1.501

109	मागोलाल पिता श्यामा जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	111/2	0.266	0.266
		116/1	0.411	0.411
		191/1/1	0.034	0.034
		213/1/2/2	0.537	0.537
	योग	4	1.248	1.248
110	मागोलाल पिता श्यामलाल इमरतबाई पत्नि मागोलाल जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी शासकीय पट्टा स्वीकृत	151/6/3	0.379	0.379
		योग	1	0.379
111	मांगीलाल, सीद्धू पिता श्यामा जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	113/1	0.017	0.017
		योग	1	0.017
112	कनौराम किशनलाल रामासेह गोकुलप्रसाद पिता तुलसीराम जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	113/2	0.017	0.017
		114	0.595	0.595
		151/4	0.506	0.506
		151/5	0.936	0.936
		191/2	0.070	0.070
		210	1.480	1.480
	योग	6	3.604	3.604
113	कालू पिता प्रेमा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	113/3	0.017	0.017
		योग	1	0.017
114	प्रभुबाई बेबा नन्दराम रामस्वरूप चन्दन पिता तोलाराम मनोहर संतोष रामकन्या बाई तीनो ना बा पिता तोलाराम सर माता शैतान बाई देवा तोलाराम जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	115/1	0.184	0.184
		149	0.215	0.215
		188/2/1	0.035	0.035
		190/1	0.249	0.249
		193	1.379	1.379
	योग	5	2.062	2.062
115	प्रदीप पोद्दार सचालक डिसेन्ट सप्लायसे प्रा० लि० कोलकात्ता जाति पोद्दार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	115/2	0.184	0.184
		115/3	0.183	0.183
		115/4	0.183	0.183
		117/2	0.594	0.594
		118	0.228	0.228
		188/2/2	0.509	0.509
		188/4	0.405	0.405
		188/5/1	0.190	0.190
		188/5/2	0.342	0.342
		189/1	0.222	0.222
		189/2/2	0.701	0.701
		190/2	0.105	0.105
		192/6	1.265	1.265
		192/7	1.138	1.138
			योग	18
116	नन्नुलाल पिता पन्नालाल जाति भोई निवासी ग्राम भूमि स्वामी	188/5/3	0.227	0.227
		135/1/1	0.038	0.038
		192/9/2	0.143	0.143
		225/1/1	0.219	0.219

		223/1/1	0.321	0.321
	योग	5	0.948	0.948
117	शैतानबाई पत्नि फतेसिंह जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	117/1	0.228	0.228
		119	0.278	0.278
	योग	2	0.506	0.506
118	प्रेमबाई जानीबाई पुत्री धुल्या घोंसा माग्या पिता देवचन्द्र जाति भोई निवासी ग्राम भूमि स्वामी	120	0.316	0.316
		224/1/2	0.250	0.250
	योग	1	0.566	0.566
119	नन्नीबाई बेवा पूनमचन्द्र धन्नालाल रामनारायण पिता पूनमचन्द्र जाति भोई नि ग्राम भूमि स्वामी	121/1	0.270	0.270
		138	0.139	0.139
	योग	2	0.409	0.409
120	सत्यनारायण पिता मथराप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भूमि स्वामी	121/5	0.271	0.271
		122/2	0.054	0.054
		123/2	0.031	0.031
		124/2	0.076	0.076
		139/4	0.076	0.076
	योग	5	0.508	0.508
121	नरबेसिंह ए बद्रीलाल पिता बापूलाल गीताबाई पुत्री बापूलाल जाति भोई निवासी ग्राम भूमि स्वामी	133	0.177	0.177
		202/1,203/1, 204/1	0.654	0.654
	योग	2	0.831	0.831
122	काशीराम पिता मयाराम जाति भोई निवासी ग्राम भूमि स्वामी	134	0.139	0.139
	योग	1	0.139	0.139
123	आशा पिता कनीराम जाति भोई निवासी ग्राम भूमि स्वामी	135/2	0.101	0.101
		225/2	0.658	0.658
	योग	2	0.759	0.759
124	रोडजी पिता रामरतन जाति भोई निवासी ग्राम भूमि स्वामी	136/1	0.041	0.041
		192/10	0.506	0.506
		205	0.645	0.645
		206	1.871	1.871
	योग	4	3.063	3.063
125	रोडजी पिता भवरलाल जाति भोई निवासी ग्राम भूमि स्वामी	202/3/2, 203/3/2, 204/3/2	0.379	0.379
	योग	1	0.379	0.379
126	मदनलाल पिता बडूलाल जाति भोई निवासी ग्राम भूमि स्वामी	136/4/1	0.021	0.021
		207/1	0.253	0.253
		207/3	0.765	0.765
	योग	3	1.039	1.039
127	नारायण पिता बडूलाल जाति भोई निवासी ग्राम भूमि स्वामी	136/4/2	0.020	0.020
		207/2	1.018	1.018
	योग	2	1.038	1.038
128	रामप्रसाद पिता हरिकेशन जाति भोई निवासी ग्राम भूमि स्वामी	140	0.139	0.139
	योग	1	0.139	0.139
129	रामचरण पिता मोहनलाल जाति भोई निवासी ग्राम भूमि स्वामी	141	0.089	0.089
		188/3/1	0.127	0.127
	योग	2	0.216	0.216

130	प्रमिला गुजर पति रामजीवन जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	192/1	0.291	0.291
		192/5/1	0.729	0.729
	योग	2	1.020	1.020
131	रामचरण बाबू इमरत पिता मोन्या भवरी कन्ची बेवा मोन्या हि 33पै श्यामा कालू पिता प्रेमा हि 17पै भूमि स्वामी कनीराम किशनलाल रामसिंह गोकुलप्रसाद पिता तुलसीराम हरकुबाई बेवा तुलसीराम हि 8पै नंदराम रामचंद्र भूमि स्वामी रामप्रसाद बापूलाल पिता हरिया हि 25पै रोडिया पि भेरिया हि 17पै जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	146	0.101	0.101
		147	0.228	0.228
		148	0.202	0.202
	योग	3	0.531	0.531
132	गोरीलाल रतनलाल सीताराम पिता जगन्नाथ जाति गाडरी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	151/2	0.278	0.278
		192/2/1	0.354	0.354
	योग	2	0.632	0.632
133	रोडजी पिता गोरीलाल जाति गाडरी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	192/2/2	0.253	0.253
	योग	1	0.253	0.253
134	किसनलाल पिता तुलसीराम सुगनबाई पत्नि किसनलाल जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	151/6/1	0.253	0.253
		199/3/1	0.506	0.506
	योग	2	0.759	0.759
135	सिंदूलाल पिता श्यामलाल नारानीबाई पत्नि श्यामलाल जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	151/6/2	0.379	0.379
	योग	1	0.379	0.379
136	कस्तुरी बाई बेवा चुन्नीलाल धौसीलाल नन्नीलाल बोरीबाई पुत्र पुत्री चुन्नीलाल जाति भोई निवासी ग्राम भूमि स्वामी	151/8/1	1.438	1.438
	योग	1	1.438	1.438
137	रामसिंह पिता तुलसीराम गोकुल बाई पत्नि रामसिंह जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	24/1/4	0.759	0.759
	योग	1	0.759	0.759
138	भरतराम पिता जगमोहन जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	185/1	1.000	1.000
	योग	1	1.000	1.000
139	रामलाल पिता आशाराम जाति भोई पानेवासी ग्राम भूमि स्वामी	188/1	0.190	0.190
		188/3/2	0.379	0.379
	योग	2	0.569	0.569
140	राजाराम पिता पन्नालाल जाति भोई निवासी ग्राम भूमि स्वामी	188/3/3/1	0.316	0.316
		135/1/2	0.038	0.038
		192/9/3	0.055	0.055
		225/1/2	0.219	0.219
		223/1/2	0.320	0.320
	योग	5	0.948	0.948
141	गोकुलप्रसाद पिता तुलसीराम देवबाई पिता गोकुलप्रसाद जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	192/8/1/1	0.379	0.379
	योग	1	0.379	0.379

142	श्रीमती हरजीत कोर पति केशर सिंह जाति सिख निवासी ग्राम भूमि स्वामी	194/2	1.265	1.265
	योग	1	1.265	1.265
143	समन्दरसिंह पिता जालमासिंह जाति गूजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	194/1	1.175	1.175
		195	0.481	0.481
	योग	2	1.656	1.656
144	बशीलाल पिता मागोलाल जाति भोई निवासी ग्राम भूमि स्वामी	196/2/1,197/2/1,199/4/2/1	1.607	1.607
	योग	1	1.607	1.607
145	पवित्रा बाई पति कैलाश जाति नाई निवासी ग्राम भूमि स्वामी	196/2/2/2,197/2/2,199/4/2/2/2	0.325	0.325
		196/3/1,197/3/1,199/4/3/1	1.213	1.213
	योग	2	1.538	1.538
146	सीताराम पिता जगन्नाथ जाति गाडरी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	196/3/2,197/3/2,199/4/3/2	1.213	1.213
		196/4	1.213	1.213
	योग	2	2.426	2.426
147	सत्यनारायण पिता मथराप्रसाद जाति ब्राह्मण नि.ग्राम भू-स्वामी	198	1.758	1.758
		199/7	0.759	0.759
	योग	2	2.517	2.517
148	मग्गूमहेन्द्र पिता कालूकेसरबाई विष्कालूरखाबाई पुत्री कालू जाति भोई निवासी ग्राम भूमि स्वामी	199/2	0.708	0.708
	योग	1	0.708	0.708
149	कैलाश पिता पन्नलाल जाति सीरिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	199/5/1	1.157	1.157
	योग	1	1.157	1.157
150	सुखलाल पिता खुशीलाल रशमबाई पति सुखलाल जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	199/5/2	0.779	0.779
	योग	1	0.779	0.779
151	यशवर्तसिंह पिता रामसिंह धनीबाई बेवा रामसिंह बदामबाई रम्भाबाई हीराबाई पुत्री रामसिंह जाति गूजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	199/8/1	1.870	1.870
	योग	1	1.870	1.870
152	पवित्राबाई पति विजेन्द्र सिंह जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	200/1	0.558	0.558
		200/2	0.112	0.112
		225/3/1	0.379	0.379
	योग	3	1.049	1.049
153	प्रेमबाई जानीबाई पुत्री धुल्या जाति भोई निवासी ग्राम भूमि स्वामी	142	0.164	0.164
	योग	1	0.164	0.164
154	बलवीरसिंह पिता विक्रमसिंह जाति गूजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	212/2	1.305	1.305
		224/2	0.658	0.658
	योग	2	1.963	1.963
155	भगवानसिंह पिता महेन्द्रसिंह जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	217/3/1	0.500	0.380
	योग	1	0.500	0.380

156	बबलू पिता महेन्द्रासिंह जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	217/3/2	0.272	0.272
	योग	1	0.272	0.272
157	कन्हैयालाल पिता तुलसीराम जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	24/1/5	0.759	0.519
	योग	1	0.759	0.519
158	बुद्धीबाई पति बनीसिंह जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	223/3/1	0.190	0.190
		223/3/2	0.759	0.759
	योग	2	0.949	0.949
159	बटनलाल पिता भवरलाल कमल पिता बशीलाल झनकसिंह कैलाश पिता पन्नालाल रामप्यारीबाई बेवा पन्नालाल जाति बलाई नि ग्राम भूमि स्वामी	228/1/1	2.097	2.097
	योग	1	2.097	2.097
160	आरामसिंह नावा सर पिता चन्द्रासिंह पिता मागीलाल जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	228/2	1.126	1.126
		229/1	0.683	0.683
		230/1	1.354	1.354
	योग	3	3.163	3.163
161	बाबूसिंह पिता फतेसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/2	2.245	0.115
		77/1/1	0.673	0.145
	योग	2	2.918	0.260
162	प्रताबसिंह पिता भावसिंह मु. सुआबाई बेवा भूरेसिंह, बनेसिंह कमलसिंह पिता भूरेसिंह हि. 50 पै. सरजनसिंह सोनाथसिंह पिता फतेहसिंह, मु. गीताबाई बेवा पर्वतसिंह, राजू, सरूपी, शर्मीला पिता पर्वतसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम भूस्वामी	6/1	1.525	1.525
		49	0.152	0.152
		50	0.240	0.240
		51	0.164	0.164
		52	0.190	0.190
		54	0.215	0.215
		55	0.519	0.519
	योग	7	3.005	3.005
163	जगमोहन, गोविन्द पिता गेंदा प्रेमबाई, मोरबाई, पानबाई पिता गेंदा हि. 25 पै. हेमसिंह पिता अमरसिंह, कृष्णाबाई पुत्री अमरसिंह हि. 25 पै. मु. सोरमबाई बेवा यशवन्तसिंह, हिरदेश, धर्मेन्द्र पिता यशवन्तसिंह, बादामबाई, रेखाबाई पुत्री रामसिंह, हि. 25 पै. मु. हल्कीबाई बेवा बिहारी, हेमराज पिता बिहारी हि. 25 जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	6/2	2.014	2.014
		182/1	0.239	0.239
		184/1	0.340	0.340
	योग	3	2.593	2.593
164	कंचनसिंह, इन्दरसिंह, भगवतसिंह, कमलसिंह, पिता बापूलाल, हि. 34 पै. खुमानबाई बेवा जयसिंह, सरजूबाई बेवा नारायणसिंह, समन्दरसिंह अनूपसिंह भगवतीबाई पिता नारायणसिंह, कमलसिंह, चन्दरसिंह, सम्पतबाई पिता जयसिंह, मु. कैलाशबाई बेवा हिम्मतसिंह, निरंजनसिंह, राजेन्द्र, सुनीताबाई पिता हिम्मतसिंह हि. 33 पै. मु. पूनाबाई बेवा नन्नूलाल, सूरजसिंह, ज्ञानसिंह पिता नन्नूलाल हि. 33 पै. जाति गुर्जर नि. ग्राम भू-स्वामी	6/3	2.013	2.013
		184/2	0.900	0.900
	योग	2	2.913	2.913

165	सरजनसिंह पिता फतेहसिंह, राजेन्द्रसिंह पिता पर्वतसिंह, गीताबाई बेवा पर्वतसिंह, जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	60/1	0.082	0.082
	योग	1	0.082	0.082
166	बाबूसिंह पिता फतेसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	63/1/1	0.126	0.126
		61/1	0.082	0.082
	योग	2	0.208	0.208
167	जबरसिंह पिता सोरामसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूस्वामी	213/1/2/1	0.253	0.253
		62/1/2	0.156	0.156
	योग	2	0.409	0.409
168	विवेकसिंह, दौलतसिंह पिता सोरामसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	63/2/2	0.018	0.018
		63/1/2	0.032	0.032
		64/1	0.114	0.114
		64/2	0.114	0.114
	योग	4	0.278	0.278
169	अमरसिंह, मानसिंह, गोर्धनसिंह पिता किशनलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	253/65	0.772	0.772
	योग	1	0.772	0.772
170	विवेकसिंह पिता सोरामसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	15/1/2	0.590	0.590
		15/1/3	0.590	0.590
	योग	2	1.180	1.180
171	रामस्वरूप पिता फतेहसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	77/1/2	0.673	0.145
	योग	1	0.673	0.145
172	बलवीरसिंह पिता विक्रमसिंह गुर्जर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	212/1	1.110	1.110
		224/1/1	0.408	0.408
	योग	2	1.518	1.518
173	नन्नीबाई बेवा पर्वतसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	215	0.595	0.595
		216/3/1	0.829	0.829
	योग	2	1.424	1.424
174	तुलसीराम पिता आशाराम भोई निवासी ग्राम भूमि स्वामी	192/5/2	0.156	0.156
		225/3/2/1	0.253	0.253
	योग	2	0.409	0.409
175	रामचरण पिता मोहनलाल भोई निवासी ग्राम भूमि स्वामी	225/3/2/2	0.013	0.013
	योग	1	0.013	0.013
176	राजेन्द्र पिता जगमोहन गुर्जर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	185/3	1.000	0.500
	योग	1	1.000	0.500
177	रामा पिता रुग्गा बसतीबाई पति रामा जाति मेहतर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	24/1/6	2.000	2.000
	योग	1	2.000	2.000
178	नारायणसिंह पिता अमरसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू स्वामी	15/2/1	0.900	0.900
	योग	1	0.900	0.900

179	विश्रामसिंह पिता गणपतसिंह जाति गुजर निवासी ग्राम भू स्वामी	15/2/2	0.450	0.450
	योग	1	0.450	0.450
180	जगदीश पिता गणपतसिंह जाति गुजर निवासी ग्राम भू स्वामी	15/2/3	0.450	0.450
	योग	1	0.450	0.450
181	जगदीश पिता सोमा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	24/1/7	1.165	0.665
	योग	1	1.165	0.665
182	जीवन पिता गन्दा सुमनबाई पति जीवन जाति सेरिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	24/1/8	1.549	0.650
	योग	1	1.549	0.650
183	रमेश पिता गन्दा रेखाबाई पति रमेश जाति सेरिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	24/1/9	1.549	0.500
	योग	1	1.549	0.500
184	दयालबाई बेबा हरीनारायण चन्द्रसिंह रामबाबू ना.बा. पिता हरीनारायण स.प. माता दयालबाई गुडीबाई ना. पुत्री परनतसिंह स.प. काकी दयालबाई बेबा हरीनारायण सरजनसिंह भगवानसिंह हेमराज पिता कालूराम भूराबाई बेबा कालू जाति गूजर पता नि ग्राम भूमि स्वामी	76	2.200	0.160
	योग	1	2.200	0.160
185	रतनासिंह पिता पन्नालाल दुलारीबाई पति रतनासिंह जाति सेरिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	24/1/11	1.719	0.040
	योग	1	1.719	0.040
186	अनोखी पिता गणेशराम कुसुम पति अनोखी जाति सेरिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	24/1/12	2.000	1.050
	योग	1	2.000	1.050
187	विजेन्द्र सिंह पिता मागीलाल जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	222	1.896	1.896
	योग	1	1.896	1.896
188	सुखराम आ पन्नालाल जाति भोई पता नि ग्राम भू स्वामी	223/1/3 135/1/3 192/9/4 225/1/3 188/3/3/2	0.320 0.038 0.055 0.219 0.316	0.320 0.038 0.055 0.219 0.316
	योग	5	0.948	0.948
189	आशा पिता कनौराम जाति भोई निवासी ग्राम भूमि स्वामी	223/2	0.961	0.961
	योग	1	0.961	0.961
190	इन्दरसिंह पिता बकशूलाल जाति गुजर पता नि ग्राम भू स्वामी	171/2/2	0.355	0.355
	योग	1	0.355	0.355
191	पन्नालाल आ अमरा जाति भोई निवासी ग्राम भूमि स्वामी	192/9/1	0.253	0.253
	योग	4	0.253	0.253

192	दोलतसिंह पिता सोरामसिंह जाति गुजर पता नि ग्राम भू स्वामी	228/1/2	0.698	0.698
	योग	1	0.698	0.698
193	रामचरण पिता तुलाराम धापुबाई पत्नि रामचरण जाति सेरिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	24/1/13	2.000	2.000
	योग	1	2.000	2.000
194	रामदयाल पिता जयकिशन जाति सेरिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	24/1/14	1.157	0.340
	योग	1	1.157	0.340
195	किशनलाल पिता तुलसीराम जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	151/1	0.114	0.114
	योग	1	0.114	0.114
196	कन्हैयालाल पिता तुलसीराम जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	112	0.354	0.354
	योग	1	0.354	0.354
197	कैलाश, बट्टी, पप्पू पिता अमरसिंह जाति नाई निवासी ग्राम भूमि स्वामी	16/5	0.708	0.708
	योग	1	0.708	0.708
198	श्यामाबाई पति नरेन्द्रसिंह जाति गुजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	104/4/2	0.112	0.112
	योग	1	0.112	0.112
199	मागोलाल पिता रतेराम जाति भोई निवासी ग्राम भूमि स्वामी	139/3	0.076	0.076
	योग	1	0.076	0.076
200	जंगबहादुर, भोलाराम, बलवीरसिंह बबली पिता विक्रमसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूस्वामी	45	0.544	0.544
	योग	1	0.544	0.544
	महायोग		300.606	264.889

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि निवेदिता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 5 सितम्बर 2019

क्र. 886-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1) रीवा	(2) जवा	(3) गड़ेहरा	(4) 0.910	(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा.	(6) त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 908-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगावां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1) सतना	(2) कोटर	(3) खम्हरिया	(4) 0.086	(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2, सतना (म. प्र.).	(6) घुंघचिहाई माइनर के छूटे हुये रकबे का प्रकरण.
			योग . . .	0.086	

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 910-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके

द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
रीवा	जवा	रैकवारा 499	1.250	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माइनर/सब-माइनर व अंतिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 912-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
रीवा	जवा	बरेती कला 356	1.500	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माइनर/सब-माइनर व अंतिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा, एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 914-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का

अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	डोढ़ी 239	1.300	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माइनर/सब-माइनर व अंतिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा, एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 916-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	रिमारी	1.700	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माइनर/सब-माइनर व अंतिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा, एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 918-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत

करता हूँ. चूँकि उक्त सब माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	शिवपुर कोठार	0.060	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर जिला रीवा.	त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 920-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूँकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	गुढ़ पवाई	0.370	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर जिला रीवा.	त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 922-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता

हूँ. चूँकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	टिकेतन पुरवा	0.328	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर जिला रीवा.	त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 924-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019-20.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूँकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	खटखरी कला 107	4.000	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माइनर/सब-माइनर व अंतिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 14 अगस्त 2019

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र..-27-अ-82-2017-18-4518.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—जैतपुर
(ग) ग्राम—रजबांध
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—58.417 हेक्टर भूमि एवं परिसंपत्ति.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	(1)	(2)
(1)	(2)		
3/1	0.100	8/2	0.506
3/2	0.100	9/1	0.654
4	0.150	11/1	0.300
5	1.744	9/1	0.300
7/1	0.772	11/2	0.155
7/2	0.772	9/3	0.300
7/3	0.774	11/3	0.156
7/4	0.774	10	0.862
7/5	0.206	78	0.926
8/1/क	0.301	261	0.280
16/2/क	0.761	13/1	0.454
8/1/ख	0.101	254	0.480
16/2/घ	0.164	13/2	0.809
68/1घ	0.764	14	0.510
8/1/ग	0.100	15	0.356
16/2	0.120	71	0.644
68/1ख	0.505	16/1	0.388
		20/2	0.089
		16/2ख	0.345
		16/2ग	0.512
		18/1	0.211
		83/1	0.377
		166	0.279
		321/1	0.073
		18/2	0.101
		83/2	0.188
		321/2	0.036
		18/3	0.101
		83/3	0.188
		321/3	0.097
		19	0.150
		255/1	0.413
		255/2	0.416
		21/1	0.380
		169/1	0.065
		12	0.482
		20/1	0.360
		168/1	0.024

(1)	(2)	(1)	(2)
21/4	0.380	319/4	0.005
21/5	0.380	66/5	0.020
22	0.466	319/5	0.005
23	0.093	66/6	0.040
46	0.987	319/6	0.010
26/1	0.069	66/7	0.040
260/1/घ	0.149	319/7	0.010
26/2	0.077	66/8	0.020
260/2	0.506	319/8	0.010
26/3	0.073	66/9	0.040
26/4	0.073	319/9	0.010
260/3	0.506	66/10	0.028
260/4	0.506	319/10	0.010
27	0.208	67	0.757
65	1.651	68/1क	0.514
28/1	0.200	68/1ग	0.463
262/1	0.109	69	0.096
28/2	0.152	68/2	0.202
28/3	0.200	168/2	0.096
262/2	0.110	72	9.676
42	0.587	320	0.616
43	0.040	75/1	0.265
45/1	0.040	75/2	0.607
45/2	0.053	76/2	0.405
47	0.502	80	0.182
48	0.395	82/1	1.804
61	0.464	82/2/1	0.202
60/1	0.222	82/2/2	0.303
63/1	0.680	82/2/3	0.202
60/2	0.222	82/2/8	0.690
63/2	0.680	82/2/4	0.101
62	0.400	82/2/5	0.081
66/1	0.040	66/2	0.040
319/1	0.010	319/2	0.010
21/2	0.380	66/3	0.040
21/3	0.380	157	0.304
167/2	0.065	164	0.825
319/3	0.010	158/1	0.597
66/4	0.040	159	0.198

(1)	(2)
154	0.095
160	0.061
161	0.061
245	0.235
165	0.182
242	0.326
244	0.466
248	0.555
249	0.279
252/1	0.089
253/1	0.648
252/2	0.089
82/2/6	0.121
82/2/7	0.101
188/2	0.024
253/2	0.048
252/3	0.097
253/3	0.655
256	0.129
263	0.040
258/1	0.150
258/2	0.200
258/3	0.101
258/4	0.101
258/5	0.250
259	0.040
260/1/क	0.148
260/1/ख	0.060
260/1/ग	0.149
272	0.113
कुल रकबा . .	<u>58.417</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रजबांध जलाशय योजना के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ललित दाहिमा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वासि,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 26 जुलाई 2019

पत्र क्र. 742-प्रका.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवाँ
(ग) ग्राम—डिहिया कोठार
(घ) क्षेत्रफल—0.100 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि (2)	शासकीय भूमि (3)
(अ) निजी पदटे की भूमि		
706	0.068	-
862	0.032	-
योग . .	<u>0.100</u>	

(ब) शासकीय भूमि निरंक महायोग . . 0.100

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के नेबूहा वितरक नहर की डिहिया माइनर, सब-माइनर नं. 1 एवं हर्दी सब-माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 5 सितम्बर 2019

पत्र क्र. 888-प्रका.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित

सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

	(1)	(2)	(3)
अनुसूची	3	0.030	-
	4	0.102	-
(1) भूमि का वर्णन—	24	0.071	-
(क) जिला—रीवा	41	0.104	-
(ख) तहसील—जवा	53	0.034	-
(ग) ग्राम—भितरी 431	54	0.037	-
(घ) क्षेत्रफल—0.050 हेक्टेयर.	55	0.060	-
	56	0.046	-
खसरा	60	0.069	-
अर्जित रकबा (हे. में)			
नम्बर	निजी भूमि	शासकीय भूमि	
(1)	(2)	(3)	
(अ) निजी पट्टे की भूमि	254	0.028	-
	256	0.023	-
48	0.050	-	-
योग . .	0.050		
(ब) शासकीय भूमि	-	निरंक	
महायोग . .	0.050		
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—त्योथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	261	0.012	-
	262	0.069	-
	260	0.065	-
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	263	0.065	-
	264	0.031	-
	266	0.150	-
	413	0.068	-
	416	0.079	-
	417	0.067	-
	418	0.069	-
	योग . .	1.608	-
(ब) शासकीय भूमि	-	निरंक	
महायोग . .		1.608	

पत्र क्र. 890-प्रका.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—	(2)	(3)
(क) जिला—रीवा		
(ख) तहसील—जवा		
(ग) ग्राम—बसरेही 390		
(घ) क्षेत्रफल—1.608 हेक्टेयर.		
खसरा	अर्जित रकबा (हे. में)	
नम्बर	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
(अ) निजी पट्टे की भूमि		
1	0.278	-
2	0.077	-

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—त्योथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 892-प्रका.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—जवा

			(1)	(2)	
(ग) ग्राम—कुठिला 68					
(घ) क्षेत्रफल—0.430 हेक्टेयर.			9	0.016	-
खसरा	अर्जित रकबा (हे. में)		40	0.006	-
नम्बर	निजी भूमि	शासकीय भूमि	41	0.036	-
(1)	(2)	(3)	42	0.023	-
(अ) निजी पट्टे की भूमि			44	0.014	-
188	0.057	-	49	0.056	-
189	0.042	-	50	0.001	-
190	0.185	-	53	0.004	-
191	0.094	-	54	0.047	-
192	0.052	-	56	0.063	-
योग . .	<u>0.430</u>	-	57	0.021	-
(ब) शासकीय भूमि			58	0.005	-
महायोग . .	<u>0.430</u>	निरंक	59	0.001	-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—त्योंथर			134	0.036	-
बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण			135	0.031	-
में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित			136	0.001	-
सम्पत्ति के अर्जन हेतु.			138	0.032	-
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर			140	0.053	-
परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.			142	0.004	-
			153	0.020	-
पत्र क्र. 894-प्रका.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को			159	0.009	-
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद			162	0.001	-
(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि			163	0.059	-
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन			164	0.0034	-
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का			165	0.054	-
अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा			167	0.015	-
घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित			187	0.013	-
सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—			191	0.052	-
अनुसूची			192	0.054	-
(1) भूमि का वर्णन—			193	<u>0.002</u>	-
(क) जिला—रीवा			योग . .	0.812	-
(ख) तहसील—जवा					
(ग) ग्राम—हरदौहा 568					
(घ) क्षेत्रफल—0.812 हेक्टेयर.					
खसरा	अर्जित रकबा (हे. में)				
नम्बर	निजी भूमि	शासकीय भूमि			
(1)	(2)	(3)			
(अ) निजी पट्टे की भूमि					
7	0.041	-			
8	0.007	-			
(ब) शासकीय भूमि					
महायोग . .				0.812	-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—त्योंथर					
बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण					
में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित					
सम्पत्ति के अर्जन हेतु.					
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर					
परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.					

पत्र क्र. 896-प्रका.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—जवा

(ग) ग्राम—खोहा 121

(घ) क्षेत्रफल—1.700 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि (1)	शासकीय भूमि (2)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

618	0.001	-
636	0.035	-
637	0.019	-
639	0.027	-
640	0.025	-
646	0.004	-
647	0.012	-
635	0.016	-
670	0.103	-
672	0.003	-
674	0.096	-
675	0.019	-
857	0.023	-
890	0.001	-
891	0.019	-
892	0.049	-
893	0.086	-
894	0.006	-
896	0.019	-
897	0.033	-
905	0.001	-
907	0.002	-
908	0.008	-
909	0.001	-
912	0.043	-
913	0.009	-

(1)	(2)	
915	0.001	-
917	0.001	-
918	0.041	-
919	0.035	-
925	0.027	-
926	0.013	-
932	0.001	-
936	0.050	-
937	0.126	-
938	0.018	-
1035	0.001	-
1036	0.031	-
1057	0.015	-
1058	0.014	-
1059	0.007	-
1060	0.043	-
1061	0.020	-
1068	0.068	-
1069	0.024	-
1067	0.069	-
1070	0.014	-
1071	0.023	-
1072	0.063	-
1073	0.041	-
1080	0.058	-
1083	0.042	-
1084	0.001	-
1085	0.009	-
1086	0.064	-
1087	0.020	-
1090	0.064	-
1091	0.030	-
1092	0.001	-
योग . .	<u>1.700</u>	-

(ब) शासकीय भूमि निरंक
महायोग . . 1.700

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—त्योथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 898-प्रका.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—जवा

(ग) ग्राम—भटमोजरा

(घ) क्षेत्रफल—0.027 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि (1)	शासकीय भूमि (2)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

54	0.027	-
योग . .	0.027	-

(ब) शासकीय भूमि	-	निरंक
महायोग . .	0.027	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 900-प्रका.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—जवा

(ग) ग्राम—चौखण्डी 187

(घ) क्षेत्रफल—0.553 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि (1)	शासकीय भूमि (2)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

1284	0.107	-
1285	0.005	-
1286	0.046	-
1287	0.021	-
1293	0.075	-
1298	0.083	-
1329	0.001	-
1330	0.047	-
1331	0.034	-
1332	0.066	-
1337	0.057	-
1338	0.011	-
योग . .	0.553	-

(ब) शासकीय भूमि	-	निरंक
महायोग . .	0.553	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 902-प्रका.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—जवा

(ग) ग्राम—अन्दवा 8

(घ) क्षेत्रफल—0.812 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि (2)
(अ) निजी पट्टे की भूमि		
22	0.002	-
23	0.008	-
24	0.008	-
25	0.095	-
29	0.050	-
30	0.032	-
32	0.003	-
33	0.143	-
48	0.025	-
49	0.036	-
50	0.038	-
51	0.033	-
52	0.015	-
120	0.017	-
131	0.005	-
134	0.003	-
135	0.028	-
136	0.011	-
137	0.029	-
140	0.006	-
141	0.041	-
142	0.036	-
143	0.005	-
125	0.047	-
126	0.047	-
127	0.046	-
129	0.002	-
योग . .	0.812	-

(ब) शासकीय भूमि

महायोग . . 0.812

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—त्योथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 904-प्रका.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—जवा

(ग) ग्राम—अन्दवा 6

(घ) क्षेत्रफल—1.275 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि (2)
(अ) निजी पट्टे की भूमि		
71	0.036	-
73	0.032	-
74	0.026	-
75	0.011	-
76	0.057	-
77	0.031	-
124	0.098	-
142	0.082	-
145	0.001	-
146	0.065	-
147	0.008	-
149	0.018	-
150	0.045	-
151	0.007	-
154	0.018	-
182	0.038	-
183	0.121	-
184	0.097	-
189	0.022	-
190	0.007	-
191	0.005	-
192	0.047	-

(1)	(2)	(1)	(2)		
193	0.042	-	29	-	0.009
194	0.074	-	65/2	0.040	-
195	0.003	-	71	0.232	-
228	0.001	-	72	0.638	-
229	0.028	-	73	-	0.112
230	0.001	-	74	0.072	-
246	0.107	-	78	0.515	-
247	0.012	-	80	0.624	-
249	0.110	-	82	0.104	-
250	0.004	-	84	0.010	-
251	0.007	-	85	0.081	-
257	0.014	-	86	0.158	-
योग . .	1.275	-	87	0.330	-
(ब) शासकीय भूमि	-	-	88	0.418	-
महायोग . .	1.275	-	89	0.144	-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—त्योथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.			94	0.134	-
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.			95	0.050	-
पत्र क्र. 926-प्रका.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—			100	1.680	-
अनुसूची			112	0.042	-
(1) भूमि का वर्णन—			114	0.006	-
(क) जिला—रीवा			115	0.798	-
(ख) तहसील—त्योथर			217/3	0.140	-
(ग) ग्राम—फुलदेउर			योग . .	6.348	0.121
(घ) क्षेत्रफल—6.469 हेक्टेयर.			कुल योग . .	6.469	
खसरा	अर्जित रकबा (हे. में)		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योथर बहाव योजना नहर निर्माण में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.		
नम्बर	निजी भूमि	शासकीय भूमि	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वासन, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस में किया जा सकता है.		
(1)	(2)		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,		
(अ) निजी पट्टे की भूमि			बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.		
22	0.112	-			
23	0.020	-			

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2019

क्र. D-5895-दो-2-50-2018.—डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, अनूपपुर को दिनांक 29 से 31 अगस्त 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 01 एवं 02 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रमेश साहू, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-5897-दो-2-41-2013.—श्री ए. के. तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को दिनांक 30 से 31 अगस्त 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 01 एवं 02 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. तिवारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-5899-दो-2-48-2016.—श्री तारकेश्वर सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को दिनांक 26 से 30 अगस्त 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री तारकेश्वर सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री तारकेश्वर सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-5901-दो-2-14-2014.—श्री अमर नाथ, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को दिनांक 28 से 30 अगस्त 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अमर नाथ, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमर नाथ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2019

क्र. B-4632-दो-41-2017.—श्री आर. बी. गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 16 से 20 सितम्बर 2019 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में 15 सितम्बर 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-4634-दो-2-8-2012.—श्रीमती सुनीता यादव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 15 जुलाई से 31 अगस्त 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए अड़तालीस दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 एवं 02 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुनीता यादव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुनीता यादव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-5903-दो-2-86-2018.—श्री पी. के. सिन्हा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को दिनांक 29 से 31 अगस्त 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 01 से 02 सितम्बर 2019 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री पी. के. सिन्हा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. के. सिन्हा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-5905-दो-2-36-18.—श्री तारकेश्वर सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-

ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3440-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 07 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2017 से 30 सितम्बर 2019 तक 23 माह की अवधि के लिए 29 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के
आदेशानुसार,
अजय पवार, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 09 सितम्बर 2019

क्र. 195-सीजे-दो-1329-शुद्धि-पत्र.—रजिस्ट्री द्वारा जारी आदेश क्रमांक 191, दिनांक 07 सितम्बर 2019 की तीसरी पंक्ति में "resolved that" के स्थान पर "resolved to grant full pay and allowances to" पढ़ा जावे।

प्रेम नारायण सिंह, प्रिंसीपल रजिस्ट्रार (सतर्कता).